

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पंडितरुद्रमणिविरचितः
प्रश्नशिरोमणिः



ढाडौललश्रामवास्तव्यपंडितरामदयालुविर-
चित-भावार्थबोधिनीभाषाटीकासहितः ।

सोऽयम्

श्रीकृष्णदासात्मजेन गंगाविष्णुना
स्वकीये “ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” मुद्रणागारे
मुद्रयित्वा प्रकाशितः ।

शकाब्दाः १८३३, संवत् १९६८,

कल्याण-मुंबई.

अयं प्रथम प्रकाशयित्रा राजकीयानुशासनानुसारेण

मुद्रणसाधारणीकृतः ।

ज्योतिषग्रन्थाः ।

३७३	कर्धप्रकाशं ज्योतिष भाषाटीका इसमें तेजी मदी बस्तु देखनेका विचार है	...	क ०-४	०-॥
३७४	अयोध्याजातक ज्योतिष भाषाटीका		क ०-४	०-॥
३७५	कररेखासह्यावली (छन्दबद्ध सुगमसांख्यिक) खे		०-४	०-॥
३७६	केरलमत प्रश्नसंग्रह इसमें प्रश्न देखनेके है श्री		०-४	०-॥
३७७	गर्गिनोरमा भाषा और सरस्वत टीकासह ह		०-३	०-॥
३७८	ग्रहगोचर भा० टी०	...	क ०-२	०-॥
३७९	ग्रहलाघव भा० टी०	...	क १-०	०-२
३८०	ग्रहशांति सरस्वत (अतिलक्ष्म)	श्री	०-१०	०-२
३८१	चमत्कारचिन्तामणि भाषाटीका	...	क ०-४	०-॥
३८२	जन्मपत्र और वर्षपत्रके फार्मि प्रत्येकका		क ०-१॥	०-॥
३८३	जातकालङ्कारभाषाटीका	...	क ०-६	०-१
३८४	जातकालङ्कारसटीक	...	क ०-६	०-१
३८५	जातकचंद्रिका भा० टी० आयुत्तम		क ०-१२	०-२
३८६	जातकामरण मूल ग्लेज	...	क ०-१२	०-२
३८७	रफू कागजका	...	क ०-१०	०-२
३८८	जातकामरण भा० टी०	...	शा १-८	०-२
३८९	जैमिनीसूत्रसटीक चार अध्याय	...	खे ०-७	०-१
३९०	जैमिनीसूत्र भा० टी०	...	क ०-१०	०-१

३९१	ज्योतिषग्रन्थसंग्रह भा० टी० ग्लेज	क २-८	०-४
३९२	” रफू	क २-०	०-४
३९३	ज्योतिषसार भाषाटीका सहित	...	क १-०
३९४	ज्योतिषकी लावणी	...	क ०-१
३९५	ज्योतिःशास्त्र निबंधु	...	क ०-२
३९६	तत्त्वप्रदीप (जातक-ग्रन्थ देखने योग्य)	क ०-४	०-॥
३९७	ताजिकनीलकण्ठीसटीकतन्त्रयामक (१)	१-०	०-२
३९८	ताजिकनीलकण्ठी महीधरकृत भाषाटीका खे	१-८	—४
३९९	ताजिकयूपण भाषाटीका	...	खे ०-८
४००	दैवज्ञविनोद (ज्योतिषग्रन्थ)	...	मनीराम २-०
४०१	नष्टजन्माङ्गदीपिका और पचागदीपिकाग्रन्थ-पद्यटीका समेत (ऐसी उपयोगी कुनीहैं जो हजारों ह० खर्चसेभी बख्खभ्यहैं ज्योतिषी इससे अपमूल्य लाभ पावेंगे)	...	क ०-४
४०२	परीक्षा चक्रावली प्रश्नप्रंथ भा० टी०	क ०-४	०-॥
४०३	पहड़ीपतन भाषाटीका	...	क ०-१॥
४०४	परमसिद्धान्त ज्योतिष (यह ग्रन्थ ज्योतिष-श्रुतके ज्ञानमें अत्यंत उपयोगी है)	खे २-०	०-४
४०५	पत्रनिर्पदीपक भाषाटीकासहित	...	श्री १-०
४०६	पञ्चानिधिपत्र सवत् १९६१ का	...	क ०-१॥
४०७	” तथा १९६२ का	...	क ०-१॥

४०८ पंचपक्षी सटीक (१) ०-४ ०-॥
 ४०९ पंचपक्षी सपरिहार भाषाटीका समेत खे ०-६ ०-१
 ४१० पक्षकोश भा० टी० क ०-३ ०-॥
 ४११ प्रारब्धप्रकाश क ०-१ ०-॥
 ४१२ प्रश्नचिन्धेश्वर भाषाटीका.... खे ०-१२ ०-२
 ४१३ प्रश्नवैष्णवभाषाटीका (अनेकप्रश्नोंका मली-
 भाति वर्णन है) खे ०-१० ०-१
 ४१४ प्रश्नपयोनिधि भाषाटीका क ०-२ ०-॥
 ४१५ बालबोधज्योतिष.... क ०-२ ०-॥
 ४१६ बालबोध ज्योतिष भाषाटीका श्री ०-६ ०-१
 ४१७ बृहन्मुहूर्तसिंधु खे २-० ०-४
 ४१८ बृहदवकहडाचक्र (होडाचक्र)भा० टी० क ०-४ ०-॥
 ४१९ बृहत्पाराशरी (हेरा) श्री ५-० ०-१०
 ४२० बृहद्देशिमाला अर्थात् बारहो राशिकाफल क ०-१॥ ०-॥
 ४२१ बृहत्साहिता भा० टी० ग्लेज क ४-० ०-८
 ४२२ ” तथा रफ् क ३-८ ०-६
 ४२३ बृहज्जातकसटीक जिख्दका क १-८ ०-४
 ४२४ ” ” खुलपत्रा क १-४ ०-२
 ४२५ बृहज्जातकभाषाटीकाअन्युत्तम महीधरकृत क १-८ ०-४
 ४२६ बृन्दावली (ज्योतिष) अर्थात् नष्ट
 जन्मांगदीपिका क ०-४ ०-॥

४२७ बृहवैवर्जरंजन (संस्कृत) अवश्य देखिये* क २-८ ०-४
 ४२८ मड्डरकृतछोकशकुन विचारदि
 अनक नाते क ०-१० ०-॥
 ४२९ वीरसिंहाव्योकिन ज्योतिषशास्त्रादिकर्मविपाक-
 चिकित्सा नवीन टाईपमें अतिउत्तम (१) १-१२ ०-४
 ४३० भावकुतुहल भाषाटीका खे १-० ०-२
 ४३१ सुवनदीपकभाषाटीका और संस्कृतटीका क ०-८ ०-१
 ४३२ मकरदसारिणी उदाहरण सहित खे ०-१० ०-२
 ४३३ मयूर चित्रक भा० टी० क ०-६ ०-१
 ४३४ ” मूल क ०-३ ०-॥
 ४३५ मानसप्रश्नार्दापिका भाषा खे ०-३ ०-॥
 ४३६ मासचिन्तामणी भा० टी० क ०-३ ०-॥
 ४३७ मनसागरीपद्धति संस्कृत भा० टी० क २-८ ०-४
 ४३८ मुहूर्तचिन्तामणी भाषाटीका प० महीधरकृत क १-० ०-३
 ४३९ मुहूर्तचिन्तामणि प्रतिभाक्षरटीका सह क १-४ ०-२
 ४४० मुहूर्तमार्तण्ड संस्कृत भाषाटीकासह खे १-० ०-२
 ४४१ मुहूर्तचिन्तामणि पीयूषधारा टीका ग्लेज क २-८ ०-५
 ४४२ ” तथा रफ् कागजका क २-० ०-६
 ४४३ मुहूर्तगणपति भा० टी० अतिउत्तम श्री १-८ ०-५

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“ लक्ष्मीविकेटेश्वर ” छापाखाना, कल्याण-मुंबई.

भूमिका ।

सर्व सज्जन विद्वान् पुरुषोंको विदित हो कि यह प्रश्नशिरोमणिनामक बृहत् ग्रंथ श्रीयुतवाल्मीकवंशावतंसत्रिपाठिपण्डितराजरुद्रमणिविरचित है । इसके आद्यन्तलेखसे यह ज्ञात होता है कि आप जगदम्बादेवीके परम भक्त थे, इस ग्रंथकी मनोहर सुकलित कविता अवलोकन करनेसे श्रीयुत पण्डितराजका विद्वत्तागौरवमी विद्वानोंके सामने छिपा नहीं रहता, आप व्याकरण, कोश, काव्य, छन्दोग्रंथ, ज्योतिःशास्त्रादि विद्योदधिके पारगामी प्रतीत होते हैं, परन्तु यह नहीं जान पड़ता कि श्रीमत्पण्डितजी महाराजका निवासस्थान तथा इस ग्रंथका निर्माणसमय क्या था, यह ग्रंथ मेरे पास तो १०० वर्षसे अधिक समयका हस्तलिखित, जीर्ण, शीर्ण तथा अशुद्धरूपसे उपस्थित था, मैंने परोपकार विचार कर बड़े परिश्रमसे इसको शुद्धता पूर्वक भाषानुवादविभूषित करके श्रीयुत सेठ गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदासजीको छापनेके लिये इस कारणसे समर्पण कर दिया, कि संसारमें ग्रंथकर्त्ताका नाम यश विख्यात होनेसे उनका परिश्रम सफल हो और षडङ्ग वेदका नेत्रभूत ज्योतिःशास्त्रान्तर्गत प्रश्नग्रन्थही तात्कालिक अद्भुत फल कहनेमें प्रधानतया सर्वोपरि विराजमान है, सो प्राचीन उत्तम उत्तम प्रश्नके बृहद् ग्रन्थ तो बहुधा पण्डितोंने अभीतक छिपा रखे हैं और जो कुछ छोटे प्रश्नग्रन्थ, जैसे षट्पञ्चाशिका, प्रश्नप्रदीप, भुवनदीपक, प्रश्नभैरव, प्रश्नसिन्धु आदि प्रकटरूपसे प्रचलित हैं उनके द्वारा प्रश्नका फल यथावत् वर्णन नहीं हो सकनेसे प्रश्नकर्त्ता और प्रश्नफल-वक्ता दोनोंका चित्त प्रसन्न नहीं होता इसी कठिनताके दूर करके लिये इस अलौकिक ग्रंथका प्रकाशित करना उचित समझकर उपर्युक्त मुंबईवास्तव्य सेठजीको छापनेका हकभी पूर्णरूपसे दे दिया गया है । मैं निष्कपटतापूर्वक कहना हूँ कि, विद्वान् ज्योतिषियोंको इसी अकेले ग्रंथके पास रखनेसे अन्य प्रश्नग्रंथकी आवश्यकता न रहेगी, क्योंकि ग्रन्थकर्त्ता महाशयने अपने विचारसे प्रश्नकी कोई बात शेष नहीं छोड़ा है, प्राचीन महर्षिप्रणीत नाना प्रश्नग्रंथोंका साररूप यह ग्रंथ निर्माण किया है और इसका नाम प्रश्नशिरोमणि चरितार्थही रक्खा है । अब मैं अतमें समस्त विद्वानोंसे प्रार्थना करता हूँ कि, इसमें जहां कहीं त्रुटि, अशुद्धि हो उसको कृपया सुधारकर क्षमा करेंगे ।

सर्वविद्वज्जनानुरागी पं०—रामदयालुशर्मा,

ग्राम० ढाडौली, पोस्टाफिस वहजोई.

जि० सुरादावाद.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ

प्रश्नशिरोमणिस्थविषयानुक्रमणिका ।

विषयाः	पृष्ठांकः	विषयाः	पृष्ठांकः
मंगलाचरणम्	१	स्त्री सती न वेति प्रश्ने विचारः	२४
अथ संक्षेपाध्यायः ।		कन्याशुद्धत्वप्रश्ने विचारः	२५
कार्त्तिसिद्धिकथनम्	३	वरप्राप्तिप्रश्ने विचारः	२६
युगपद्बहुप्रश्ने विचारः	४	वधू कीदृशीति प्रश्ने विचारः	२७
इदानीं किं लग्नमिति प्रश्ने विचारः	५	तुष्टा स्त्री ममेष्यतीति प्रश्ने विचारः	२७
सामान्यप्रश्ने विचारः	५	स्त्रीपुंसोः प्रीतिप्रश्ने विचारः	२८
प्रष्टा कीदृश इति प्रश्ने विचारः	५	विषकन्याप्रश्ने विचारः	२८
भूतं भवद्भविष्य सौख्यं न वेति प्रश्ने		भागमनप्रश्ने विचारः	२९
विचारः	६	पांशुश्चलितो न वेति प्रश्ने विचारः	३०
स्थिरादिफलम्	७	किमध्या पांथेनातिवाहित इति	
अथ विशेषाध्यायः ।		प्रश्ने विचारः	३१
धनलाभप्रश्ने विचारः	७	यदसौ गृहं नागतो हतो बद्धो न वेति	
संततिप्रश्ने विचारः	९	प्रश्ने विचारः	३१
प्रष्टुः किमायुः शिष्टं वा गतमिति प्रश्ने		कदैष्यतीति प्रश्ने विचार	३१
विचारः	११	स्वस्थोऽयं प्रवासी गृहमागतो न वेति	
अर्कादिग्रहगुणादिवर्णनम्	११	प्रश्ने विचारः	३१
प्रथमद्रेष्काणांगविभागः	१३	दूरस्थजीवितप्रश्ने विचारः	३२
द्वितीयद्रेष्काणांगविभागः	१३	यात्राप्रश्ने विचारः	३३
तृतीयद्रेष्काणांगविभागः	१३	कदा चलिष्यतीति प्रश्ने विचारः	३६
गर्भे किमिति प्रश्ने विचारः	१७	विश्रामप्रश्ने विचारः	३७
गर्भभ्रांतिप्रश्ने विचारः	१९	गंतुरभिमुखं कः करिष्यतीति प्रश्ने	
गर्भक्षेमप्रश्ने विचारः	२०	विचारः	३७
बालानां जीवितप्रश्ने विचारः	२१	कस्य समीपे यातीति प्रश्ने विचारः	३८
गर्भः कस्योति प्रश्ने विचारः	२१	गंता पुनः कदैष्यतीति प्रश्ने	
प्रसवप्रश्ने विचारः	२१	विचारः	३८
मम भ्रात्रादयः स्वस्था न वेति		मार्गफलम्	३९
प्रश्ने विचारः	२२	पुरप्रवेशादकस्मात्फलमस्ति न वेति	
विवाहप्रश्ने विचारः	२२	प्रश्ने विचारः	४०

विषयाः	पृष्ठांकः	विषयाः	पृष्ठांकः
इदं स्थानं कौटिल्येति प्रश्ने विचारः	४१	व्ययप्रश्ने विचारः	८४
अमुकपार्श्वे यामि स मिलाति न वेति		स्वामिभृत्यप्रश्ने विचारः	८५
प्रश्ने विचारः	४१	प्रभोः कौटिल्ये चित्तमिति प्रश्ने	
राज्यलाभप्रश्ने विचारः	४१	विचारः	४१
नृपमंत्रिप्रीतिप्रश्ने विचारः	४३	अयमन्यो वा प्रभुर्मन्य इति प्रश्ने	
राज्यं चरं स्थिरं वेति प्रश्ने विचारः	४१	विचारः	४१
मम राजदर्शनं भविष्यति न वेति		स्वपतिः शुभो वान्यपतिरिति	
प्रश्ने विचारः	४४	प्रश्ने विचारः	४४
जयपराजयप्रश्ने विचारः	४५	वाटिकाक्षेत्रादिखाभप्रश्ने विचार	८६
चारप्रश्ने विचारः	४९	भूभाटकप्रश्ने विचारः	८७
दिग्विजयप्रश्ने विचार	४१	भृत्यचतुष्पदप्रश्ने विचारः	४१
यायिनां शुभाशुभप्रश्ने विचारः	६३	बधमोक्षप्रश्ने विचारः	८८
यातुर्निवृत्तिप्रश्ने विचारः	४१	बद्धमोक्षचक्रम्	९१
ज्ञात्रोरागमने श्रुते आगमनं भविष्यति		सभाया नृपेण गुप्तदत्तो लेखः कौटिल्ये	
न वेति प्रश्ने विचारः	६४	इति प्रश्ने विचारः	४१
संघट्टचक्रम्.....	५६	राज्ञो ग्रामादिमुद्रालिखितप्राप्तप्रश्ने	
राशिसंघट्टचक्रम्	६७	विचारः	९२
नक्षत्रसंघट्टचक्रम्	४१	यस्मै लेखो दत्तः सम्राट्स्तेन मानितो	
कोटचक्रम्	६०	न वेति प्रश्ने विचारः	४१
सर्वतोभद्रचक्रम्	६३	पत्रोत्तरप्रश्ने विचारः	४१
तुरंगराहुविचारः	७१	लेखप्राही कदैष्यतीति प्रश्ने विचारः	४१
स्कंधफलम्	७२	वार्तेयसत्या मिथ्या वेति प्रश्ने विचारः	४१
उदरफलम्	४१	उत्पातमयनाशो भविष्यति न वेति	
कटिफलम्	४१	प्रश्ने विचारः	९३
सेनापतेः शुभाशुभज्ञानम्	७३	जिघांसया व्रजतो मे किं भविष्यतीति	
कस्यांगस्य घात इति प्रश्ने विचारः	४१	प्रश्ने विचारः	९४
दुर्गभगप्रश्ने विचारः	७४	बहुषु कार्येषु कस्य सिद्धिरिति प्रश्ने	
लग्नेशफलम्	७८	विचारः	४१
वादप्रश्ने विचारः	७९	निधिवस्तुसिंहादिसंशयप्रश्ने विचारः	४१
रोगप्रश्ने विचारः	८०	नौकागमनप्रश्ने विचारः	९६
संततवाघादिषु देवादिदोषज्ञानम्	८३	उत्पातप्रश्ने विचारः	९७
मित्रेण प्रीतिर्वा सगमो भविष्यति		सस्यजातकम्	१०२
न वेति प्रश्ने विचारः	८४	प्रतिवर्षं शुभाशुभज्ञानम्	१०४
गुप्तकार्यप्रश्ने विचारः	४१	मृगयाप्रश्ने विचारः	४१

विषयाः	पृष्ठांकः	विषयाः	पृष्ठांकः
राशिजातयः	१०७	चौरमोक्षप्रश्ने विचारः	१६३
नक्षत्रजातयः	”	विस्मृतिप्रश्ने विचारः	”
कुत्रांगे घात इति प्रश्ने विचारः	”	अमुक कार्यं कर्तुं यामि न वेति	
अत्रुरस्ति न वेति प्रश्ने विचारः	१०८	प्रश्ने विचारः	१६४
धातुवादप्रश्ने विचारः	”	नष्टधनप्रश्ने विचारः	”
मूकमुष्टिप्रश्ने विचारः	१०९	पतितधनप्रश्ने विचारः	१६६
सुगमोपायः	११०	धनभांतिप्रश्ने विचारः	”
द्रव्यबहुत्वे चिंत्यम् ...	११२	नष्टभृत्यप्रश्ने विचारः	१६७
राशिसंज्ञाचक्रम्	१२०	विभागप्रश्ने विचारः	”
ग्रहसंज्ञाचक्रम्	१२२	कुत्र गत इति प्रश्ने विचारः	१६८
चिंताप्रश्ने विचारः	१२६	क्रयविक्रयप्रश्ने विचारः	”
यद्वेदुनंदांशतः फलम्	१३०	समर्घमहर्घप्रश्ने विचारः	१६९
तात्कालेदुः	१३१	वर्षाप्रश्ने विचारः	१६०
तात्कालिकर्क्षचरणायनम्	१३४	विशेषयोगाः	१६१
नवांशस्पष्टसाधनम्	१३६	सप्तनाडीचक्रम्	१६४
किं करोतीति प्रश्ने विचारः	१३८	वृष्टियोगाः	१६६
चौर्याय यामीति प्रश्ने विचारः	”	शुक्रोदयफलम्	१६९
किमाप्यमिति प्रश्ने विचारः	१३९	हुताशनीफलम्	”
चौर्यवनचौर्ययोः स्थानादिलाभप्रश्ने		भोजनप्रश्ने विचारः	१७०
विचारः	”	मुक्त भोक्तव्यं वेति प्रश्ने विचारः	१७३
नामबंधः	१४९	स्ववैरिणा निर्मत्रितोऽहं शुभमशुभं वा	
नवांशवर्णाः	१५०	भविष्यतीति प्रश्ने विचारः	”
विशेषः	१५१	स्वप्नप्रश्ने तथा सुरतप्रश्ने विचारः	”
मात्रानिक्षयः	१५२	प्रश्नमाला	१७७

इति विषयानुक्रमणिका समाप्त ।

पुस्तकें मिलनेका ठिकाना—

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
 “लक्ष्मीवेंकटेश्वर” छापाखाना,
 कल्याण—मुंबई.

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ

प्रश्नशिरोमणिः ।

मंगलाचरणम् ।

प्रणम्य भक्त्याच्युतविच्युतापदं सदासदानन्दपदं शिवापदम् ॥

त्रिपाठिवाल्मीकजरुद्रपण्डितस्तनोति सत्प्रश्नशिरोमणिं मणिम् ॥१॥

जगत्प्रबोधप्रदभास्करं प्रभुं सुरासुरैः सेवितपादपंकजम् ।

प्रकाशकं विश्वगुरुं गुणाकरं प्रणम्य भक्त्याऽखिलकर्मसिद्धिदम् ॥ १ ॥

भाषानुवादं सरलं सुबोधं कुर्वे च सत्प्रश्नशिरोमणेर्वै ।

श्रीपण्डितो रामदयालुशर्मा ढाढौल्लिवास्तव्य इति प्रसिद्धः ॥ २ ॥

अच्युत (विष्णु) भगवान्ने दूर की हैं आपदा जिन्होंकरके अर्थात् विष्णुने जिन चरणोंके अवलम्बनसे नाना प्रकारकी आपत्तियां हटाई हैं ऐसे श्रीमती पार्वतीजीके चरण, जो कि सदा सत्, अखण्ड आनन्दके स्थान हैं, तिनको भक्तिसे प्रणाम करके वाल्मीकवंशोद्भव त्रिपाठिरुद्रमणिपण्डित सत्प्रश्नशिरोमणिरूप मणि (रत्न) का विस्तार करते हैं ॥ १ ॥

अथ संक्षेपाध्यायः ।

वपुषि रूपवयोगुणजातिसाहससुखच्युतिलक्ष्म विचिन्तयेत् ॥

कनकरत्नधनक्रयविक्रयप्रचयकोशकथाश्च धने तथा ॥ २ ॥

शरीरका रूप, अवस्था, गुण, जाति, साहस, सुखच्युति (सुखकी हानि) और शरीरके चिह्न ये सब प्रथम घरमें चिन्तन करे । सुवर्ण, रत्न, धन, खरीदना, बेचना, इकट्ठा करना, खजाना इन सबका विचार दूसरे घरमें करना ॥ २ ॥

यदुपजीविपराक्रमकिङ्करोद्यमसहोत्थमतं त्रितये तथा ॥

पुरगृहेशचतुष्पदवाटिकाविवरवेशधरौषधमम्बिकाम् ॥ ३ ॥

अपने सहारेसे आजीविका करनेवाले नौकरोंका, पराक्रमका, सेवकोंका, उद्यम, भाई, बहिनका विचार तीसरे घरमें करना । ग्राम, मकान, स्वामी, चौपाये, फुलवाडी, विलमें धसना वा सुरंग लगाना, गृहप्रवेश, जमीन, औषध, माता ॥ ३ ॥

सदनमागतमेव च वप्रकं सुहृदि वृद्धिखलौ च विचिन्तयेत् ॥

मतिविबन्धनयात्मजदोहदाध्ययनमंत्रकलाः सुतमे तथा ॥ ४ ॥

घर आया हुआ जन, मेंढाकोट, वृद्धि, धान्य कूटने गाहनेका स्थान इन सबका विचार चतुर्थ घरमें करे, बुद्धि, प्रबन्ध (नवीन शास्त्रोंकी कथा अथवा वंदोवस्त), नीति, पुत्र, गर्भ, विद्या पढना, मंत्र, चौसठ कला इन सबका विचार पांचवें घरमें करना ॥ ४ ॥

महिषरुग्निपुदाहनमातुलोष्ट्रभयशंकितगा रिपुभे तथा ॥

शयनवादगमागमविक्रयक्रयवधूविनिवृत्तिरताः स्त्रियाम् ॥ ५ ॥

भैस, भैसे, रोग, वैरी, जलाना आदि कर्म, मामा, ऊंट, भय, शत्रु इन सबका विचार छठे घरमें करना । शयन, वादविवाद, झगडा, जाना, आना, खरीदना, बेचना, वधू, लौटना, रति, स्त्री इन सबका चिन्तन सातवें घरमें करना ॥ ५ ॥

विषमदुर्गनदीतरणाध्वशस्त्रगतदष्टमृताश्च रणक्रियाम् ॥

सहजवैरिवधूरिपुवादरन्ध्रमुखरादि मृतौ परिविन्तयेत् ॥ ६ ॥

विषम, दुर्ग (ऊंचा, नीचा) अथवा जलस्थल आदिसे दुष्प्रवेश किलेका तोडना, कलह करना, नर्दामें तैरना, मार्गकी कुशलता, शस्त्रसे घायल, कुत्ते सर्पादिसे काटा हुआ, मृतक, युद्ध करना, भाईका शत्रु, वधू, वैरि, वाद अथवा व्याधि, छिद्र, शाकिनीडाकिनीकृत दोष, मुखर (वाचाल, बकवादी), मृत्यु इन सबका विचार आठवें घरमें करना ॥ ६ ॥

सुकृतभाग्यसुशीलतटाककूपसुरतीर्थगतीर्गुरुदेवरौ ॥

श्वशुरजं सहजं श्वशुरं तथा नवमभेऽप्यभिषेकमथोऽङ्कभात् ॥७॥

धर्म, भाग्य, सुन्दर शील, तटाक, कूप, देवयात्रा, तीर्थयात्रा, गुरु, देवर, श्याल, भाई, श्वशुर, राज्याभिषेक इन सबका चिन्तन नवम घरमें करना चाहिये ॥ ७ ॥

गगनवृत्तनृपास्पदमुद्रिकाजनकवृष्टिभनस्विनृपान् स्वभे ॥

कनकसस्यनृत्यानगजाम्बराश्वमणिलाभकचश्वशुरान् भवे ॥

व्ययगृहे व्ययदण्डविबन्धहानिपशुदानपितृव्यकमातुलीः ॥ ८ ॥

आकाशका वृत्तान्त, राजगद्दी, राजमुद्रा (राजाकी मुहर, छाप अथवा रूपया ढालना आदि), पिता, वृष्टि, शूरवीर, राजा इनका विचार दशवें घरमें करना । सुवर्ण, धान्य, नृत्यान (पालकी), हाथी, वस्त्र, घोडा, मणि इनका लाभ, बाल, श्वशुर इन सबका विचार ग्यारहवें घरमें करना । खर्च, दण्ड, बन्धन, हानि, पशु, दान, पिताका भाई चाचा आदि, मामी इन सबका विचार बारहवें घरमें करना चाहिये ॥ ८ ॥

१ वाद्य इति पाठः । अर्थ—ब्राजेके मले बुरे होनेका विचार ।

अथ कार्यसिद्धिकथनम् ।

यदि वपुःकृतिपौ गृहसंगतौ त्रिलवमेकमितौ कृतिसिद्धिदौ ॥९॥

यदि लग्नेश और कार्येश लग्नमें स्थित हों एक योग अथवा कार्यगृहमें स्थित हों दूसरा योग, अथवा एक द्रेषकाणमें स्थित हों तीसरा योग तो कार्यकी सिद्धि करते हैं ॥ ९ ॥

तनुपस्तनुकार्यकार्यनाथान् कृतिपः कार्यवपुर्वपुःपतींश्च ॥

सुविधुस्तनुकार्यपौ च पश्येद्यदि नूनं सकलार्थकार्यसिद्धिः ॥१०॥

लग्नेश यदि लग्न, कार्य, कार्येशको और कार्येश यदि कार्य, लग्न, लग्नेशको देखता हो तो कार्य सिद्ध होता है, एवं पापग्रहरहित पूर्ण चंद्रमा लग्नेश, कार्येशको देखता हो तो निश्चयही सब प्रयोजन और कामोंकी सिद्धि होती है ॥ १० ॥

तनुकार्यपचंद्रतः कबूलं यदि सर्वार्थकरं ततश्च दृष्टिः ॥

मिथ इष्टफलाद्दयदेष्टं निजनाथेक्षितमुग्रदृष्टिहीनम् ॥ ११ ॥

यदि लग्नेश कार्येशका चंद्रमाके साथ कंबूल योग होवे तो सब काम सिद्ध करता है और जो परस्पर दृष्टि हो अथवा अपने स्वामीकरके देखा गया हो, पापग्रहकी दृष्टिरहित हो तो इष्ट कार्य आधा सिद्ध होता है ॥ ११ ॥

सचतुःशुभद्वक्समग्रसिद्धिर्यदि तद्विनिशुभस्वनाथदृष्टम् ॥

स्वपदोनफलप्रदं यदेष्टं सशुभस्वेशदशार्द्धसत्फलं स्यात् ॥ १२ ॥

यदि लग्न वा कार्यपर चार शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो समग्र कार्य सिद्ध होता है, अथवा दो तीन शुभ ग्रह तथा निज नाथसे दृष्ट हो तो पादोन कार्य सिद्ध होता है और लग्न कार्यको यदि एक शुभ ग्रह अथवा निज स्वामी देखता हो तो आधा कार्य सिद्ध होता है ॥ १२ ॥

यदि सौम्ययुगिष्टमंगनाथे क्षणवत्पादफलप्रदं प्रदिष्टम् ॥

प्रबलावुदितौ च लग्नकार्याधिपती तत्फलदौ न चास्तनष्टौ ॥१३॥

लग्न कार्य यदि शुभ ग्रहसे युक्त हो और लग्नेशसे दृष्ट हो तो चौथाई कार्य सिद्ध होता है और यदि लग्नेश कार्येश बलवान् होकर उदयको प्राप्त हों और अस्त, विनष्ट (क्रूराक्रान्त) न हों तो कार्यकी सिद्धि देते हैं ॥ १३ ॥

युगपद्बहुप्रश्ने विचारः ।

प्रथमे तनुभं द्वितीय इन्दोस्तरणेर्भ त्रितयं गुरोश्चतुर्थे ॥

अनुयोगगते वदेच्च नीचास्तगताद्भ्रकविवर्जिताद्गुरोर्ना ॥ १४ ॥

प्रथम प्रश्नमें लग्नसे, द्वितीयमें चंद्रमासे, तृतीयमें सूर्यसे, चतुर्थमें बृहस्पतिसे विचार करना चाहिये, परन्तु यदि बृहस्पति अस्त अथवा नीच और वक्र ग्रहसे वर्जित न हो भावार्थ यह है कि चतुर्थ प्रश्नमें बृहस्पतिस्थ भावको लग्न मानकर प्रश्न बताना चाहिये, यदि बृहस्पति नीच वा अस्तका हो तो जहां कहीं वक्र ग्रह हो उसके भावको लग्न मानकर, यदि बृहस्पतिही वक्री हो तो उसकेही भावको लग्न मानकर प्रश्न बताना चाहिये, उस समय अस्तत्व नीचत्वपर ध्यान नहीं देना चाहिये ॥ १४ ॥

भृगुभौमविदां च पंचमे भं सबलस्यैव न चान्यखेचरस्य ॥

अथ कायचतुर्मांवरस्वैः क्रमतो वात्र वदेत्तुं मनीषी ॥ १५ ॥

पंचम प्रश्नमें शुक्र, मंगल, बुध इन तीन ग्रहोंमें जो अधिक बलवान् हो उसके भावको लग्न मानकर और षष्ठ प्रश्नमें उस पूर्वोक्त अधिक बलवान् ग्रहसे कुछ न्यून बली ग्रहके भावको लग्न मानकर और सप्तम प्रश्नमें इस पूर्वोक्त न्यून बली ग्रहसेभी जो हीनबली ग्रह है उसके भावको लग्न मानकर पृच्छकका प्रयोजन बताना चाहिये, भावार्थ इस प्रकार समझना चाहिये कि शुक्र, मंगल, बुध इन तीनोंमें सबसे अधिक बली शुक्र, इससे कुछ न्यून बली मंगल और मंगलसेभी हीन बली बुध है तो पांचवें प्रश्नमें शुक्रयुक्त भावको लग्न मानकर पृच्छकका प्रयोजन बताना और छठे प्रश्नमें मंगलयुक्त भावको तथा सातवें प्रश्नमें बुधयुक्त भावको मानकर प्रश्नभाव वर्णन करना और अन्य ग्रहके भावको लग्न मानकर पञ्चमादि प्रश्नोंको नहीं कहना, इसके बाद लग्न, चौथा, सातवां, दसवां, दूसरा इन भावोंको लग्न मानकर क्रमसे पांच प्रश्न बुद्धिमान् पंडित कहे ॥ १५ ॥

इदानीं किं लग्नमिति प्रश्ने विचारः ।

प्रश्नाद्यक्षरवर्गेशो लग्नेशस्तत्समाक्षरैः ॥

समं लग्नं च विषमैस्तैरेवं विषमं वदेत् ॥ १६ ॥

प्रश्नके आद्य अक्षरका जो वर्गेश और लग्नेश इन दोनोंके अक्षरोंकी सम संख्या हो तो सम और विषमसंख्या हो तो विषम लग्न कहे ॥ १६ ॥

प्रारम्भे सर्वकार्याणां गणयेत्लग्नभावाधि ॥

सूर्यभादेः क्रमात्संपद्धिपच्चेति फलं वदेत् ॥ १७ ॥

सब कार्योंके प्रारम्भमें सूर्यकी राशिसे लग्नकी राशितक गिनकर क्रमसे संपत् तथा विपत् फल कहे ॥ १७ ॥

अथ सामान्यप्रश्ने विचारः ।

पृच्छेकंस्तनुपतिः कृतिनाथः प्रश्नपः खलु तयोः क्रमशश्च ॥

जातिरूपगुणवर्णवयांसि प्रोचरेत्तदनु तत्फलमिष्टम् ॥ १८ ॥

पृच्छनेवाला लघेश है और प्रश्नका पति कार्येश है सो क्रमसे उन दोनोंकी जाति, रूप, गुण, वर्ण और अवस्था वर्णन करे, तत्पश्चात् उसका इष्ट फल बतावे ॥ १८ ॥

तनुकार्यपती स्वभावयातौ यदि वा कार्यपतिस्तनौ च लघेद् ॥

कृतिभागवतोऽथवांगकार्याधिपती लग्नगतौ हि वाकृतिस्थौ ॥ १९ ॥

लघेश, कार्येश अपने अपने भावमें स्थित हों अथवा कार्येश लग्नमें हो, लघेश कार्य-भावमें हो, अथवा लघेश कार्येश लग्नमें हो वा यदि कार्यभावमें हों तो वांछित कार्यकी सिद्धि होती है ॥ १९ ॥

यदि वाञ्छितसिद्धिरत्र योगे विधुदृष्टिः स्वचरद्वयेऽतिसाध्वी ॥

यदि नेंदुनिरीक्षणं हि सौम्यग्रहदृष्टिस्तदिहान्यकार्यसिद्धिः ॥ २० ॥

यदि इन्हीं योगोंमें (स्वचरद्वये) दोनों ग्रह कार्येश लघेशपर चंद्रमाकी दृष्टि हो तो बहुत अच्छी कार्यकी सिद्धि होती है, यदि चंद्रमा नहीं देखता हो और अन्य किसी शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो किसी अन्य कार्यकी सिद्धि होगी, इष्ट कार्यकी नहीं ऐसा कहे ॥ २० ॥

प्रष्टा कीदृश इति प्रश्ने विचारः ।

तनौ विधौ कंटकगेऽर्कसूनौ बुधेऽर्कलुप्ते च कुजेन्दुजाभ्याम् ॥

समेक्षणेनेक्षितशीतभानौ प्रष्टा भवेद्वै कुटिलस्तदानीम् ॥ २१ ॥

लग्नमें चंद्रमा, केंद्र (१।४।७।१०) में शनि हो, बुध अस्तका हो, चंद्रमाको भंगल बुध पूर्ण दृष्टिसे देखते हों तो पृच्छनेवाला कुटिल है इस प्रकार उससमय कहे ॥ २१ ॥

लग्ने शुभेस्यात्सरलोऽन्यथा नहि यदादुजीवौ हितदृष्टिवीक्षकौ ॥

तनुस्त्रियोः स्यात्सरलो यदाऽस्तपे हिमेज्ययौरेकतमस्य वैरिदृक् ॥

तदास्तिवक्रो यदि चंद्रगीष्पाती किलैकभस्थौ सरलौ नरो भवेत् २२

लग्नमें शुभ ग्रह हों तो सरल है, अन्यथा सरल नहीं है। यदि चंद्रमा बृहस्पति लग्न, सप्तम स्थानको मित्रदृष्टिसे देखते हों तो प्रष्टा सरल है और जो उस काल सप्त-मेशपर चंद्रमा बृहस्पतिमेंसे किसी एककी वैरिदृष्टि हो तो वक्र है। यदि चंद्रमा बृह-स्पति एक राशिपर स्थित हों तो सरल है ॥ २२ ॥

भूतं भवद्भविष्यं सौख्यं न वेति प्रश्ने विचारः ।

तदित्यसाले तनुपेऽस्ति सौख्यं भविष्यति स्यात्परथात्र कष्टम् २३

यदि उन दोनों चंद्रमा बृहस्पतिका इत्थसालयोग सप्तमेशके साथ हो तो वर्तमानसमय सौख्य है और आगेभी होगा और अन्य प्रकारसे हो तो इस समय कष्ट है और आगेभी होगा ॥ २३ ॥

तनुकार्यपमुत्थशिलावसरस्य दिने कृतिपस्तनुमेत्युदितः ॥

तनुकार्यपती परिपश्यति चेत्कृतिसिद्धिरिहैव दिने नियता ॥२४

लग्नेश कार्येशका इत्थसाल जिस दिन हो और कार्येश उदय होकर लग्नमें प्राप्त हो तथा कार्येश और लग्नेश परस्पर देखते हों तो उसी दिन नियत कार्यकी सिद्धि होती है ॥ २४ ॥

अथ स्थिरादिफलम् ।

लग्नेन्दुस्थिरभे मृतं न निहतं बद्धो न नैवागतो

न स्थानाच्चलितो न वै रिपुभयं नो रोगशांतिश्च नो ॥

कष्टं केवलमेव च स्थिरतरं कर्मादि तत्तच्चरे

वैलोम्याद्धितनौ विमिश्रितफलं सद्दीक्षितं चेच्छुभम् ॥ २५ ॥

लग्न चंद्रमाकी स्थिर राशि हो तो न मारा, न बधा, न आया, न स्थानसे चला, न शत्रुकी भय, न रोगशांति, न कष्ट है; केवल अच्छी तरह ठहरा हुआ है। लग्न चंद्रकी स्थिर राशि होनेपर तत्तत् स्थिर कर्मादिभी सिद्ध होते हैं और लग्न चंद्रकी चर राशि होनेसे विलोम जानना अर्थात् प्रवासी आदि चल पडा; तथा सब चर कार्य सिद्ध होते हैं और चंद्रमा लग्नकी द्विस्वभाव राशि हो तो मिला जुला फल कहना और जो शुभ ग्रह देखते हो तो शुभ फल बताना चाहिये ॥ २५ ॥

पापैर्दृष्टमसत्फलं यदि शुभाः केंद्रत्रिकोणायगाः ॥

संसिद्धयैव खलास्त्रिगाः शुभकरास्ते केवलं कीर्तिताः ॥ २६ ॥

इति श्रीत्रिपाठिरुद्रधरकल्पिते प्रश्नशिरोमणौ संक्षेपाध्यायः ॥ १ ॥

यदि पाप ग्रह देखते हों तो अशुभ फल होता है और यदि शुभ ग्रह केंद्र (१।४।७।१०) त्रिकोण (९।५) में हों तो सिद्धि करते हैं और पाप ग्रह केवल तीन स्थानों (३।६।११) में हों तो शुभकारक कहे हैं ॥ २६ ॥

इति श्रीमत्पण्डितवेणीरामात्मजपण्डितरामदयालुकृतप्रश्नशिरोमणिभाषा-

टीकायां संक्षेपाध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

धनलाभप्रश्ने विचारः ।

धनपीतिर्विभुना तनुपेन वा स्वभवनोच्चगतः शुभवीक्षितः ॥

दुत्तरं धनदो यदि वित्तलग्नपहिमा नवपञ्चधनाङ्गाः ॥ १ ॥

धनेश यदि चंद्रमा अथवा लग्नेशके साथ अपने स्थानमें वा उच्चका हो और शुभ ग्रह उसको देखते हों तो बहुत शीघ्र धन देता है । यदि धनेश, लग्नेश और चंद्रमा नवम, पंचम, द्वितीय और लग्नमें स्थित होकर ॥ १ ॥

प्रचलिता मिथर्ईक्षितसंयुता बहुधनाय यदा बलिनः शुभाः ॥

तनयकण्टकपुण्यधनोपगाः सपदि लाभकरा न खलोपगाः ॥२॥

आपसमें एक साथ प्रचलित हों, अथवा आपसमें देखते हों वा युक्त हों तो बहुतसे धनको देते हैं और जो बलवान् शुभ ग्रह पंचम, केंद्र, नवम, द्वितीय स्थानोंमें स्थित हों तो शीघ्रही धनलाभ करते हैं, परन्तु पापग्रहके साथ न हों ॥ २ ॥

तनौ शुभः सुतगैः स्वतुंगखेटैर्भवगृहगोच्चभृगौ पुरादिलाभः ॥

स्वगृहे तनुपतिस्तनौ स्वपत्या परिदृष्टो नृपतेः स्वलाभदश्चेत् ॥३॥

लग्नमें शुभ ग्रह हो और पंचममें उच्चके ग्रह हों, ग्यारहवें भवनमें उच्चका शुक्र हो तो पुर, मकान आदिका लाभ करते हैं । लग्नेश अपने गृहका होकर लग्नमें अपने स्वामीसे दृष्ट हो तो राजासे धनकी प्राप्ति कराता है ॥ ३ ॥

इह सौम्यदृशा विपापदृष्टाः शुभयुक् चेद्रव्यपस्तनौ सुखांगेद् ॥

धनदो यदि लग्नपस्तनौ ग्लौर्भवगो लाभपयुक् सुखार्थलाभः ॥४॥

यदि लग्नमें धनेश, चतुर्थेश शुभग्रहयुक्त होकर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट, पाप ग्रहोंसे अदृष्ट हों तो धनको देते हैं । यदि लग्नेश लग्नमें और चंद्रमा लाभेशयुक्त ग्यारहवें हों तो सुखपूर्वक धनका लाभ करते हैं ॥ ४ ॥

लग्नेशवित्ताधिपयोश्च नक्तयोगेऽन्यमत्याद्धनमेति पृच्छकः ॥

वित्तं च विन्देद्यमयाख्ययोगे द्वयोश्च पापार्दितयोर्न वित्तम् ॥५॥

लग्नेश और धनेशका नक्तयोग होवे तो पंछनेवाला धन पाता है तथा यमयायोग होनेपरभी द्रव्यका लाभ होता है । यदि लग्नेश धनेश पाप ग्रहोंसे पीडित हों तो धनका लाभ नहीं होता ॥ ५ ॥

स्वभोच्चचंद्रः सकलो विहीनः पापैर्दृशा पार्थगतः शुभैश्च ॥

युतेक्षितो भूमिगृहार्थदः स्याद्यदा सितेज्येंदुभवा हि कश्चित् ॥६॥

पूर्ण चंद्रमा पुष्ट होकर अपनी उच्च राशिका हो, पाप ग्रहोंकी दृष्टिसे रहित हो, शुभ ग्रहोंके साथ हो अथवा उनसे दृष्ट हो तो पृथ्वी, मकान, धनको देता है, और जो शुक्र, बृहस्पति, बुध इनमेंसे कोई ॥ ६ ॥

तनुत्रिकोणार्थगतोबरे वा स्वभोच्चगः शीघ्रमवाप्तिदः स्यात् ॥
बली स्वभोच्चे सुतनुः सुरेज्यः शुक्रो बुधो वायगचंददृष्टः ॥ ७ ॥

लग्न, नवम, पंचम, द्वितीयमें हो अथवा चतुर्थमें उच्चका हो तो शीघ्रही धनका लाभ करता है । बृहस्पति वा शुक्र वा बुध बली, पुष्ट होकर एकादशस्थ चंद्रमासे दृष्ट हो तो ॥ ७ ॥

बहर्थलाभो यदि पूर्णवीर्याः केंद्रेषु सौम्या द्रुतमर्थदाः स्युः ॥
केंद्रत्रिकोणायगताश्च पापा विनाधिकारं धनहानिदाः स्युः ॥ ८ ॥

बहुत द्रव्यलाभ होता है । यदि पूर्ण बलवान् शुभ ग्रह केंद्रोंमें हों तो शीघ्रही धन देते हैं । केंद्र (१ । ४ । ७ । १०) त्रिकोण (९ । ६) आय (११) में पाप ग्रह हों तो विना अधिकारके धनकी हानि करते हैं ॥ ८ ॥

शुभदृष्टियुतं नवमं प्रबलं निजनाथदृशालभचिंतितदम् ॥
धनयोगमुपेत्य वपुःपतिना कृतमुत्थशिलः शुभदृष्टियुतः ॥ ९ ॥

नवम भाव शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो और निज नाथसेभी दृष्ट हो तो चिंतित वस्तुका लाभ देता है और यदि शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त लाभेश धनस्थानमें युक्त होकर लग्नेशके साथ इत्थसाल करता हो तो ॥ ९ ॥

संकलाप्तिकरो यदि लाभपतिर्भवगोऽगममुत्थशिली नृपतेः ॥
धनमानहयांबरदः सुहृदः सुखकृच्च विनष्टधनानुगदः ॥ १० ॥

सब प्रकारकी प्राप्ति करता है और यदि लाभेश लाभभावमें स्थित होकर लग्नेशके साथ इत्थसालयोगवाला हो तो राजासे धन, मान, घोडा, सवारी, वस्त्र और मित्रोंसे सुख तथा विनष्ट धन, सेवक आदिका लाभ देता है ॥ १० ॥

यस्मिन् भावेऽगस्वनाथेत्यसालः सदृष्टस्तद्वा ततोऽर्थस्य लाभः ॥
मृत्यौ युद्धादाहवाद्दधनाद्वा लाभे मित्रात्स्याद्द्वययाद्वादशे चा॥११

शुभ ग्रहोंसे दृष्ट लाभेश जिस किसी भावमें स्थित होकर लग्नेश धनेशके साथ इत्थसाल करता हो तो उसी भाववाले मनुष्योंसे धनका लाभ होता है जैसे माता, पिता, भाई, स्त्री आदिके भावमें हो तो उन्हींके द्वारा लाभ कहना और जो

आठवें भावमें हो तो युद्ध, झगडा, धंधनसे और ग्यारहवें भावमें हो तो मित्रसे और बारहवें भावमें हो तो खर्च करनेमें द्रव्यलाभ होता है ॥ ११ ॥

अथ सततिप्रश्ने विचारः ।

त्रिकोणकेंद्रगो गुरुस्तदाशु संततिप्रदो यदा सितः सुतेशयुक्
तनौ भवेऽथवा सुते ॥ प्रजाप्रदो यदा खलस्तनौ गुरुः सुखार्थगः
सदन्वितैश्च कंटकैर्विलंबतो हि संततिः ॥ १ ॥

यदि बृहस्पति नवम पंचममें हो तो शीघ्रही अच्छी संतान देते हैं । यदि पंचमेश-
युक्त शुक्र लग्नमें, ग्यारहवें, पांचवें हो तो संतान देते हैं और जो पाप ग्रह
लग्नमें, बृहस्पति चौथे, दूसरे स्थानमें हों और केंद्रोंमें शुभ ग्रह हों तो विध्वसे
संतान होती है ॥ १ ॥

यदा तनोर्विधोस्तु वा सुतेऽलिगो हरिस्त्रियोऽल्पसंततिर्यदा
सुतः खलैर्युतोऽथवेक्षिनः ॥ स्वभाष्टगौ यमोऽणगू स्त्रियं च
वन्ध्यिकां वदेद्यदेदुचंद्रजौ मृतौ सदाषकाकवंध्यिकाम् ॥ २ ॥

यदि लग्नेश वा चंद्रमासे पांचवे घरमें वृश्चिक, वृष, सिंह, कन्या राशि हो तो
घोड़ी संतान होनी है और यदि पांचवां घर पाप ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो और शनि,
सूर्य अपनी राशिके आठवे घरमें हो तो स्त्रीको वध्या कहे और यदि चंद्र, बुध आठवें
स्थानमें हों तो दोषसहित काकवंध्या कहे ॥ २ ॥

यदेज्यभार्गवौ मृतौ मृतप्रजां यदा कुजो हि दोहदस्रुतिप्रसुं
यदाष्टगोऽष्टपो बली ॥ विपुष्पिणीं यदा खला धनान्त्यमृत्युसं-
स्थिताः पुरोद्भवप्रजाक्षयस्ततः परं न संततिः ॥ ३ ॥

यदि बृहस्पति, शुक्र अष्टम भावमें हों तो स्त्रीकी संतान होकर मर जाती है
और मंगल हो तो स्त्रीका गर्भस्राव हो जाता है और यदि बलवान् अष्टमेश
अष्टममें हो तो विपुष्पिणी अर्थात् स्त्रीके रजोधर्म नहीं होता है और जो पाप ग्रह
द्वितीय, द्वादश, अष्टम स्थानमें स्थित हो तो प्रथम हुई संतानकी हानि और फिर
संतान नहीं होती है ॥ ३ ॥

सुतपतिर्निजनाथनिरीक्षितः सशुभदृष्टयुतः सदपत्यदः ॥

द्वितनुगा विधुसौम्यसिताः पुरा ददाति संततिमेव यदा त्विमे ॥४॥

पञ्चमेश यदि अपने स्वामीसे दृष्ट वा शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो अच्छी

संतान देता है और यदि चंद्रमा, बुध, शुक्र द्विस्वभाव राशिपर हों तो प्रथम हुए संतान होही दें हैं और जो ये ॥ ४ ॥

धनुषिगा न कदाप्यथ पञ्चमेशकनृनार्यभिधप्रमितैः क्रमात् ॥

सुतसुताश्च भवन्ति संतां दृशो द्विगुणदास्त्वसतां परथाऽफलाः ॥५॥

धनुराशिपर स्थित हों तो कदापि संतान नहीं होती । पंचम स्थानपर जितने पुरुष ग्रहोंकी दृष्टि हो उतने पुत्र और जितने स्त्रीग्रहोंकी दृष्टि हो उतनी कन्या होती हैं । यदि शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो दुगुनी संतान कहे और अशुभ शुभ ग्रहोंकी ही तो उतनी संतानकी हानि अथवा निष्फल कहे ॥ ५ ॥

उभयथा यदि मिश्रफलप्रदा यदि सुते गुरुभं सुतसौख्यदहत् ॥

सुतग्रहांकसमापि च संततिर्भवति वाथ नवांशसमापि वा ॥ ६ ॥

यदि शुभ अशुभ दोनों प्रकारके ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मिश्र फलकी देनेवाली है अर्थात् संतानकी हानि और प्राप्ति दोनों फल होते हैं । यदि पंचम स्थानमें बृहस्पतिकी राशि हो तो पुत्रसुखकी हानि होती है । पंचम भावके अंककी अथवा नवांशकी समान संतानसंख्या बतलावे ॥ ६ ॥

सितलवे च सुते सितवीक्षिते बहुलसंततिरेवमपीन्दुतः ॥

सुतपनंदलवोन्मितसंततिर्भवति दास्युदराञ्च धृतोदरात् ॥ ७ ॥

यदि पंचम भावमें शुक्रका नवांश शुक्रसे दृष्ट हो तो दासी वा धरे वा स्त्रीके उदरसे बहुतसी संतानकी प्राप्ति होती है, इसी प्रकार चंद्रमासे जानना अर्थात् चंद्रमाका नवांश पंचममें चंद्रमासे दृष्ट हो तोभी उक्त स्त्रीसे बहुत संतानकी प्राप्ति हो, अथवा सुतेशके नवांशके समान संतानसंख्या होती है ॥ ७ ॥

यदि सुते शनिभं विधुवीक्षितं सशनिलब्धसुतो विधुवहंधात् ॥

शनिगणो यदि चेन्दुगणः सुते तरणिकाव्यदृशा च पुनर्भवः ॥८॥

यदि पंचममें शनिकी राशि चंद्रमासे दृष्ट अथवा युक्त हो तो (लब्धसुतः) किसी दूसरे मनुष्यका पुत्र गोद लिया जाता है, एवं चंद्रमाके तुल्य बुधसेभी जानना अर्थात् शनिको बुध देखता हो तोभी पूर्वोक्त फल कहे । यदि शनि वा चंद्रमाका वर्ग पंचम भावमें सूर्य शनिसे दृष्ट हो तो दूसरे विवाहकी पत्नीसे पुत्रलाभ होता है ॥ ८ ॥

तनयदो यदि मंदगणः सुते सबुधदक् विकुजार्कनिराक्षितः ॥

भवति विप्रसुतोऽस्य तथा विदोऽपि च गणे रविजेन निरीक्षितो ॥९॥

-यदि पंचम स्थानमें शनिका वर्ग बुधसे दृष्ट और सूर्य मंगलसे अदृष्ट हो एवं पंचममें बुधका वर्ग शनिसे दृष्ट हो और मंगल बुधसे अदृष्ट हो तो उस मनुष्यको ब्राह्मणादिके पुत्रका लाभ होता है ॥ ९ ॥

नवलवः सुतगश्च यदुन्मितैः खलखगौरवलोकितसंयुतः ॥

भवति तन्मितगर्भनिपातनं यदि शुभग्रहदृष्टिविवर्जितः ॥ १० ॥

पंचम-ग्रहका नवांश जितने पाप ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो उतने गर्भ गिर जाया करते हैं, परन्तु शुभ ग्रह न देखते हों तो ॥ १० ॥

सुतलवेषमृतिगश्च यदुन्मितग्रहयुतो हि तदुन्मितपुत्रहा ॥

यदि सुतेदकुजराहुयुतोऽथवागुकुजमध्यगतः सुतनाशनः ॥ ११ ॥

यदि सुतेश मंगल ग्रहके साथ अथवा इनके मध्यमें हो तो पुत्रोंका नाश होता है। यदि पञ्चमेश अष्टम घरमें जितने ग्रहोंके साथ हो तो उतनेही पुत्रोंकी हानि होती है ॥ ११ ॥

प्रष्टुः किमायुः शिष्टं वागतमिति प्रश्ने विचारः ।

यावलवेल्लभ्य एति चंद्रं तावत्समादायमितेर्हि शिष्टा ॥

यावलवैरत्यजदिंदुमंगेद् तावत्समादायमितेर्गताः स्युः ॥ १ ॥

लग्नेश जितने अंशोंसे चंद्रमाको प्राप्त होता है उतने वर्ष आयुर्दायके बाकी रहे बतलावे और लग्नेश जितने अंशोंसे चंद्रमाको त्याग चुका है उतने वर्ष आयुर्दायके व्यतीत हो चुके हैं ऐसा कहे ॥ १ ॥

अथार्कादिग्रहगुणादिवर्णनम् ।

अथार्कादिग्रहाणां हि गुणवर्णविनिर्णयः ॥

आकारोऽपि शरीरस्य प्रोच्यते मुनिसंमितः ॥ २ ॥

इसके बाद सूर्यादि ग्रहोंका गुण, वर्ण, शरीरका आकार जो कि मुनियोंने माना है उसका वर्णन करते हैं ॥ २ ॥

चतुरशूरगभीरसुरूपकः प्रकृतिपैत्तिकवृत्ततनुर्नृयः ॥

मितकचोऽस्थ्यधिको मधुपिंगदृक् कटुतरः स्रविः पुरुषो रविः ॥ ३ ॥

चतुर, शूर, गम्भीर, शूद्र रूपवाला, पिचप्रकृति, गोल शरीरवाला, थोड़े बालोंवाला, हड्डीसार, मधु पिंगल नेत्रवाला, अतिकटु, दृढ, पुरुषजाति सूर्य है ॥ ३ ॥

विमलधीः सुतनुर्मृदुवाग्धरो रुधिरसारसुनेत्ररुफानिलः ॥

प्रकृतिकुञ्चितकेशधरो घृणी शुभगौरपृथुः स्रयधिपो विधुः ॥ ४ ॥

निर्मल बुद्धि, सुन्दर शरीर, मृदु वाणी, रुधिरसार, सुन्दर नेत्र, कफवातप्रकृति, घुंवराले केशवाला, दयालु, सुन्दर गौरवर्ण, मोटे शरीरवाला, स्त्रियोंका अधिपति चंद्रमा है ॥ ४ ॥

अरुणगौर उदारतमोगुणी कटुनरश्चपलः पशुपालकः ॥

तरुणपैतिकपिंगदगुग्रभीर्गतदयो बहुगर्व इलासुतः ॥ ५ ॥

लाल गौरवर्ण, उदारचित्त, तमोगुणी, कटुस्वभाव, पुरुष, चपल, पशुपालक, युवा, पित्तप्रकृति, पिंगनेत्र, उग्रबुद्धिवाला, निर्दय, बहुत गर्ववाला मंगल है ॥ ५ ॥

करुणहृक् मृदुवाक् त्रिमलाधिकस्त्वमितमध्यशिरालतनुः सुखी ॥

त्वचि सुपुष्टतरोऽतिक्रुतूहली बहुकलिश्चतुरोऽल्पतनुर्बुधः ॥ ६ ॥

थोड़े लाल नेत्र, मृदु वाणी, वातपित्तकफप्रकृति, काले कमरवाला, नाडियोंसे व्याप्त शरीर, सुखी, अति पुष्टनचावाला, अति कुनूहल करनेवाला, बहुत कलह करनेवाला, सूक्ष्म शरीरवाला ऐसा बुध है ॥ ६ ॥

रुचिरपर्वसुवर्णमहातनुर्बहुवसाकफिपिंगकवेशणः ॥

गुरुथेभगतिः कफवातुलो जलदनीलरुचिर्बहुशुक्रतः ॥ ७ ॥

सुन्दर पोरण, सुन्दर वर्ण, महाशरीर, बहुत चर्बीवाला, कफप्रकृति, सुनहरी बाल और नेत्रोंवाला ऐसा बृहस्पति है, रथ और हाथीकीसी चालवाला, कफवातप्रकृति, नील मेघसा वर्ण, बहुवर्ष्य ॥ ७ ॥

कुवलयार्क्षिकचो भृगुजोऽस्त्यथो मलिनकृष्णशिरालकृशो जटी ॥

पुरुषरोमकचः कपिलेक्षणः सपवनः खल उच्चनखः शनिः ॥ ८ ॥

कमलसे नेत्र, सुंदर केशवाला शुक्र है । मलीन, काला शरीर, जटाधारी, कठोर रोम और बाल, कपिल नेत्र, वातप्रकृति, दृष्ट स्वभाव, उंचे नखोंवाला शनि है ॥ ८ ॥

तनुनवांशपतेर्बलिनोऽथवा वपुरथेन्दुनवांशपतेः प्रभा ॥

भवति सत्वमिनेज्यहिमा रजो बुधभृगू तम आरशनी मतौ ॥९॥

लग्ना नवांशपति अथवा बलवान् ग्रहसे जीवके शरीरका वर्णन करे और चंद्र नवांशपति ग्रहसे वर्ण (रंग) बतलावे, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, सत्त्वगुणों हैं, बुध शुक्र रजोगुणी हैं, मंगल शनि तमोगुणी हैं ॥ ९ ॥


रविखराममितांशपतेर्गुणो यदिति जीवसितौ च तमोऽगमौ ॥

अथ शिरोऽक्षिककर्णनसाकपोलदनुवक्त्रमिति त्रिलवादिमे ॥१०॥


सूर्यके त्रिशांशपति ग्रहका जो गुण है सो जीवका गुण बतलावे और यदि बृहस्पति शुक्र लग्नमें हों तो तमोगुणी है ऐसा कहे । इसके अनन्तर शिर, नेत्र, कान, नाक, गाल, ठोड़ी, मुख ये प्रथम द्रेष्काणका अंग विभाग है ॥ १० ॥

प्रथमद्रेष्काणांगविभाग.

द्वितीयद्रेष्काणांगविभाग



तृतीयद्रेष्काणांगविभाग.



अथ गलांसमुजद्वयकुक्षुरोजठरनाभय आत्रिलवदये ॥

तदनु वस्तिरुपस्थगुदे तथा वृषण ऊरुकजानुपदः क्रमात् ॥ ११ ॥

कंठ, कंधा, दोनों भुजा, कोख, छाती, पेट, नाभि ये दूसरे द्रेष्काणका अंगविभाग है । इसके बाद पेड़, लिंग, गुदा, वृषण, जंघा घुटने, पैर ये क्रमसे ॥ ११ ॥

त्रिलवकत्रितयेऽथ तनोः पुरापरदलेऽगमदक्षिणदक्षिणाम् ॥

इह खलैर्व्रणदृष्टयुतेक्षिते मशकपूर्वकलक्षणमादिशेत् ॥ १२ ॥

तीसरे द्रेष्काणका अंगविभजन है । लग्नके पूर्व और पर दलमे वाम तथा दाहिने अंग वर्णन किये गये हैं । जो अंग पाप ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो मस्सा आदि चिह्न कहे ॥ १२ ॥

स्वभलवस्थिरगे सहजोऽन्यथा त्रयगताश्च रवौ खलु काष्ठजः ॥

शशिनि शृंगिजलोत्थभवः कुजे नलविषायुधजः शनितोऽश्मजः १३

अपने राशिनवांशमें अथवा स्थिर राशिमें शुभ ग्रह वा पाप ग्रह होवें तो स्वाभाविक जन्मसेही पूर्वोक्त चिह्न बतलावे और यदि अपने नवांशमें हों अथवा चर द्विस्वभाव राशिके हों तो अन्यथा कहे जर्थात् पश्चात् हो जाना चाहिये । यदि उन अंगराशिोंपर सूर्य हो तो काष्ठसे, चंद्रमा हो तो शींगवाले अथवा जलचर जीवसे, मंगल हो तो अग्नि विष शस्त्रसे और शनि हो तो पत्थरसे ॥ १३ ॥

पवनजश्च शुभेः शुभजोऽथ यत्पदगतास्त्रिखलाश्च बुधान्विताः ॥

भनियमाद्व्रणचिह्नकरा यदा रिपुखलो व्रणकृत्थ च दृष्टयुक् ॥ १४ ॥

वा पवनसे उत्पन्न हुआ चिह्न कहे । शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो उसी अंगपर शुभ वस्तुका चिह्न बतलावे और बुध तीन पाप ग्रहोंके साथ जिस अंगराशिपर हो उसी राशिके अनुसार अंगपर व्रणका चिह्न करता है । छठे स्थानमें स्थित पाप ग्रह व्रणचिह्नको उत्पन्न करते हैं और यदि वेही पाप ग्रह शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो तिलका चिह्न बतलावे ॥ १४ ॥

शुभखगौस्तिलकृच्च तथा वदेल्लघुभर्गेऽगमणुत्वपरे परम् ॥

तनुपतिः स खलोष्टषडन्त्यगस्तनुसुखं न षडन्त्यमृतीद् स्वभे १५

अपरे (कोई आचार्य) ऐसा कहते हैं कि, पाप ग्रह सप्तसंज्ञक राशिपर हों तो अंग परम अणु (अत्यन्त सूक्ष्म) होता है । लग्नेश पाप ग्रहोंके साथ आठवें, छठे, बारहवें स्थानमें हो तो उस जीवके शरीरको सुख नहीं होता तथा छठे, बारहवें, आठवें स्थानके अधिपति ग्रह अपनी राशिके हों ॥ १५ ॥

तनुसुखं न यदा विबलोंऽगपो वपुषि पापखगे त्वधिरुग्यदा ॥

तनुपतिः स्वग्रहे बुधजीवयुक् भृगुयुतश्च चतुष्टयगोऽथवा ॥ १६ ॥

तोभीं शरीरसुख नहीं होता है । जो लग्नेश निर्बल हो और पाप ग्रह लग्नेमें हो तो अधिक रोगी रहता है और यदि लग्नेश बुध बृहस्पतिसे युक्त हो अथवा शुक्रके साथ अथवा केंद्रमें ॥ १६ ॥

भवति तुंगगृहे शुभभेऽथवा हितदृशा सुखराज्ययशोऽर्थभाक् ॥

सुरुचिरः सुकृती श्रुतसत्यवान् यदि विधुः क्रियभे कलशे शनिः १७

अथवा उच्चका या शुभ ग्रहकी राशिका अथ मित्रदृष्टिसे दुष्ट हो तो वह मनुष्य सुख, राज्य, धन, यशसे युक्त, तथा सुन्दर शरीर, पुण्यवान्, सत्यवान् होता है । यदि चंद्रमा मेषके, शनि कुंभके ॥ १७ ॥

धनुषि भानुरदेवगुरुमृगे निजभुजार्जितवित्तयशास्तदा ॥

यदि समस्तचतुष्टयगाः खला धनगताश्च शुभाः कुलहृत्सुहृत् १८

सूर्य धनुके, शुक्र मकरके हों तो अपनी भुजाओंसे धन और यशका इकट्ठा करनेवाला होता है । यदि चारों केंद्रोंमें समस्त पाप ग्रह और दूसरे घरमें शुभ ग्रह हों तो वह मनुष्य कुल तथा शुभ वस्तुओंका हरनेवाला होता है ॥ १८ ॥

तनुगतो यदि वा सुतगो गुरुर्दशविधुर्नृपतिः सुमतिर्दमी ॥

क्रियगतो भृगुजो यदि वांगना तुलगुरुश्च बुधः शुभवीक्षितः ॥१९

यदि बृहस्पति लग्न वा पंचममें, चंद्रमा दशममें हों तो वह मनुष्य राजा, सुबुद्धिमान् और जितेंद्रिय होता है । शुक्र मेषके, कन्या वा तुलाके बृहस्पति, वृश्चिकके बुध शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हों तो ॥ १९ ॥

अलिगतः प्रभटश्चतुरः सुधीः कुलपतिर्मुदितः समुदारदः ॥

यदि रविर्मदने च मृतौ शनिः सुरगुरुश्च धने भृतको भवेत् ॥ २० ॥

वह मनुष्य पराक्रमी, शूरवीर, चतुर, बुद्धिमान्, कुलेपति, सदैव प्रसन्न रहनेवाला तथा उदारचित्त होता है । यदि सूर्य सप्तम, शनि अष्टम, बृहस्पति द्वितीयमें हों तो नौकर होता है ॥ २० ॥

रविविधू नवमे व्ययगे त्वगौ नृपसमीपचरः सततं भवेत् ॥

गुरुरवी मृतिभे रविजः खभे खशिखिवर्षमितौ च नृपार्थभाक् २१ ॥

सूर्य चंद्रमा नवम, राहु वारहं हों तो हमेश राजाके समीप रहनेवाला होता है । बृहस्पति सूर्य अष्टम, शनैश्चर दशम हों तो ३० वर्षकी अवस्थामें राजाके धनका भागी अर्थात् नौकर हो जाता है ॥ २१ ॥

कुजरवी रिपुभे कुटिले शनौ हिमकरे च सुखे नृपदर्शनी ॥

घनशनौ शशिभे गुरुचंद्रयोर्यदि नरः स भवेत्क्रयविक्रयी ॥२२॥

मंगल सूर्य छटे, बर्का शनैश्चर और चंद्रमा चौथे होवे तो राजाओंका दर्शन करनेवाला और यदि घनस्थानमें शनि, कर्कके बृहस्पति चंद्रमा होवें तो वह पुरुष वस्तु-ओंका खरीदने बेंचनेवाला व्यापारी होता है ॥ २२ ॥

निजगृहोच्चसुरद्विषि केंद्रषड्व्ययनवात्मजगे बहुधा सुखी ॥

शशिनि सप्तमकोशगतेऽर्कजे वपुषि शूरतरगे बहुपुत्रवान् ॥ २३ ॥

यदि शुक्र स्वग्रही वा उच्चके होकर केंद्र (१।४।७।१०) ६।१२।१।५ स्थानमें होवें तो बहुधा सुखी रहता है । चंद्रमा ७।२ स्थानमें और शनि लग्नमें होवे तो अति-शूरावीर, बहुपुत्रवान् होता है ॥ २३ ॥

गुरुररिव्ययगो यदि पूजितः परभटश्च कुजः कुलरंध्रकृत् ॥

अगुगुरू भवमे शनिरष्टमे यदि भवेत्सुभटो बहुयुद्धवित् ॥२४॥

यदि बृहस्पति ६। १२ में होवे तो पराये यहाँ सत्कार पानेवाला मल्ल और ६।१२ में मंगल होवे तो कुलको दोष लगानेवाला होता है । यदि राहु बृहस्पति ११ में शनि ८ में हो तो बड़ा पराक्रमी, बहुत युद्ध जाननेवाला होता है ॥ २४ ॥

यदि गुरुर्मदनव्ययगो रविर्नवमगः कुसुतो मृतिगः सुधीः ॥

यदि च भानुगुरू सुतधामगौ भवति शास्त्रपटुर्धनधान्यवान् ॥ २५ ॥

यदि बृहस्पति ७। १२, सूर्य ९, मंगल ८ में होवे तो बुद्धिमान् और जो सूर्य, बृहस्पति ५ में होवे तो शास्त्रोंका पंडित, धनधान्यवान् होता है ॥ २५ ॥

यदि चतुष्टयगौ भृगुमंत्रिणौ विदपि वा सधनः श्रुतिपारगः ॥

मदनगे हिमगौ च सुते गुरौ दशमधर्मगते विदि लेखकः ॥ २६ ॥

यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध केंद्र (१।४।७।१०) में होवे तो धनवान्, वेदका पारगामी और चंद्रमा ७, बृहस्पति ५, बुध १०।९ घरमें होवें तो लेखक होता है ॥ २६ ॥

विधुविदोः शनिभास्करयोस्तथेज्यसितयोर्व्यधजो बहुलो भवान् ॥

यदि विधुः सखलो गुरुवीक्षितो भवति पातककृत्कुलदूषणः ॥२७॥

चंद्रमा बुध, शनि सूर्य तथा बृहस्पति शुक्रके परस्पर वैधर्म उत्पन्न पुरुष अतिलोभी होता है, पाप ग्रहोंके साथ चंद्रमा यदि बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो पातकोंका करनेवाला और कुलदूषण होता है ॥ २७ ॥

यदि शनिर्मदनेऽवनिजस्त्वगुर्मृतिनवांत्यसुखे गुरुतल्पगः ॥

विधुभतो द्वितये तपनस्ततः शनिरतोऽवनिजो यदि तस्करः ॥२८॥

यदि शनि सप्तम, मंगल राहु ८ । ९ । १२ । ४ में हों तो गुरुतल्पग होता है और यदि चंद्रमाकी राशिसे द्वितीय सूर्य, सूर्यसे द्वितीय शनि, शनिसे द्वितीय मंगल होवे तो चोर होता है ॥ २८ ॥

बुधकुजौ सबलौ रिपुभावगौ यदि निकृत्तकरः किल तस्करः ॥

मृगकुजश्च कुलीरशनिस्तनौ भवति दस्युविधैरसिखण्डित ॥ २९ ॥

यदि बुध, मंगल बली होकर छठे घरमें हों तो चोरीके कर्ममें उस पुरुषके हाथ कट जाते हैं । मकरके मंगल और कर्कके शनैश्चर लग्नमें हों तो वह मनुष्य चोरीके कर्ममें तलवारसे कट जाता है ॥ २९ ॥

मिथुनमीनघनुष्कलशे खला अशानितो मरणाय कुचेष्टितैः ॥

वपुषि वित्रिलवे च चतुष्टयेंदुदृशिते नृपजोऽप्यतिनीचकृत् ॥३०॥

मिथुन, मीन, घनु, कुंभ राशियोंपर पाप ग्रह हों तो बुरे कर्मोंके करनेमें वज्रसे मृत्यु होती है और जो लग्नमें बुधका द्रेष्काण केंद्रस्थ चंद्रमाकी दृष्टिसे देखा गया हो तो राजवंशमें पैदा हुआभी अतिनीच कर्म करनेवाला होता है ॥ ३० ॥

मदकुजः खविधुर्द्वितये रवेर्यदि शनिश्च तदोनतनुर्नरः ॥

यदि परस्परनंदलवोपगौ रविविधू मिलितौ च दरिद्रितः ॥३१॥

यदि सप्तम मंगल, दशम चंद्रमा, सूर्यसे दूसरे शनैश्चर होवे तो वह पुरुष हीनशरीरवाला दुर्बल होता है और जो चंद्रमा सूर्य परस्पर एक दूसरेके नवांशमें अथवा एकही घरमें स्थित हों तो दरिद्री होता है ॥ ३१ ॥

यदि खलान्तरगो विधुरर्कजः स्मरगतो विकलात्मनरो भवेत् ॥

उदरगुल्मकफक्षयरोगतः प्रकथितो मुनिभिर्निजबोधतः ॥ ३२ ॥

यदि चंद्रमा पाप ग्रहोंके मध्यमें और शनैश्चर सप्तम स्थानमें हों तो वह मनुष्य उदरगुल्म, कफ, क्षयी आदि रोगोंसे विकल शरीरवाला होता है । ये योग मुनियोंने अपने ज्ञानसे कहे हैं ॥ ३२ ॥

गर्भे किमिति प्रश्ने विचारः ।

तिथिप्रहरवारक्षयोग एकोनितो हृतः ॥

सप्तभिर्विषमे शेषे पुत्रः पुत्री समे भवेत् ॥ १ ॥

तिथि, प्रहर, वार, नक्षत्र इनके जोड़में एक कम करके सातका भाग दे जो विषम अंक बचे तो पुत्र और सम बचे तो पुत्री होगी ॥ १ ॥

यदि तनुतनयेशौ पुंभगावोजभांशे नरविषमपदे वार्किः
सुतोऽगार्कजीवाः ॥ विषमभ इह पुत्रस्त्वन्यथा स्त्री
यदाको नरभवनगतो वै लग्नगश्चेत्सुतः स्यात् ॥ २ ॥

यदि लग्न और लग्नेश पुरुषराशि (१ । ३ । ५ । ७ । ९ । ११) अथवा विषम राशिके नवांशमें हों तथा पुरुष या विषम राशिमें शनैश्वर हो तो पुत्र होता है और लग्न सूर्य बृहस्पति विषम राशिके हों तो पुत्र होता है, अन्य प्रकारसे कन्या होती है अर्थात् सम तथा स्त्रीसंज्ञक लग्न, लग्नेश, शनैश्वरादि हों तो कन्या होती है और यदि सूर्य नरराशित्त लग्नमें स्थित हो तो पुत्र होता है ॥ २ ॥

सुतलवेणरि पूर्णबलः पुमान् सुशुभदृक् सुतजन्मकरः स्मृतः ॥
यदि सुतेद् कुजराहुयुतोऽथवागुकुजमध्यगतोऽस्तगतोऽपि वा ॥
भवति दोहदहृद्यदि पञ्चमे शुभखगो द्वितनुस्तनुगस्तथा ॥ ३ ॥

यदि पंचम ग्रहका नवांशाधिपति पूर्ण बली होकर पुरुषराशिपर हो अथवा उसको शुभ ग्रह देखते हों तो पुत्रका जन्म होता है । यदि सुतेश मंगल राहुसे युक्त अथवा राहु मंगलके मध्यमें अथवा अस्तका हो तो गर्भकी हानि करता है और यदि पंचम ग्रहमें शुभ ग्रह हो ॥ ३ ॥

समराशौ शशिसितयोर्विषमे गुरुमंदभास्करावनिजाः ॥

योगेऽस्मिन् गर्भगतं नूनं मिथुनं तु विज्ञेयम् ॥ ४ ॥

एक योग १, सम राशिके चंद्रमा शुक्र और विषम राशिके बृहस्पति शनैश्वर सूर्य मंगल हों दूसरा योग २ इनमें निश्चयही गर्भस्थ दो पुत्र समझने चाहिये ॥ ४ ॥

लग्नेद् वा समगौ पुंग्रहदृष्टौ च मिथुनयोगकरौ ॥

तद्गज्जवक्रगुरवो बलिनः समराशिगास्तथैवोक्तम् ॥ ५ ॥

अथवा सम राशिके लग्न चंद्रमाको पुरुष ग्रह देखते हों तो दो पुत्रका योग करते हैं, इसी तरह बलवान् बुध, शनि, बृहस्पति सम राशिके होकर पुरुष ग्रहोंसे दृष्ट हों तोभी दो पुत्रोंका योग समझना चाहिये ॥ ५ ॥

सुतयुगं यदि पुंभगतेन्दुना खचरमुत्तसिलं सुतसंभवः ॥

यदि पुमाँस्तनुपः पुरुषर्क्षगः सुतभवाय यदा सनृखेचरः ॥ ६ ॥

यदि पुरुषराशिस्य चंद्रमासे किसी पुरुषग्रहका इत्तसाल हो तो पुत्र होता है और यदि लघेश पुरुष ग्रह हो तथा पुरुषराशिका हो तो पुत्रोत्पत्तिके लिये कहा गया है ॥ ६ ॥

तरणिरात्मजकृतसुतमे समे बुधहिमांशुसिता रमणीप्रदाः ॥

खचरयोर्युगलं युगलं यदा पदचतुष्कगतं युगलोद्भवः ॥

नरगृहे नृयुगं परथाऽन्यथा द्विननुभे च सुता तनयद्वयम् ॥७॥

सूर्यभी पुरुषराशिस्य हो तो पुत्र होता है तथा पंचम गृहमें सम राशि हो एवं बुध चंद्रमा शुक्रभी सम राशिके हों तो कन्याके देनेवाले होते हैं और यदि दो दो ग्रह चार स्थानोंमें स्थित हों तो दो संतति पैदा होती है, परन्तु इतना विशेष है कि जो पुरुषराशिके हों तो दो पुत्र और स्त्रीराशिके हों अथवा द्विस्वभाव राशिके हो तो दो कन्या उत्पन्न होती हैं ॥ ७ ॥

पूर्वाह्ने भास्कराच्चंद्रे पुरस्ताद्गर्भगः सुतः ॥

अपराह्ने रवेः पृष्ठे गर्भे कन्या तदा भवेत् ॥ ८ ॥

पूर्वाह्णमें सूर्यसे चंद्रमा अग्रवर्ती हो तो गर्भस्थ पुत्र और अपराह्णमें सूर्यसे चंद्रमा पीछे हो तो कन्या होती है ॥ ८ ॥

दक्षिणकुक्षौ वर्तुलगर्भः पुरुषः परथा रमणी मध्ये ॥

खण्डश्चोभयकुक्षिगर्भश्चेद्युगलं नियतं नृपशूनाम् ॥ ९ ॥

यदि दाहिनी कोखमें गोलाकार गर्भकी प्रतीति हो तो पुत्र और बाईं कोखमें होवे तो कन्या और दोनों कोखोंके मध्यमें होवे तो नपुंसक, यदि दोनों कोखों-हीमें होवे तो युग्म होता है इस प्रकारसे मनुष्य और पशुओंके गर्भकी पहिचान यथावत् जाननी ॥ ९ ॥

गर्भभ्रांतिप्रश्ने विचारः ।

यदात्मजेंगे च शुभोऽस्ति गुर्विणी स्मरांगनाथावथवा सुते तथा ॥

स्मरात्मजेशौ यदि वा तनुस्थितौ तदाङ्गना गर्भवती च नान्यथा ॥१॥

यदि पञ्चम लग्नमें शुभ ग्रह होंगे तो गर्भवती और सप्तमेश लघेश पञ्चम घरमें हों अथवा सप्तमेश पञ्चमेश लग्नमें हों तो स्त्री गर्भवती है और इससे अन्यथा हो तो गर्भ नहीं है ऐसा कहे ॥ १ ॥

लग्नायपुत्रेषु शुभैर्बलान्वितैरवक्रनीचास्तगतैर्हि गुर्विणी ॥

यदीन्दुलगाधिपती सुतस्थितौ सुतोदयर्क्षे परिपश्यतोऽथवा ॥ २ ॥

लग्न, एकादश, पंचम स्थानोंमें बलवान् शुभ ग्रह होवें और वक्री, नीच, अस्तके न होवें तो गर्भवती है । यदि चंद्रमा और लग्नाधिपति पंचममें हों अथवा पंचम, लग्न-स्थानको देखते हों तो गर्भवती है ॥ २ ॥

तदाङ्गना गर्भवती यदा विधुः खलेसराफी नहि गुर्विणी तदा ॥

यदांगपेन्दू हि चतुष्टयस्थितौ कृतेत्तसालौ सुतपेन गुर्विणी ॥ ३ ॥

जो चंद्रमा पाप ग्रहके साथ इशराफयोगवाला हो तो गुर्विणी नहीं है, तथा लग्नेश चंद्रमा केंद्रोंमें स्थित हों अथवा पञ्चमेशके साथ इत्तसालयोग करते हों तो गर्भवती है ॥ ३ ॥

पुत्रनाथेन चद्रांगपत्योर्दृष्टीत्तसालतः ॥

आपोक्लिमे न गर्भः स्यादेवं क्षीणेन्दुयोगतः ॥ ४ ॥

पंचमेशके साथ चंद्रमा और लग्नेशका आपोक्लिम स्थानमें दृष्टीत्तसाल हो तो गर्भ नहीं है, इसी तरह क्षीण चंद्रमाके योगसेभी बतावे ॥ ४ ॥

गर्भक्षेमप्रश्ने विचारः ।

व्ययपतौ शुभदृष्टयुते चतुष्टयगते नहि गर्भपरिच्युतिः ॥

यदि खलास्तनयेऽशुभलग्नेपे हिमकरे खलमुत्तिसलिनि च्युतिः ॥ १ ॥

यदि व्ययेश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त होकर केंद्रमें हो तो गर्भ गिरता नहीं और जो पाप ग्रह पञ्चममें और लग्नेशभी अशुभ हो तथा पाप ग्रहके साथ चंद्रमाका इत्त-सालयोग हो तो गर्भ गिर जाता है ॥ १ ॥

वक्रिपापकृतमुत्तिसिलौ चेलग्ननाथहिमगू च्युतिहेतू ॥

पुत्रपे सति शुभान्वितदृष्टे सद्बले सुखमतो न विलोमे ॥ २ ॥

यदि लग्नेश चंद्रमाका वक्री अथवा पाप ग्रहके साथ इत्तसालयोग हो तो गर्भ गिर जाता है और पुत्रेश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो और शुभ ग्रहभी बलवान् हों तो गर्भ सुखपूर्वक स्थिर रहता है और इससे विलोम अर्थात् उक्त योग न होवे तो गर्भ नहीं ठहरता है ॥ २ ॥

बालानां जीवितप्रश्ने विचारः ।

केंद्रे व्ययेशे शुभदृष्टयुक्ते पुत्रेऽथ पूर्गे हिमगौ हि केंद्रे ॥

जीवत्यथेज्ये खलदृष्टयुक्ते व्ययेऽशुभैर्दृष्टयुते न जीवेत् ॥

व्ययेश्वरे पापयुते न जीवेदापोक्लिमस्थे भ्रियते हि जातः ॥ ३ ॥

यदि शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त द्वादशेश, केंद्र वा पञ्चममें और पूर्ण चंद्रमा केंद्रमें हो तो जीवता है और बृहस्पति पाप ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो एवं वारहवां घरभी अशुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हो तो नहीं जीवता है और व्यपेश पाप ग्रहोंसे युक्त आपोह्निम स्थानमें हो तो जातक मर जाता है ऐसा बतावे ॥ ३ ॥

गर्भः कस्येति प्रश्ने विचारः ।

तनुसुताधिपती शुभदृग्द्युतौ स्वपतिगर्भ इतः परथाऽन्यतः ॥

स्थिरभगैः कलुषैः स्वपतेर्भवेच्चरभगैः परतो द्वितयर्क्षगैः ॥ १ ॥

लग्नेश पंचमेश शुभ ग्रहसे दृष्ट वा युक्त हों तो अपने पतिका और इससे अन्य प्रकार अर्थात् लग्नेश पंचमेश अशुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो दूसरे पुरुषका गर्भ है और जो पाप ग्रह स्थिर राशिके हों तो अपने पतिका और चर राशिके हों तो अन्य पुरुषका और द्विस्वभाव राशिके हों तो ॥ १ ॥

स्वधवजारभवो द्विलवक्रमाद्भवति गर्भ उतात्मज ईक्षणम् ॥

यदि दिनेशशनैश्चरयोर्भवेन्नशुभदृक् परतोऽस्ति हि दोहदः ॥२॥

अपने पति और जार पुरुषका गर्भ है ऐसा बतलावे, परन्तु इतना विशेष समझना चाहिये कि द्विस्वभाव राशिका यदि प्रथम होरा हो तो अपने पतिका और दूसरा होरा हो तो जार पुरुषका गर्भ कहे अथवा पंचम गृहपर सूर्य शनैश्चरकी दृष्टि हो और शुभ ग्रहोंकी दृष्टि न हो तो परपुरुषसे गर्भ कहे ॥ २ ॥

प्रसवप्रश्ने विचारः ।

तनोर्गतैर्नदलवैर्गताः स्युर्भोगैश्च भोग्या इह जन्ममासाः ॥

बली भृगुर्यत्पदगस्तनोः स्यात्तुल्यमासा यदि वा गताः स्युः ॥१॥

लग्नके जितने नवांश गत हो गये उतनेही गर्भके मास व्यतीत और जितने नवांश भोगनेमें बाकी हैं उतनेही मास शेष रहे बतलावे अथवा बलवान् शुक्र लग्नसे जिस घरमें हो उतनेही मास गर्भ व्यतीत हो गये ऐसा कहे ॥ १ ॥

द्रेष्काणभागे च नवांशकस्य दिने भवेच्चितितमासकस्य ॥

तनौ विनर्क्षं दिनभे वपुःपतौ दिनग्रहे जन्मदिनेऽन्यथा निशि ॥

दिवानिशोश्चाधिबलस्य साम्ये बालस्य जन्माऽत्र च सन्ध्ययोः स्यात् २

लग्नके द्रेष्काण वा नवांशका जो दिन है वही महीनेका दिन है उसी दिन जन्म कहे और लग्नमें दिवाबली राशि हो तथा दिवाबली राशिपर दिवाबली ग्रह हो तो बालकका जन्म दिनमें और अन्य प्रकारसे हो तो रात्रिमें बतलावे

और दिवाबली तथा रात्र्यधिबली ग्रह और राशि बराबर हों तो बालकका जन्म सन्ध्या समय होगा ॥ २ ॥

मम भ्रात्रादयः स्वस्था न वेति प्रश्ने विचारः ।

यद्गृहं स्वपतिसौम्यवीक्षितं चेत्पतिश्च सुपदे सुदृष्टयुक् ॥

तस्य सौख्यमभयं च तत्पतावस्तगे खलत्रिमर्दितेऽन्यथा ॥ १ ॥

जिसकी कुशल पूछी है उसका घर अपने पतिसे दृष्ट हो अथवा उस घरका अधीन ग्रह शुभ स्थानमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हो तो उसके भ्रात्रादिको सुखी और निर्भय कहे और यदि उस स्थानका पति अस्त वा ग्रहोंसे पीडित हो तो अन्यथा कहे अर्थात् जिसकी कुशल पूछी है वह दुःख और भयसे युक्त है ॥ १ ॥

षष्ठे शतं नाथकृतेत्तसाले षष्ठे स्थिते वापि तदीश्वरे वा ॥

षष्ठे स्थिरे तद्गृहगे च पापे क्रूरेक्षिते चात्र गृहे गदार्त्तः ॥ २ ॥

यदि षष्ठेश तथा भ्रात्रादि स्थानेशका परस्पर इत्तसाल योग हो अथवा दोनों छठे घरमें हों अथवा भ्रात्रादि स्थानेश छठे घरमें स्थिर राशिका हो अथवा भ्रात्रादिके घरमें पाप ग्रह हों अथवा भ्रात्रादिका घर क्रूर ग्रहोंसे दृष्ट हो तो रोगसे पीडित है ऐसा कहे ॥ २ ॥

तदीश्वरे पंचमलाभयाते भवेत्ततस्तद्वसतिश्च दूरम् ॥

एवं सुतेशे सुतगे सुतेन योगः सुखं रोगभयं क्षतिश्च ॥ ३ ॥

यदि भ्रात्रादि स्थानेश पांचवें ग्यारहवें हो तो उस प्रश्नकर्त्ताके भ्रात्रादि उससे बहुत दूर रहते हैं तथा इसी प्रकार पुत्रेश पंचम घरमें हो तो पुत्रसे मिलाप और सुख होता है और पूर्वोक्त रीतिसे अशुभ योग हो तो रोग, भय, हानि होती है ऐसा प्रकार कहे ॥ ३ ॥

विवाहप्रश्ने विचारः ।

तनोश्चेत्समे स्थान ऐनिर्वधूदः तथोजे वरप्राप्तये मंद एकः ।

दशायारिधीन्दुर्दशेशार्कदृष्टो विवाहाय वा केंद्रधीभाग्यसौम्याः ॥१॥

यदि लग्नसे सम स्थानमें शनैश्वर हो तो वरको बधूका देनेवाला है और जो विषम राशिका हो तो अकेलाही शनैश्वर बधूको वरको देनेवाला है । १० । ११ । ६ । ९ इन स्थानोंमें चंद्रमा दशमेश तथा सूर्यसे दृष्ट हो तो विवाह होता है अथवा १ । ४ । ७ । १० । ९ । ९ इन घरोंमें शुभ ग्रह हों ॥ १ ॥

त्रयास्तारिचंद्रो बुधेज्यार्कदृष्टो विवाहाय शीघ्रं स्वपत्या प्रदृष्टः ॥

यदांगे विधुर्वार्थभाक् शुक्रदृष्टः खलाऽवीक्षितः स्त्रीप्रदश्चरक्षे ॥२॥

चंद्रमा ३ । ७ । ६ । में बुध बृहस्पति सूर्यसे दृष्ट हो तो शीघ्रही विवाहके लिये कहा है । जो लग्नमें चंद्रमा दशमेशसे दृष्ट हो अथवा द्वितीयस्थ चंद्रमा शुक्रसे दृष्ट हो और पाप ग्रहोंसे अदृष्ट हो तो स्त्रीका देनेवाला है ॥ २ ॥

वधूशीतगुः शुक्रदृष्टश्च केंद्रे खलाः भूरिनारीपतिः स्यात्तदा वै ।

यदांगे विधुर्द्वादशेशार्कदृष्टस्तदा स्त्रीवरोद्वाह एव प्रदिष्टः ॥ ३ ॥

यदि सप्तम घरमें चर राशिका चंद्रमा शुक्रसे दृष्ट हो, केंद्रोंमें पाप ग्रह हो तो वर बहुत स्त्रियोंका पति होता है और जो लग्नमें चंद्रमा द्वादशेश तथा सूर्यसे दृष्ट हों तो स्त्रीवरका विवाहकारक है ॥ ३ ॥

तनुसप्तमलाभकर्मशुक्रः शुभदृष्टः सुभगांगनाप्रदः स्यात् ।

तनुसप्तममुत्सिलो वधूदस्त्रिनवस्त्रीदशधीविधुप्रदृष्टः ॥ ४ ॥

१ । ७ । ११ । १० घरोंमें शुक्र शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो सुन्दर स्त्रीका देनेवाला है और लग्न सप्तमस्थ शुक्र चंद्रमाके साथ इत्तसाल करता हो अथवा ३ । ९ । ७ । १० में स्थित चंद्रमासे दृष्ट हो तो वधूका देनेवाला है ॥ ४ ॥

शुभगै रमणीप्रदो यदोच्चादिशुभाः कंटकलाभगाः प्रवीर्याः ॥

शुभवीक्षणितास्तदांगनातिर्यदि जीवो वपुषि स्मरे चरक्षम् ॥५॥

यदि शुक्र शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो रमणी स्त्रीका देनेवाला है और यदि उच्चादि शुभ ग्रह १ । ४ । ७ । १० । ११ में बलवान होकर स्थित हों तथा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हों तो स्त्रीकी प्राप्ति होती है । यदि बृहस्पति लग्नमें और सप्तमें चर राशि ॥ ५ ॥

विखलेऽष्टमकंटके धनाढ्या ललिता स्त्रीजयधर्मिणी प्रलभ्या ॥

दशसप्तगते विधौ निजोच्चे भृगुणेज्येन च वीक्षिते सुरूपा ॥६॥

तथा ८ । १ । ४ । ७ । १० घरोंमें पाप ग्रह न हों तो सुन्दरता, धन, जय, धर्मसे युक्त स्त्री मिलती है । दशम, सप्तममें उच्चका चंद्रमा शुक्र बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो सुरूपवती ॥ ६ ॥

सधना बहुसंततिर्वधूः स्यान्मद उग्रा यदि वाऽरिभे शुभाश्च ॥

मृतिमेति विवाहिता स्त्री किल जीवत्यथ सप्तमाम्बुपापैः ॥ ७ ॥

सधना, संतानवती वधू होती है और सप्तममें पाप ग्रह, छठे शुभ ग्रह हों तो विवाहिता स्त्री मर जाती है और यदि जीवित रहे तो इस प्रकार समझना चाहिये कि, सप्तममें पाप ग्रह हों तो विवाहिता ॥ ७ ॥

परिणीतधृतास्त्रियोः प्रणाशो यदि राहुर्मद उद्वहेत यां याम् ॥
मृत्तिमेति मदे मदांगणौ चेन्निलवैकोपगतौ तदा बहुस्त्री ॥ ८ ॥

और चतुर्थमें हो तो धृता स्त्री मर जाती है । यदि सप्तममें राहु हो तो जिस जिस स्त्रीका व्याह करता है वही वही मर जाती है । सप्तमेश लग्नेश एक द्रेष्काणस्थित हों तो बहुत स्त्रियां होती है ॥ ८ ॥

यदि सुखं शुभवल्ललना धृता स्मरगृहं सशुभं च विवाहिता ।

उभयतः खलयुक् विवधूर्भवेद्धृतविवाहितराडुभये शुभे ॥ ९ ॥

यदि चतुर्थ शुभ ग्रह हों तो धरेवा और सप्तम शुभ ग्रह हों तो विवाहिता स्त्री हो और यदि दोनों घरोंमें पाप ग्रह हों तो विवधू (वधूरहित) हो और दोनों जगह शुभ ग्रह हों तो धरेवा और विवाहिताका पति होता है ॥ ९ ॥

मृत्तिचतुष्टयलाभगते विधौ सखलमुत्तसिले यदि वा खलैः ॥

मृत्तिचतुष्टयगैर्न वधूर्भवेत् यदि सुखे दितिजो प्रियते धृता ॥ १० ॥

८ । १ । ४ । ७ । १० । ११ इन स्थानोंमें चंद्रमा पाप ग्रहोंके साथ इत्तसाल करता हुआ स्थित हो अथवा ८ । १ । ४ । ७ । १० में पाप ग्रह हों तो उस पुरुषको वधू नहीं मिलती है । यदि चतुर्थमें राहु हो तो धृता स्त्री मर जाती है ॥ १० ॥

तनुगतं भृणुजे तु मनोहरा सुरगुरौ सधना विदि वक्रधीः ॥

धरणजे च सरुग्विधवा शनौ दिनकरे तु खरा हिमगौ जडा ॥

युगशुभो दशमे च शुभास्तनौ परिणयावसरे जलवर्षणम् ॥ ११ ॥

लग्नमें शुक्र हो तो सुन्दरी, बृहस्पति हो तो धनवती, बुध हो तो कुटिलबुद्धि, मंगल हो तो रोगिणी, शनैश्चर हो तो विधवा, सूर्य हो तो क्रूर स्वभाववाली, चंद्रमा हो तो मूर्खा स्त्री होती है और जो ४ । १० । ११ घरोंमें शुभ ग्रह हों तो विवाहके समय जलकी वर्षा होती है ॥ ११ ॥

स्त्री सती न वेति प्रश्ने विचारः ।

शत्रुक्षेत्री यदा लग्नेद् स्त्रियां देवरगामिनी ॥

यदैकमे पुरो भौमो लग्नाद्वा लग्ननाथतः ॥ १ ॥

यदि लग्नपति शत्रुक्षेत्री होकर सप्तमस्थ हो तो वह स्त्री देवगामिनी है और लग्न वा लग्ननाथसे ॥ १ ॥

अन्यदेशे पतिं त्यक्त्वा परेण सह तिष्ठति ॥

जायेशत्रीक्षकैस्तुल्या जारा वाच्याः स्त्रिया मताः ॥ २ ॥

एक राशि आगे मंगल हो तो वह स्त्री अन्य देशमें पतिको छोडकर परपुरुषके साथ रहती है । सप्तमेशको देखनेवाले ग्रहोंके तुल्य स्त्रीके प्यारे जार पुरुष कहने चाहिये ॥ २ ॥

यदा कुजश्चंद्रमसागपन वा कृतेत्तसालः स्वगृहे परं भजेत् ॥

कुजे स्वभे याति तदीयमंदिरं यदा सपापार्कहिमांशुमुत्सिलम् ॥ ३ ॥

जो मंगल चंद्रमा अथवा लग्नेशके साथ इत्तसाल करता हो तो स्त्री अपनेही घरमें परपुरुषका सेवन करती है । जो मंगल अपनी राशिका हो तो उसी जार पुरुषके घर पहुँच जाया करती है । यदि पाप ग्रह वा सूर्यके साथ चंद्रमाका इत्तसाल हो तो ॥ ३ ॥

नृपेण भुक्ता नृपसन्निभेन वा यदांगनेशस्य यमेन मुत्सिलम् ॥

कुदासकैश्चेद्बुधशुक्रमुत्सिलं सुलेखकब्राह्मणवैश्यपूर्वकैः ॥ ४ ॥

राजाने अथवा राजाके समीप रहनेवालेने स्त्री भोगी है और जो सप्तमेशका शनैश्वरके साथ इत्तसाल हो तो खोटे दासलोगोंने और बुध शुक्रके साथ इत्तसाल हो तो अच्छा लिखनेवाले ब्राह्मण वैश्यादिकोंने भोगी है ॥ ४ ॥

भावीत्तसाले स्मरपस्य भाविनी सदीशराफे कृत्तजारहारिणी ॥ वपुःपतीन्द्रोर्गुरुमुत्सिले सती चतुष्टये वांकधियोर्गुरौ सती ॥ खलविरहितवित्तेसद्भिरंगेन्दुसंस्थैः स्थिरगतखलखेटैः केंद्रतुगैश्च साध्वी ॥ ५ ॥

जो सप्तमेशका उक्त ग्रहोंके साथ (भावी) आगेको होनेवाला इत्तसाल हो तो वह स्त्री उक्त पुरुषोंसे भोगी जायगी ऐसा कहे और सप्तमेशका शुभ ग्रहोंके साथ इशराफ हो तो किये हुए जार पुरुषको भगा ले जाती है । लग्नपति और चंद्रमाका बृहस्पतिके साथ इत्तसाल हो तो स्त्री पतिव्रता है, दूसरे घरमें पाप ग्रह न हों और लग्नमें चंद्रमाके साथ शुभ ग्रह स्थित हों, स्थिर राशिके पाप ग्रह हों तथा केंद्रोंमें उक्त ग्रह हों तो वह स्त्री साध्वी है ॥ ५ ॥

कन्याशुद्धत्वप्रश्ने विचारः ।

स्थिरक्षे लग्ननाथेन्दू स्थिरलग्नं तदक्षता ॥

चरक्षे क्षतयोनिः स्याद्यदा चंद्रो द्विमूर्तिभे ॥ १ ॥

लग्न, लग्नपति, चंद्रमा स्थिर राशिके हों तो वह कन्या अक्षता है और जो चर राशिके हों तो क्षता (पुरुषसे संगम की हुई) है, यदि चंद्रमा द्विस्वभाव राशिका हो ॥ १ ॥

चरे लग्ने सदोषा स्त्री यदा केंद्रेसितेन्दुजौ ॥

चंद्रदृष्टौ सदोषा स्यादथवा वृश्चिकोपगौ ॥ २ ॥

और लग्न चर हो तो स्त्री दोषवती है और यदि केंद्रमें शुक्र बुध चंद्रमासे दृष्ट हों तो भी दोषवती अथवा वृश्चिकके शुक्र बुध हों तोभी दोषवती है ॥ २ ॥

हित्वा स्थिरं मुत्तसिलं कुजेन्द्रोर्गुप्तास्ति भुक्ता यदि मंदचंद्रौ ॥

तनुस्थितौ सा प्रकटोपभुक्ता द्विदेहगो चंद्रतनू च भुक्ता ॥ ३ ॥

यदि स्थिर राशिको छोड़कर अन्यराशिस्थ मंगल चंद्रमाका इत्तसाल हो तो गुप्त भोगी हुई है। यदि चंद्रमा शनैश्चर लग्नमें स्थित हों तो प्रकट भोगी हुई है और चंद्रमा लग्न द्विस्वभाव राशिके हो तो भोगी हुई है ॥ ३ ॥

वरमाप्तिप्रश्ने विचारः ।

पुंलग्ने तनुभवयोर्जीवः कन्या लभेत वरम् ॥

स्मरभवयोः सितचंद्रौ शुभदृष्टाब्धौ वरप्रदौ स्त्रीणाम् ॥ १ ॥

पुरुषसंज्ञक लग्न हो, लग्नमें वा ग्यारहवें बृहस्पति हो तो कन्याको वरकी प्राप्ति होती है। सातवें, ग्यारहवें शुक्र चंद्रमा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तो स्त्रियोंको वर देनेवाले हैं ॥ १ ॥

वधू कीदृशीतिप्रश्ने विचारः ।

चेज्जीवसौम्यौ सुतकंटकेषु यद्वा त्रिकोणायचतुष्टयेषु ॥

सौम्यैः सुखार्थात्मजदीर्घदाया भवेद्यदा स्वोच्चभगौ कुजार्की ॥१॥

यदि बृहस्पति बुध ५।१।४।७।१० में हों अथवा ५।९।११।१।४।७।१० में शुभ ग्रह हों तो सुख, धन, पुत्र, दीर्घ भाग्यवाली स्त्री है, यदि मंगल शनि ॥ १ ॥

तनौ स्मरे वित्तवती च रण्डा सुते खलैर्निःस्वकुला विसौख्या ॥

शनिः स्मरेंऽग्रे त्वसती च लग्नमृत्युस्तगैः पापखगैर्हि रण्डा ॥२॥

अपने उच्चके होकर लग्न, सप्तम घरमें हों तो धनवती रण्डा है, पंचममें पाप ग्रह हों तो निर्धन कुलकी सौख्यहीन है। शनि सप्तम, लग्नमें हो तो व्यभिचारिणी। १।८।७ में पाप ग्रह हों तो रण्डा है ॥ २ ॥

व्यये खलाश्चेद्विधवा षडष्टस्थेन्दौ मृतिः स्त्रीवरयोरिनाष्टे ॥

तनौ विधौ सप्तमगे कुजे चेद्वरस्त्रियोः स्यान्मृतिरष्टमासकैः ॥३॥

बारहवें पाप ग्रह हों तो विधवा है, छठे आठवें चंद्रमा हो तो स्त्री वरकी मृत्यु हो । सूर्य आठवें, चंद्रमा लग्नमें, मंगल सातवें हो तो आठवें महीनेमें वर स्त्रीकी मृत्यु हो ॥ ३ ॥

चरलमे चरचंद्रे केंद्रे पापैर्बलान्वितैर्मदने ॥

शुभयुतिवीक्षणहीने स्त्रीवरमरणं भवेच्छनैश्वरक्षे ॥ ४ ॥

लग्न चंद्रमा चर राशिके हों, केंद्रोंमें पाप ग्रह बलवान् हों, सप्तम घर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि युक्तिसे रहित हो तो स्त्री वरका मरण हो । लग्नमें शनैश्वरकी राशि मकर ॥ ४ ॥

लमे भार्गवचंद्रौ पापदृशा पुंश्र्वली च लग्नंदू ॥

पापद्वयमध्यगतौ पापैर्दृष्टौ कुलक्षयाय वधू ॥ ५ ॥

कुंभके शुक्र चंद्रमा पाप ग्रहोंसे दृष्ट हों तो पुंश्र्वली है । लग्न चंद्रमा दो पाप ग्रहोंके मध्यमें अथवा पाप ग्रहोंसे दृष्ट हो तो कुलकी क्षय करनेवाली वधू है ॥ ५ ॥

तुष्टा स्त्री ममेष्यतीति प्रश्ने विचारः ।

सुखादधोऽर्के मित ऊर्ध्वगे तु तुष्टांगना नैति च वक्रशुके ॥

समेति शुके च विनिर्गतेऽर्कात् सैति चेत्पूर्णविधुस्तदा प्राक् ॥

समेति तुष्टा च कृशे विलंबात्सुते रवौ भर्तृनिपीडिता स्त्री ॥ १ ॥

यदि चतुर्थ घरसे नीचेके स्थानमें सूर्य और ऊपरकेमें शुक्र हो तो वह प्रसन्न स्त्री नहीं आवेगी । यदि शुक्र वकी हो तो आवेगी । जो सूर्यसे शुक्र निकल गया हो तो तुष्टा स्त्री नहीं आवेगी और यदि पूर्ण चंद्रमा सूर्यसे पूर्व हो तो आवेगी । यदि चंद्रमा क्षीण हो तो विलम्बसे आवेगी, पांचवें घरमें सूर्य हो तो वह स्त्री पतिसे पीडित है ऐसा कहे ॥ १ ॥

स्त्रीपुंसोः प्रीतिप्रश्ने विचारः ।

चेदंगनालग्नपमुत्तसीलं प्रीतिर्यदांगास्तपयोस्तु दृष्टिः ॥

पुंस्त्रीयुगप्रीतिरथांगनाथे लग्नस्थिते भर्तृनिदेशगा स्त्री ॥ १ ॥

यदि सप्तमश लग्नशका इत्साल हो अथवा दोनोंकी परस्पर दृष्टि हो तो स्त्री पुरुषमें प्रीति होती है अथवा लग्नमें लग्नेश हो तो स्त्री भर्ताकी अज्ञाकारिणी रहती है ॥ १ ॥

स्मरेंगनाथो रमणीनिदेशगा यदांगनांगाधिपती तनुस्थितौ ॥
स्मरस्थितौ वा मिथ एव मित्रता द्वयोर्यदा लग्नमदेश्वरारिद्वक् ॥२॥

यदि लक्ष्मण सातवें वरमें हो तो पति कीजा आजाकारी होगा है । यदि समस्त लक्ष्मण लग्नमें अथवा सातवें वरमें स्थित हो तो स्त्री सुखकी आनसमें मित्रता होती है और जो लक्ष्मण लग्नमें नहीं परस्पर वैरिद्वष्टि हो तो ॥ २ ॥

तदा विरोधो द्वितयस्य चेत्सुखं शुभेक्षितं स्त्री धनवान् पतिर्भवेत् ॥
यदा सुखं सौम्ययुतं भवेत् तदा ददाति वित्तं पतिरेव च स्त्रियै ॥
मदे बलिष्ठे रमणी सवीर्या लक्ष्मे बलिष्ठे पुरुषो बलिष्ठः ॥ ३ ॥

दोनोमें विरोध रहता है और चतुर्थ्य लग्न शुभ ग्रहोंसे छूट हो तो पति स्त्रीके धनका भोगनेवाला होता है । यदि चौथा वर शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो पति अपना समस्त धन स्त्रीके लिये दे देता है । सातवां वर बलवान् हो तो स्त्री बलवती और लग्न बलवान् हो तो सुख बलिष्ठ होता है ॥ ३ ॥

विषकन्यामभे विचारः ।

रिपौ शुभग्रहद्वयं शुभान्यथा विषांगना ॥ ४ ॥

छठे वरमें दो शुभ ग्रह हों तो शुभ कन्या है, यदि नहीं हो तो विषकन्या है ऐसा ज्ञाते ॥ ४ ॥

आगमनदत्ते विचारः ।

तनुपतिस्तनुतूर्यगतेन वेन्मुतसिलं विदधाति तथांगपः ॥

कुटिलकेंद्रगतस्तनुमीक्षिते स सुखमेति तदा पथिको भुवम् ॥१॥

लक्ष्मण यदि लग्नस्थ या चतुर्थ्यस्थ ग्रहोंसे इच्छाल करता हो अथवा वस्त्री लग्नमें सातवें वरमें बैठकर लग्नको देखता हो तो पथिक सुखपूर्वक आवेगा ॥ १ ॥

तनुधनसहजस्याः सर्वस्वेटा यदि स्युस्तदुपथिक उपैति स्युर्य-
दा तत्र सौम्याः ॥ हृतगतनरवस्त्रातिर्यदा जीवशुक्रौ द्रुत-
तरमुपयात्येव स्वदेशे हि पान्यः ॥ २ ॥

लग्न, द्वितीय, तृतीय वरोंमें सब ग्रह हों तो पथिक आवेगा, यदि एक वरोंमें केवल शुभ ग्रहही हों तो नष्ट वस्तुकी प्राप्ति तथा गये हुएका आगमन होगा, यदि केवल बृहस्पति शुक्रही पूर्वोक्त वरोंमें हों तो पथिक बहुत जल्दी अपने घर आवेगा ऐसा रहे ॥ २ ॥

कश्चिद्ग्रहः सप्तमगोऽरिगो वा केंद्रे गुरुश्रागमनं करोति ॥

त्रिकोणगो ज्ञो यदि वा भृगुः स्यात्पांथागमश्चेद्धिमगुर्मृतिस्थः ॥३॥

यदि कोई ग्रह सातवें वा छठे घरमें हो, केंद्रमें बृहस्पति हो तो पान्थ आवेगा ।
९ । ५ में बुध अथवा शुक्र हो तो भी गया हुआ आवेगा, यदि आठवें घरमें चंद्रमा ॥ ३ ॥

केंद्रैर्विपापैः सुखमेति सौम्यैर्युक्तैः सलाभी सुखमभ्युपैति ॥

वित्ततृतीयाष्टमधर्मसंस्थैः सौम्यैश्चरैर्मार्गगतः प्रवासी ॥ ४ ॥

केंद्रोंमें शुभग्रह हों, पाप नहीं हों तो पथिक लाभसहित सुखपूर्वक घर आवेगा ।
२।३।८।९ घरोंमें शुभ ग्रह चर राशिके हों तो प्रवासी पुरुष मार्गमें है ऐसा बतावे ॥ ४ ॥

चंद्राङ्गराण्मुत्तसिले व्ययेंऽगे समेति शीघ्रं परथा विलम्बात् ॥

चंद्रे तनूजे त्रिगतेत्तसाले सप्ताष्टवित्तांबुषु वैति चंद्रे ॥ ५ ॥

चंद्रमा, लग्नश वारहवें अथवा लग्नमें स्थित होकर इत्तसाल करते हों तो प्रवासी आवेगा. यदि अन्य प्रकारसे हो तो विलम्बसे आवेगा । पांचवें घरमें स्थित चंद्रमाका तृतीयस्थ-ग्रहके साथ इत्तसाल हो अथवा ७ । ८ । २ । ४ घरोंमें चंद्रमा हो तो प्रवासी-आवेगा ॥ ५ ॥

लग्नविधू चरभे चरभांशे केंद्रसुतायसहोत्थशुभाश्चेत् ॥

एति यदा त्रिसुतारिनवस्त्रीवक्रखगा द्रुतमागमनाय ॥ ६ ॥

लग्न चंद्रमा चर राशि अथवा चर राशिके नवांशमें हों और ? । ४ । ७ । १० । ५ । ११ । ३ घरोंमें शुभ ग्रह हों तो प्रवासी आवेगा । यदि ३ । ५ । ६ । ९ । ७ घरोंमें धनी ग्रह हों तो प्रवासीका शीघ्र आगमन होगा ॥ ६ ॥

पृष्ठोदये लग्नगतेत्तसाले निशाकरे शीघ्रमुपैति पान्थः ॥

धर्मांबुवित्तास्तपतीसराफे चंद्रे ततो मुत्तसिले समेति ॥ ७ ॥

पृष्ठोदयराशिस्थ चंद्रमाका लग्नस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल हो तो पथिक शीघ्रही आवेगा
९ । ४ । २ । ७ इन घरोंके स्वामियोंके साथ चंद्रमाका इशराफ अथवा इत्तसाल योग हो तो प्रवासी भले प्रकार आवेगा ॥ ७ ॥

मार्गाधिपो भस्य परे दले चेद्धिदेशगो ना द्रुतमेति नूनम् ॥

धर्मांबुवित्तास्तपतीत्तसाले चंद्रे सुखाधःस्थखगेत्तसाले ॥

वीर्यप्रकर्षाच्चिरकालतः स्याद्धिदेशगस्थागमनं नरस्य ॥ ८ ॥

यदि मार्गेश राशिके परार्द्धमें हो तो विदेश गया हुआ पुरुष शीघ्रही-निःसंदेह
अभेत् ॥ ९ । ४ । २ । ७ इन घरोंके स्वामियोंके साथ अथवा चतुर्थ घरसे नीचेके

घरमें स्थित ग्रहके साथ चंद्रमाका इत्तसाल हो तो बलकी अधिकतासे अर्थात् ग्रहोंके अधिक बलवान् होनेसे विदेश गये हुए पुरुषका आगमन थोड़ी देरमें होगा इस प्रकार बतावे ॥ ८ ॥

पान्थश्चलितो न वेति प्रश्ने विचारः ।

लग्नेश्वरे शीतकरे च केंद्राद्विनिर्गते केंद्रगतेसराफे ॥

तनुतृतीयाष्टमगैर्ग्रहैर्वा विधौ स्मरे वा चलितः पदात् स्वात् ॥१॥

लग्नेश और चंद्रमा केंद्रोंसे निकलकर अन्य स्थानमें स्थित हों और केंद्रस्थ ग्रहके साथ इशराफ योग करते हों एक योग, १ । ३ । ८ घरोंमें समस्त ग्रह हों दूसरा योग, तथा सप्तममें चंद्रमा हो तीसरा योग इनमेंसे कोई एक योग होवे तो प्रवासी अपने स्थानसे चल दिया है ॥ १ ॥

वित्ते तृतीयाष्टमधर्मसंस्थे लग्नेश्वरे मार्गगतः प्रवासी ॥

चरोदये स्वामिशुभान्वितेक्षितेऽथवान्यखेटेक्षणयोगवर्जिते ॥२॥

२ । ३ । ८ । ९ घरोंमें लग्नेश हो तो प्रवासी मार्गमें है और यदि चर लग्न स्वामी वा शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो, पाप ग्रहोंसे अयुक्त और अदृष्ट हो तो नहीं चला है ॥ २ ॥

च्युतिर्नहि स्यात्परथा भवेदथो स्थिरे तनौ नैव कदा द्विमूर्त्तिभे ॥

शुभेशभूरीक्षणयोगतो नहि च्युतिः खलावीक्षणयोगतो भवेत् ॥३॥

यदि अन्य प्रकारसे हां अर्थात् पाप ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो चल पडा है और जो स्थिर लग्न हो तो नहीं चला और यदि द्विस्वभाव लग्न अपने स्वामी शुभ ग्रहसे पूर्ण दृष्ट वा युक्त हो तो नहीं चला और यदि पाप ग्रहोंकी पूर्ण दृष्टि वा युक्ति हो तो चल दिया है ॥ ३ ॥

किमध्वा पान्थेनातिवाहित इति प्रश्ने विचारः ।

तनोर्भुक्तांशकैस्तुल्यः पथिकेनातिवाहितः ॥

पंथाः शेषांशकैः शिष्टश्चलितस्यैव चिन्तयेत् ॥ ४ ॥

लग्नके भुक्तांशके तुल्य मार्ग नै कर लिया और भोग्यांशके समान चलनेका बाँकी रहा विचारे ॥ ४ ॥

यदसौ गृहं नागतो हतो बद्धो नवेति प्रश्ने विचारः ।

मूर्तो कूरे न हतो बद्धो नान्त्ये वा मदने हतबद्धः ॥

यदि मृतिवपुषोर्वा मदवपुषोः पापैर्निहतो बद्धः पान्थः ॥५॥

यदि मूर्तिमें अथवा सातवें बारहवें घर क्रूर ग्रह हों तो न मारा गया न बांधा गया, यदि आठवें लग्नमें अथवा सातवें और लग्नमें पाप ग्रह हों तो प्रवासी मारा गया वा बांधा गया कहे ॥ ५ ॥

कदैष्यतीति प्रश्ने विचारः ।

यदा लग्नतो नूनमायाति सौम्यस्तृतीयं तदाऽभ्येति पान्थो यदीन्दुः॥
विवाह स्मरं कंटकादग्रिमर्क्षं व्रजेदागमस्तत्क्षणे ह्यन्यदेशात् ॥ १ ॥

लग्नगत शुभ ग्रह जब कभी तीसरे घर पहुँचेगा उसी समय पथिक अपने घर आवेगा, यदि चंद्रमा सातवें घरको छोड़कर अन्य केंद्र (१ । ४ । ७ । १०) से आगेके घरमें जिस समय जावेगा उसी समय प्रवासी प्रदेशसे आवेगा ॥ १ ॥

लग्नाद्बली तिष्ठति यत्र गेहे कश्चिद्ब्रह्मस्तद्ब्रह्मसंमिताङ्काः ॥

सूर्याहतास्तैर्दिवसैः समेति वक्त्री स चेतैः पुनरेव गन्ता ॥ २ ॥

जो कोई बलवान् ग्रह लग्नसे जिस घरमें स्थित हो उस घरकी संख्याको बारह (१२) से गुणा करनेसे जो हो उतनेही दिनोंमें प्रवासी आवेगा, जैसे दूसरे घरमें हो तो दूसरे घरकी संख्या २ को १२ से गुणा करनेसे २४ दिनोंमें आवेगा । यदि वह ग्रह वक्त्री हो तो गुणा किये हुए दिनोंमें आकर फिर लौट जावेगा ॥ २ ॥

यदाङ्गनेशस्तनुमेति यद्वा लग्नाधिनाथेन कृतेत्तसालः ॥

तदा प्रवासी स्वगृहं समेति चरर्क्षयोगे स विशेषतश्च ॥ ३ ॥

सप्तमेश लग्नमें जिस समय पहुँचेगा अथवा लग्नेशके साथ इत्तसाल करेगा उसी समय प्रवासी अपने घर आवेगा और जो चर राशिका योग हो तो विशेष करके अर्थात् चर लग्न हो, लग्नेश सप्तेशभी चर राशिके हों तो प्रवासी सुखपूर्वक धनसहित आवेगा ॥ ३ ॥

दूरस्थ एव चेज्जीवविच्छुक्राश्चरभेऽबुनि ॥

आगन्ता तत्क्षणे गेहं नात्र कार्या विचारणा ॥ ४ ॥

यदि चतुर्थ स्थानमें चर राशिके बृहस्पति, बुध, शुक्र हों तो प्रदेशमें बहुत दूर गया हुआभी प्रवासी उसी समय घर आवेगा इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्वस्थोऽयं प्रवासी गृहमागतो न वेति प्रश्ने विचारः ।

चरर्क्षे चरमांशे च चतुर्थे शीतदीधितिः

गृहं प्राप्तः प्रवासी वा चतुर्थे स्वामिसंयुते ॥ ५ ॥

चंद्रमा चौथे घरमें चर राशि वा चर राशिके नवांशमें हो तो प्रवासी अपने घर आ गया अथवा चौथा घर अपने स्वामी वा शुभ ग्रहसे युक्त हो तोभी प्रवासी अपने घर आ गया है ऐसा कहे ॥ ५ ॥

सौम्यान्विते दिनातीतभोग्यं खेटगतैष्यवत् ॥
यदहस्तत्र संयोगश्चंद्रतस्तत्क्षणे गृहम् ॥ ६ ॥

किस समय आ गया इसका विचार इस तरह करना चाहिये कि, ग्रहके भुक्त भोग्यके समान दिनोंका भुक्त भोग्य होता है जैसे चौथे घरमें चंद्रमाका संयोग जिस दिन हुआ है उसी रोज प्रवासी अपने घर आया जानकर प्रश्नके समयतक गिनती करके भुक्त दिनोंकी संख्या बतावे कि प्रवासीको आये हुए इतने दिन बीते, यदि पूछे किस रोज आवेगा तो उक्त प्रकारसेही भोग्य दिनोंकी संख्या कहे, जैसे कि प्रश्नकुण्डलीमें चंद्रमा जिस किसी घरमें हो वहांसे चलकर जितने दिनोंमें पहुँचेगा उतने भोग्य दिनोंमें प्रवासी निज घरपर आवेगा इसी प्रकार औरभी जानना ॥ ६ ॥

दूरस्थजीवितप्रश्ने विचारः ।

तनुनाथविधू षडष्टतुर्ये यदि वा नीचभगौ न चास्तगौ वा ॥

मृतिराद्कृतमुत्सिलौ सपापौ मरणायैव सुदूरगस्य नूनम् ॥ ७ ॥

लग्ने चंद्रमा ६।८।४ इन घरोंमें नीचराशिगत हों और अस्तके न हों तथा अष्टमेशके साथ इत्तिसाल करते हों अथवा पाप ग्रहोंसे युक्त हों तो दूरदेशगत पुरुषके मरणार्थ निश्चयही होते है ॥ ७ ॥

यदेन्दुः सुखाधस्थवक्रोत्तसाली शुभावीक्षितो मृत्यवे
चेद्विर्वीर्याः ॥ शुभाः षण्मृतिद्वादशे पापदृष्टास्तनौ द्वौ
हिमाकौ विदेशी मृतः स्यात् ॥ ८ ॥

यदि चंद्रमा चतुर्थ गृहसे नीचेके स्थानस्थित वक्रो ग्रहके साथ इत्तिसाल करता हो और शुभ ग्रहोंसे अदृष्ट हो तो दूरस्थ पुरुषकी मृत्युके लिये समझना और जो शुभ ग्रह ६।८।१२ घरोंमें निर्बली होकर पाप ग्रहोंसे दृष्ट हों एवं चंद्रमा सूर्य लग्ने स्थित हों तो विदेशी मर गया ॥ ८ ॥

पृष्ठोदये पापयुते त्रिकोणे पापश्च केंद्राष्टमषष्ठसंस्थैः ॥

विसदृशा मृत्युगतः प्रवासी यदा रविधर्मगतो गदी स्यात् ॥ ९ ॥

पृष्ठोदय लग्न त्रिकोण (१।५।९) ये घर पापग्रहोंसे युक्त हों अथवा

१ । ४ । ७ । १० । ८ । ६ इन घरोंमें पाप ग्रह शुभ ग्रहोंकी दृष्टिसे रहित हों तो प्रवासी मर गया और जो सूर्य नवम स्थानमें हो तो प्रवासी रोगयुक्त है ॥ ९ ॥

यदि शुभान्वितवीक्षितशीतगुः सुखग्रहोर्ध्वगखेचरमुत्तिसली ॥

तद्दु विदेशगतः सुखकोशवान् नियतमेव हि जीवति मानवः॥१०॥

यदि चंद्रमा शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट होकर चतुर्थ स्थानसे ऊपरके घरमें स्थिति करनेवाले ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो विदेशगत पुरुष सुख धनसे युक्त जीता है ऐसा कहे ॥ १० ॥

यात्राप्रश्ने विचारः ।

उदये यदि चरराशिर्द्रेष्काणे वा नवांशके लग्ने ॥

यद्वा खेटे चरभे दशमाद्दृष्टे प्रवासचिंता स्यात् ॥ १ ॥

लग्नमें यदि चर राशि हो अथवा लग्नमें चर राशिका द्रेष्काण वा नवांश हो अथवा चर राशिका कोई ग्रह दशम घरसे आगेके घरमें गया हो तो पूछनेवालेको यात्राकी चिंता है ऐसा कहे ॥ १ ॥

लग्नविधू चरभे यदि सौम्यैर्दृष्ट्युतौ गमनं जयलब्धिः ॥

तौ स्थिरभे यदि सद्भुतदृष्टौ नो गमनं स्थितितश्च जयाप्तिः ॥२॥

लग्न चंद्रमा चर राशिके होकर सौम्य ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तो पूछनेवालेका जाना होगा और वहांसे जयकी प्राप्ति होगी । यदि वे दोनों लग्न चंद्रमा स्थिर राशिके हों और शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हों तो जाना अच्छा नहीं है । अपने स्थानपर रहनेसे विजयप्राप्ति होगी ॥ २ ॥

तौ द्वितनौ यदि केवलपापैर्दृष्ट्युतौ कुगतेर्विनिवृत्तिः ॥

विघ्नपराभवतो यदि तौ द्वौ द्व्यंगगृहे शुभवीक्षितयुक्तौ ॥ ३ ॥

यदि लग्न चंद्रमा द्विस्वभाव राशिके हों तथा केवल पाप ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो यात्रा करनेमें कुगति, विघ्न पराजय होनेसे लौट आना होगा, यदि वे दोनों लग्न चंद्रमा द्विस्वभाव राशिके होकर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो ॥ ३ ॥

अल्पसुखार्थकरी तद्दु यात्रा चेत्सखलं चरभं गमने स्यात् ॥

क्लेशरुजौ यदि च द्वितयाङ्गं जीवयुगर्द्धपथो विनिवृत्तिः ॥ ४ ॥

यात्रा करनेमें अल्प सुख, धन मिलेगा और जो पाप ग्रहोंसे युक्त चर लग्न हो तो जानेवालेको क्लेश और रोग होगा । यदि द्विस्वभाव लग्न बृहस्पतिसे युक्त हो तो आधा मार्ग चलकर लौट आना होगा ॥ ४ ॥

तनौ स्थिरे चोग्ररिपुप्रदृष्टान्विते बलिष्ठे नः गमोऽतिविघ्नतः ॥

शीर्षोदये स्याद्गमनं स्थिरेऽपि पृष्ठोदये चंद्रतनू न यात्रा ॥ ५ ॥

जो बलवान् स्थिर लय हो, पाप ग्रह वा शत्रुग्रहोंसे दृष्ट हो तो अतिविघ्न होनेसे जाना नहीं होगा और जो शीर्षोदय राशिका लय हो तो जाना होगा और यदि लय स्थिर हो तोभी जाना होगा और यदि चंद्रमा लय पृष्ठोदय राशिका हो तो यात्रा नहीं होगी ॥ ५ ॥

पृष्ठोदये स्थिरर्क्षे तु प्रतीपं गमनं चिरात् ॥

चरे शीघ्रं भवेद्यात्रा द्विस्वभावो विलम्बतः ॥ ६ ॥

जो लय स्थिर तथा पृष्ठोदय राशिका हो तो बहुत कालमें उलटी यात्रा होगी अर्थात् जिधर जानेका विचार किया है उधर जाना नहीं होगा अन्यत्र जाना होगा, यदि चर लय हो तो यात्रा होगी, द्विस्वभाव हो तो विलंबसे जाना होगा ॥ ६ ॥

नवाधिपो लग्नपशीतगुभ्यां यदेत्तसाल्यस्ति तदैव यात्रा ।

नवस्थिते लग्नपतौ विधौ वा द्रुतं गतिर्धर्मपतौ तनुस्थे ॥ ७ ॥

नवमेशका लग्नेश वा चंद्रमाके साथ जब कभी इत्तसाल होगा उसी समय जाना होगा और यदि लग्नेश वा चंद्रमा नवम घरमें स्थित हों तो शीघ्रही जाना होगा । नवमेश लग्नमें ॥ ७ ॥

लग्नेश्वरे केंद्रतृतीयगे वा यात्रा भवेद्वा तनुधर्मपत्योः ॥

लग्ने यदा मुत्तसिलं गति स्याद्धर्मार्गणौ चेद्विबलौ न यात्रा ॥ ८ ॥

और लग्नेश केंद्र वा तीसरे घरमें स्थित हो तो यात्रा होगी । यदि लग्नमें लग्नेश नवमेशका इत्तसाल हो तो जाना होगा और यदि नवमेश लग्नेश निर्वल हों तो यात्रा नहीं होगी ॥ ८ ॥

लग्नाधिनाथस्य च धर्मपस्य सौम्येत्तसाले च खलैस्तनुस्थैः ॥

केंद्रेषु केंद्राधिपतीत्तसाले शीतांशुलग्नेश्वरयोर्न यात्रा ॥ ९ ॥

लग्नेश नवमेशका शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल हो और पाप ग्रह लग्नमें हों अथवा केंद्रमें चंद्रमा लग्नेशका केंद्राधिपति ग्रहके साथ इत्तसाल हो और पूर्वोक्त पाप ग्रहभी लग्नमें हो तो यात्रा नहीं होगी ॥ ९ ॥

चेदित्तसालः खललग्नपत्योर्न स्याद्गविर्वा नवमेऽप्यदृष्टे ॥

धर्मेद्विधुभ्यां च खले स्मरस्थे यात्रर्थकार्यक्षयतो न यात्रा ॥ १० ॥

यदि लग्नेशका पाप ग्रहके साथ इत्तसाल हो तो जाना नहीं होगा । नौवां घर नवमेश तथा चंद्रमासे अदृष्ट हो, पाप ग्रह सातवें घरमें हो तो जानेवालेका अर्थ-कार्य नाश होनेसे जाना नहीं होगा ॥ १० ॥

पापैर्दशस्थैर्न गतिः प्रदिष्टा स्वज्येष्ठबंध्वीश्वरयोर्निषेधात् ॥

लग्नस्थितेस्तैः शुभदा तु यात्रा नास्तीह वा दौर्धरिकारुययोगे ११

जो पाप ग्रह दशवें घरमें हों तो अपने ज्येष्ठ बंधु वा स्वामीके मना करनेसे जाना नहीं होगा और यदि वे पाप ग्रह लग्नमें स्थित हों तो यात्रा शुभदायक नहीं होगी अथवा लग्नमें दुर्धरायोग हो गया हो तो ॥ ११ ॥

ज्येष्ठाधिपालस्य निषेधतोऽस्मिन् पापोद्भवे तस्कररोगभीतिः ॥

त्रिषष्ठलाभेषु खला रिपूणां क्षयाय यात्रासु रसातलस्थाः ॥१२॥

सबसे बड़े अपने घरके मुखियाके मना करनेसे जाना नहीं होगा । जो यदि लग्नमें पाप ग्रहका उदय हो तो चोर और रोगसे भय होगी और पाप ग्रह ३ । ६ । ११ घरोंमें हों तो शत्रुओंका नाश होता है और यात्रामें चौथे घर पाप ग्रह हों तो ॥ १२ ॥

मार्गान्निवृत्त्यैव चतुष्टयस्थाः पापा हि कार्यस्य विनाशनाय ॥

त्वेन्मुत्तसीलं तनुधर्मपत्योर्दृष्टं शुभैर्मित्रदृशा सुखेन ॥ १३ ॥

मार्गसे छोट आना हाता है और जो केंद्रोंमें हों तो कार्यका विनाश होता है । यदि लग्नेश नवमेशका इत्तसाल शुभ ग्रहोंने मित्रदृष्टिसे देखा हो तो सुखसे ॥ १३ ॥

जयार्थसिद्धयै परथाऽन्यथा स्यात्क्रूरेऽरिपे बंधरुजो व्ययेशे ॥

विलग्नपे मृत्युरथ स्मरेशे क्रूरेऽष्टपे वा रिपुचौरभीतिः ॥ १४ ॥

जय और अर्थकी सिद्धि होती है । यदि अन्य प्रकारसे हो तो अन्यथा फल कहे अर्थात् नवमेश लग्नेशका इत्तसाल न हो, पाप ग्रहोंकी वैरिदृष्टि हो तो पराजय और अर्थहानि होती है । यदि षष्ठेश द्वादशेश क्रूर हों तो बंधन, रोग लग्नेश क्रूर हो तो मृत्यु, सप्तमेश अष्टमेश क्रूर हों तो शत्रु तथा चोरसे भय होती है ॥ १४ ॥

व्ययाष्टमे तस्कररोगभीतिर्लग्नाधिपे-चोग्रयुते मृतेर्भीः ॥

शुभेऽगपे वीर्ययुते शुभं स्याल्लग्नेशधर्माधिपतीत्तसाले ॥ १५ ॥

यदि लग्नेश १२ । ८ में हो तो चोर और रोगसे भय और जो लग्नेश पाप-ग्रहसे युक्त हो तो मृत्युभय होती है और शुभ ग्रह लग्नेश-बलवान् हो तो अथवा लग्नेश नवमेशका इत्तसाल हों तो शुभ फल होता है ॥ १५ ॥

चतुष्टयस्था गमनं शुभाय धने तु लाभाय सुखेऽथ सिद्धयै ॥

चंद्रादपीत्थं प्रवेदत्फलं वा ततो वदेद्भावफलानि तत्र ॥ १६ ॥

यदि शुभ ग्रह केंद्रोंमें स्थित हों तो जाना शुभदायक होता है, दूसरे हो तो धन-लाभ, चौथे हों तो सिद्धि होती है, इसी प्रकार चंद्रमासेभी फल कहे, तदन्तर भावोंका फल वर्णन करे ॥ १६ ॥

सौम्ये तनौ कायसुखं सुखार्थभोज्येष्टसिद्धिश्च सुखे सुखेन ॥

जयार्थलाभश्च सुतेऽर्थसिद्धिः पदाम्बरातिर्मदने धनाप्तिः ॥

स्याद्वाहनापिदर्शमे च कार्यसिद्धिर्भवेत्सौख्यधनार्थलाभः ॥१७॥

यदि लग्नमें शुभ ग्रह हों तो शरीरसुख, चौथे हों तो सुख, अर्थ, भोज्यवस्तु, मनोरथकी सिद्धि; पांचवें हों तो सुखसे विजय और अर्थलाभ, सातवें हों तो अर्थसिद्धि, स्थान वस्त्रादिकी प्राप्ति, दशवें हों तो धन वाहनकी प्राप्ति, ग्यारहवें हों तो कार्यसिद्धि, सुख, धन, अर्थका लाभ होता है ॥ १७ ॥

कदा चलिष्यतीति प्रश्ने विचारः ।

यदा नवेशस्तनुमेति यद्वा लग्नाधिनाथेन कृत्तेत्तसालः ॥

प्रष्टुस्तदा स्याद्गमनं च तत्र चरर्क्षयोगे सविशेषतः स्यात् ॥ १ ॥

जिस समय नवमेश लग्नमें पहुंचेगा अथवा लग्नेशके साथ इत्तसाल करेगा तो उसी समय पूछनेवालेका जाना होगा और जो चर राशिका योग हो अर्थात् लग्न, लग्नेश और नवमेश चर राशिके हों तो विशेषकरके जाना होगा ॥ १ ॥

विश्रामप्रश्ने पौरयात्रायां विचारः ।

लग्नेन्दू चरमे ह्येकः स्थिरे द्वौ द्वितनौ त्रयः ॥

बहवो यदि वा वाच्या विश्रामा बलवद्भशात् ॥ २ ॥

लग्न चंद्रमा चर राशिके हों तो एक, स्थिरके हों तो दो, द्विस्वभावके हों तो तीन अथवा बहुत विश्राम होंगे ऐसा कहे अथवा बलवान् ग्रहसे विश्राम कहे ॥ २ ॥

लग्नभोदितनंदाशात्तुर्यसप्तनवांशके ॥

यत्र खेटो हितर्क्षादौ सुस्थो विश्रामकृद्भवेत् ॥ ३ ॥

जो पूछे कि सुखके साथ विश्राम होगा वा नहीं तो विचारे कि लग्नके उदित नवांशसे चौथे, सातवें, नौवें नवांशमें ग्रह भिन्नकी राशिका हो तो जानेवाला सुखपूर्वक विश्राम करेगा ॥ ३ ॥

स च वक्री पुनर्याति योऽतीचार्याशुयानदः ॥
तन्मध्यांशेषु विश्रामाः श्रेष्ठाः सौम्यैस्तदन्तरा ।
पापैस्तदन्तरा दोषो बलवल्लग्नपात्तु वा ॥ ४ ॥

यदि वह ग्रह वक्री हो तो फिर चल देगा, यदि अतीचारी हो तो बहुत शीघ्र जा-
यगा, उक्त नवांशोंके मध्यस्थ नवांशोंमें अर्थात् पांचवें, छठे, आठवें नवांशोंमें शुभ ग्रह
हों तो मार्गमें सुखपूर्वक श्रेष्ठ विश्राम और जो पाप ग्रह हों तो दोषयुक्त दुःखपूर्वक
होंगे अथवा बलवान् लग्नेशसे विश्रामका हाल कहे ॥ ४ ॥

गन्तुरभिमुखं कः करिष्यतीति प्रश्न विचारः ।

तनावजेऽजो गवि गौरुनृयुग्मे दिव्यांगना कर्किणि चाग्निभृत्स्त्री ॥
प्रदक्षिणे कुक्कुटनिःस्वनं वा सिंहे मिलेदोतुरु कन्यकायाम् ॥ १ ॥

मेष लग्नेमें मेंढा बकरा, वृषमें बैल, मिथुनमें दिव्य स्त्री, कर्कमें अग्नि लिये स्त्री वा
दाहिनी ओर मुर्गेका शब्द, सिंहमें बिलाव, कन्यामें ॥ १ ॥

वधूर्दिवाभीतककाकशब्दो वृक्षेऽथवा तौलिनि नोनकांगः ॥
शिवारवो वा कपिलोऽलिराशौ नरश्च चापे सुनरो मृगे स्त्री ॥२॥

वधू अथवा दाहिनी ओर उल्लू और काकका शब्द, तुलामें पूर्ण अंगवाला
पुरुष वा लोखडीका शब्द, वृश्चिकमें कपिल पुरुष, धनमें सुन्दर पुरुष, मकरमें नीच
स्त्री वा पविया पक्षी ॥ २ ॥

नीचा चषो वा कलशे च दासी मीने च रण्डाभिमुखं प्रयातुः ॥
नराङ्गनासंज्ञभसंयुतेऽङ्गेः क्रमान्नरस्त्रीकुनरा मिलन्ति ॥ ३ ॥

कुंभमें दासी, मकरमें रांड स्त्री जानेवालेको सामने मिलेंगी । पुरुषमें स्त्रीसंज्ञक रा-
शिका लग्न हो तो क्रमसे पुरुष, स्त्री अथवा खोटे नर मिलेंगे ऐसा कहे ॥ ३ ॥

कस्य समीपे यातीति प्रश्ने विचारः ।

इत्तसाले विधोर्भानुना भूपतेश्चामरेज्येन साधोः सितेन स्त्रियाः ॥
सौरिणा नीचपानां च सौम्येन वाणिज्यलेख्यादिपांडित्यभूमीभृताम् १

चंद्रमाका सूर्यके साथ इत्तसाल योग हो तो राजाके समीप, वृहस्पतिके साथ
हो तो साधुके पास, शुक्रके साथ हो तो स्त्रीके पास, शनैश्वरके साथ हो तो नीच
पुरुषोंके पास, बुधके साथ हो तो वाणिज्य करनेवाले लिखनेवाले पांडित्य करनेवाले
अथवा राजाके पास ॥ १ ॥

कुजेनैति मंत्रोग्रपापेश्वराणां समीपे प्रयात्यैनिना चेशराफे ॥

विधोर्व्याश्रयेणारतः स्वेशभीतेर्दिनेशेन चोर्वीशशंकाकुलत्वात् २

मंगलके साथ हो तो उग्र पाप करनेवाले राजोंके पास जाता है और चंद्रमाका शनैश्वरके साथ इशराफ योग हो तो विशेष आश्रयसे, मंगलके साथ हो तो अपने स्वामीकी भयसे साथ हो तो राजशंकासे व्याकुल होकर ॥ २ ॥

खलेनेंदुजेनार्थशून्यं प्रयातीशराफे शुभैर्मध्यमार्थाय याति ॥३॥

पाप ग्रह वा बुधके साथ हो तो विना प्रयोजन और शुभ ग्रहोंके साथ इशराफ योग हो तो मध्यम अर्थके लिये जाता है ॥ ३ ॥

गंता पुनः कदैष्यतीति प्रश्ने विचारः ।

यदा सप्तमपो वक्री खेटो भूयात्तदागमः ॥

इह नक्षत्रवक्रेण ग्रहवक्रं विचारयेत् ॥ १ ॥

सप्तमेश जिस रोज वक्री होगा उसी दिन जानेवालेका आना होगा, परन्तु वहांपर नक्षत्रके वक्रसे ग्रहका वक्र विचारना चाहिये ॥ २ ॥

मार्गफलम् ।

शुभस्तनुपतिर्यत्र भवेत्तस्मात्सुखार्थदः ॥

लग्नेशेन्दू च जलभे पापात्तौ जलचारितः ॥ २ ॥

शुभ ग्रह लग्नेश जिस भावमें हो उसी भावसे सुख और अर्थकी प्राप्ति होनी बंतावे । यदि लग्नेश चंद्रमा जलराशिस्थ होकर पाप ग्रहोंसे पीडित हों तो जलचारी जीवसे ॥ २ ॥

सिंहे सिंहादलौ सर्पात्तूर्यपादे चतुष्पदात् ॥

नृभेः तस्करवैरिभ्यां भयं चाहिकुजे विषात् ॥ ३ ॥

सिंहराशिके हों तो सिंहसे, वृश्चिकके हों तो सर्पसे, चतुष्पाद राशिके हों तो चौपायोंसे, नरराशिके हों तो चोरों अथवा वैरियोंसे, वृश्चिकके मंगलके साथ हों तो विषसे ॥ ३ ॥

निर्जलर्क्षे तृषाभीतिर्निरम्बुनि पदे भवेत् ॥

शनिना पीडितश्चंद्रो जलाशयभयं वदेत् ॥ ४ ॥

निर्जलराशिके हों तो निर्जल स्थानमें तृषासे भय होय । शनैश्वरसे पीडित चंद्रमा हो तो जलाशयसे भय हो ॥ ४ ॥

लग्नाद्वा लग्नाथाद्वा यावन्तः क्रूरखेचराः ॥

नवमे द्वादशे वापि तत्संख्योपद्रवाः स्मृताः ॥ ५ ॥

लग्नसे वा लग्नेशसे नौवें वारहवें स्थानमें जितने क्रूर ग्रह हों तो उतनेही उपद्रव मार्गमें होने चाहिये ऐसा कहे ॥ ५ ॥

यावन्तश्च शुभा मार्गे तावन्तः सुखभोगदाः ॥

क्रूरयुक्तेक्षितो मंदः सौम्यदृग्योगवर्जितः ॥ ६ ॥

जितने शुभ ग्रह नवम घरमें हों तो उतनेही सुखभोग देनेवाले होते हैं और क्रूर ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट और शुभ ग्रहोंसे अयुक्त वा दृष्ट शनैश्चर ॥ ६ ॥

नवस्थो रोगकृन्मृत्यौ मृत्युदः परिकीर्तितः ॥

रवौ वा मंगले मृत्यौ पथि चौरभयं मृतौ ॥ ७ ॥

नवम घरमें हो तो रोग और आठवें हो तो मृत्यु करता है । सूर्य मंगल आठवें हों तो मार्गमें चोरोंसे भय हो और आठवें घर ॥ ७ ॥

यावन्तः खेचरा मार्गे तावन्तः स्युरूपद्रवाः ॥

कुजोऽष्टमे समदेक्षश्चंद्र शस्त्राहतिस्तदा ॥ ८ ॥

जितने ग्रह हों तो मार्गमें उतनेही उपद्रव होते हैं । आठवें घर मंगल हो तथा चंद्र-माको शनैश्चर देखता हो तो शस्त्रसे मृत्यु हो ॥ ८ ॥

चंद्रार्कयोरष्टगयोर्यमेन सदृष्टयोः शस्त्रभयं च मार्गे ॥

रन्ध्रे सिते ज्ञे च सुखाप्तिरारे मन्दे भयं पापयुगीक्षिते स्यात् ॥९॥

अष्टमस्थ चंद्र सूर्यको शनैश्चर देखता हो तो मार्गमें शस्त्रभय हो, नवमें आठवें घरमें शुक्र बुध हों तो सुखप्राप्ति और पापग्रहोंसे युक्त दृष्ट मंगल शनैश्चर हों तो भय हो ॥९॥

लग्नलग्नेशयो पार्श्वे यावन्तश्च शुभग्रहाः ॥

तावत्पदेषु सौख्याप्तिः परथापरथा ततः ॥ १० ॥

लग्न और लग्नेशके पार्श्वमें जितने शुभ ग्रह हों तो उतनेही स्थानोंमें सुखकी प्राप्ति हो और जो पाप ग्रह हों तो उतनेही स्थानोंमें दुःखोपद्रव हों ॥ १० ॥

रवौ वा मंगले मृत्यौ पथि चौरभयं मृतौ ॥

यावन्तः खेचरास्तावच्चौराः सिंहेऽथ चेद्रविः ॥ ११ ॥

सूर्य वा मंगल आठवें घर हो तो मार्गमें चोरभय हो तथा आठवें घर जितने ग्रह हों तो उतनेही चोर बताने चाहिये । यदि सिंहके सूर्य हों ॥ ११ ॥

कुजोऽष्टमे भयं च्छेदश्चंद्रः शस्त्राहतिस्तदा ॥

तनौ शुक्रे गुरौ वापि सुखं वा प्रबलेंजगपे ॥ १२ ॥

और मंगल आठवें हो तो भय, अंगच्छेद हो । यदि चंद्रमा मंगलके साथ आठवें हो तो शस्त्रसे भय हो, लघमें बृहस्पति वा शुक्र हो और लघेश बलवान हो तो सुखकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

भृगौ वा गुरौ वांगपे वैरिचोराहवेभ्यो भयं नो भवेद्वा प्रहारः ॥

पथि स्याद्भृगौ वा विधौ सप्तमस्थे वधूभिर्विलासो बलिष्ठेऽधिभोगः ॥ १३ ॥

यदि शुक्र वा बृहस्पति वा लघेश बलवान हों तो वैरि चौरोंके युद्धसे भय वा प्रहार नहीं हो और नववें शुक्र, सातवें चंद्रमा हो तो वधूजनकोंके साथ विलास हो और जो अधिक बलवान हों तो अधिक भोग मिले ॥ १३ ॥

स्वभे य ईज्यो गगने नृपालाद्गतार्थलाभो भृगुजे च लब्धिः ॥

चंद्रे च सौम्ये सुखमाप्तिरुक्ता पृष्ठोदयर्क्षं खलवीक्षितं चेत् ॥ १४ ॥

जो अपने राशिके बृहस्पति दशम स्थानमें हो तो राजासे गत द्रव्यका लाभ हो और यदि शुक्र हो तो धनकी प्राप्ति, चंद्रमा बुध हों तो सुखप्राप्ति हो और जो पृष्ठोदय राशि पाप ग्रहोंसे दृष्ट हो तो ॥ १४ ॥

वधश्च बंधस्त्वह पापखेटा यदा तृतीये न शुभेक्षिताः स्युः ॥

मृतौ गतोऽन्यत्र हि वा प्रवासी वान्यत्र गेहे पथ उक्तयोगे ॥

मृतो यदा पापखगा हि केंद्रे शुभैरदृष्टा मुषितः स चौरैः ॥ १५ ॥

वध और बंधनकारक कही हैं और यदि तीसरे स्थानमें पाप ग्रह शुभ ग्रहोंसे न देखे गये हों तो प्रवासी मर गया वा कहीं वा अन्यत्र चला गया (मार्गका घर) नौवें वा अन्य स्थानमें उक्तयोग हो तो प्रवासी मर गया । यदि केंद्रोंमें पाप ग्रह शुभ ग्रहोंसे अदृष्ट हों तो वह प्रवासी मार्गमें चौरोंने लूट लिया है ऐसा कहे ॥ १५ ॥

पुरप्रवेशादकस्मात्फलमास्ति न वेति प्रश्ने विचारः ।

नगरप्रवेशलग्नाद्धनपो वक्री ततोऽर्थसंसिद्धयै ॥

न स्थित्यै त्वातिवक्री किञ्चित्स्थितिकृन्नार्थसंसिद्धयै ॥ १ ॥

नगरमें प्रवेश करनेकी लघसे दूसरे स्थानका स्वामी ग्रह वक्री होवे तो वहांसे अर्थकी सिद्धि होगी और जो अतिवक्री हो तो उस जगह अच्छी तरह ठहरना नहीं होगा किन्तु थोड़ी देर ठहरना होगा और अर्थकी सिद्धि नहीं होगी ॥ १ ॥

अतिमंदगतिः शुभकार्यकरो यदि कोशपतिस्तनुकोशभवे ॥

सकलार्थकरो यदि तिग्मकरस्त्रिनवे पुनरेति कृतार्थधनः ॥ २ ॥

अतिमंदगति हो तो कार्य सिद्ध होगा. यदि धनेश लग्न दूसरे ग्यारहवें हो तो सकल अर्थकी सिद्धि होगी । यदि सूर्य तीसरे नौवें हो तो फिर अर्थ और धनकी सिद्धि करके आवेगा ॥ २ ॥

धनपतौ सखले सुखगे गदी स्वगृहमेति मृतिं लभतेऽथवा ॥

मदनगे कलहोऽत्र चतुष्टये हिमकरे सखले भवति क्षतिः ॥

यदि तनुनवपेन्दवो हि केंद्रे शुभदृष्टाः शुभदा न चात्र पापाः ॥३॥

यदि धनेश पापग्रह युक्त चतुर्थमें हो तो रोगी होकर अपने घर आवेगा वा मर जायगा । जो धनेश सातवें हो तो लडाई होगी और केंद्रमें पापग्रह युक्त चंद्रमा हो तो घाव वा चोट लगेगी । यदि पाप ग्रहोंसे रहित लग्नेश, नवमेश, चंद्रमा केंद्रोंमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हों तो शुभ फल होगा ऐसा कहे ॥ ३ ॥

इदं स्थानं कीटागति प्रश्ने विचारः ।

शुभेन चंद्रस्य यदीशराफः पापेन वा मुत्तसिलं पदं सत् ॥

यस्माद्गतं चेदशुभेशराफं शुभेत्तसालो यदि वा परस्तात् ॥ १ ॥

यदि चंद्रमाका शुभ ग्रहके साथ इशराफ योग अथवा पाप ग्रहके साथ इत्तसाल योग हो तो स्थान शुभ है । यदि चंद्रमाका अशुभ ग्रहके साथ इशराफ योग हो तो पाहिले शुभ था और जो शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल योग हो तो आंगको किसी समय शुभ होगा किन्तु इस समय शुभ नहीं है इस प्रकार बतलावे ॥ १ ॥

अमुकपार्श्वे यामि स मिलति न वेत्ति प्रश्ने विचारः ।

केंद्रस्थिते बलयुते स्मरपे स्वगेहे स्यात्संयुतिः पणफरे च नि-

जोपगेहे ॥ आपोक्लिमे च मिलनं न भवेत्परत्र संस्थः स यस्य

मिलने व्रजति प्रवासी ॥ १ ॥

सप्तमेश बलवान् होकर केंद्रमें स्थित हो तो अपनेही घर मिलेगा, पणफरमें हो तो अपने घरके समीपवाले घरमें मिलेगा और आपोक्लिम स्थानमें हो तो जिससे मिलनेको जाता है वह कहीं अन्यत्र स्थित है, नहीं मिलेगा ॥ १ ॥

राज्यलाभप्रश्ने विचारः ।

विधुलग्नपती बलिनौ दशगौ शुभदृष्टयुतौ च तनौ दशपे ॥

पदलब्धिरथावरपो विधुना तनुपेन हि वा कृतमुत्तसिलः ॥ १ ॥

चंद्रमा और लग्नेश बलवान् होकर दशमं घरमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों और दशमेश लग्नमें हो तो राज्यकी प्राप्ति होगी और जो दशमेशका चंद्रमा वा लग्नेशके साथ इत्तसाल हो ॥ १ ॥

अथवोच्चमुखो हि शुभोऽबरदृक् पददो यदि वा विधुलमखपाः ॥

शुभदृष्टयुताश्च शुभा निजतुंगमुखा नियतं पदलाभकराः ॥ २ ॥

अथवा उच्चका शुभ ग्रह दशम घरको देखता हो राज्यकी प्राप्ति होगी, अथवा चंद्रमा, लग्नेश, दशमेश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तथा शुभ ग्रह अपने उच्चके हों तो निश्चयही राज्यकी प्राप्ति होगी ॥ २ ॥

बलान्विते देवगुरौ विपामरेऽथवा शुभैर्दृष्टयुते निशापतौ ॥

समौजसि स्वल्पबलेऽथवा भवेत् यदासिक्वच्चक्रमणेन पृच्छतः ॥३॥

अथवा बृहस्पति बलवान् उच्चके हों, नीचके न हों अथवा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त चंद्रमा समबली वा अल्पबली हो तो पूछनेवालेको भ्रमण करनेसे राज्य प्राप्त होगा ॥३॥

तनौ तनुपतिः स्वर्क्षे तुंगे वा स्वोच्चपेक्षितः ॥

क्रमेण राज्यलाभाय यदा स्वांगपतिस्तनौ ॥ ४ ॥

लग्नमें लग्नेश अपनी राशिका वा उच्चका वा अपने उच्चसे दृष्ट हो तो क्रमसे राज्यका लाभ होगा, अथवा दशमेश लग्नेश लग्नमें हों ॥ ४ ॥

शुभैः शेषैस्त्रिकोणा ये बलिभिः परमोन्नतिः ॥

अर्चितिता स्वभादिस्थैः किञ्चिदूना प्रकीर्तिता ॥ ५ ॥

शेष शुभ ग्रह बलवान् होकर ९ । ५ । ११ में हों तो विना विचारे परम उन्नति होगी, यदि अपनी राज्यादिमें हों तो पूर्वोक्तसे कुछ कम उन्नति होगी ॥ ५ ॥

मीने तनौ जीवसितान्विते बुधे भवेत्पदासिश्च गुरौ चतुष्टये ॥

शीर्षोदये चंद्रसितेन्दुजा युताः सुराज्यलाभो यदि कर्मपस्तनौ ॥६॥

मीन लग्नमें बृहस्पति, शुक्र, बुध हों तो राज्यप्राप्ति और यदि बृहस्पति केंद्रमें हो तथा शीर्षोदय राशिोंपर चंद्र, शुक्र, बुध युक्त हों तो अच्छे राज्यकी प्राप्ति और यदि दशमेश लग्नमें स्थित होकर ॥ ६ ॥

शुभेत्तसाली पददायकस्तथा खगः प्रदृष्टोदयगः पदप्रदः ॥

यदा खभेऽगे तनुपः स्वतुंगगः कुजः पदासिर्द्यदि रात्रिभूपतिः ॥७॥

किसी शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो राज्यप्राप्ति, इसी प्रकार कोई ग्रह हर्षावस्थित उदयका हो तो राज्यप्राप्ति और यदि लग्नेश दशम वा लग्नमें हो, मंगल उच्चका हो तो राज्यप्राप्ति और यदि चंद्रमा ॥ ७ ॥

बली हि केंद्रे स शुभो विषामरः पदप्रदो निन्द्यविधुः कदापि नो ॥
सुरेज्यलग्नेश्वररात्रिपा यदा परार्दिता अन्यनृपः पदं हरेत् ॥ ८ ॥

बली होकर केंद्रमें शुभ ग्रहोंके साथ नीचका न हो तो राज्यप्राप्ति, यदि निन्दित चंद्रमा हो तो कदापि राज्य नहीं मिलेगा, यदि वृहस्पति, लग्नेश, चंद्रमा शत्रुग्रहों वा पाप ग्रहोंसे पीडित हों तो अन्य राजा राज्यको छीन लेगा ॥ ८ ॥

लग्नेश्वराधिष्ठिशुभर्क्षगः शुभो राज्यार्थदोऽस्तादिगतः कदापि नो ॥
यदांगपोऽरिव्ययगोऽतिदुर्बलः खलयेशोभयलब्धमुत्सिलः ॥ ९ ॥

लग्नेशयुक्त शुभ राशिपर कोई शुभ ग्रह हो तो राज्य और अर्थकी प्राप्ति, यदि वह लग्नेश और शुभ ग्रह अस्त आदिके हों तो कदापि राज्यकी प्राप्ति नहीं होगी, यदि लग्नेश निर्बली होकर ६।१२ में स्थित हो अथवा दशमेश अष्टमेश दोनोंके साथ इत्तसाल करता हो ॥ ९ ॥

चतुष्टये वा निधने खलैर्युक्ते पदस्य लाभो नृपतेश्च बन्धनम् ॥

व्ययाम्बरेशोग्रजमुत्सिलेऽबरे भवेद्धि राज्ये नृपतेश्च बंधनम् ॥

शनौ सुखे वा लघुतत्स्मरे तथा परत्र राज्याद्भुतमेव नश्यति ॥१०॥

अथवा केंद्र वा आठवां घर पाप ग्रहोंसे युक्त हो तो राज्यप्राप्ति हो जाने बाद राजाका बंधन हो जायगा और व्ययेश दशमेशका शनैश्वरके साथ इत्तसाल दशम घरमें हो तो राज्यप्राप्ति होनेपर राजाका बंधन हो जायगा । शनैश्वर चतुर्थ वा सप्तममें हो तो वह राज्य बहुत थोड़ा मिलेगा किन्तु फिर राजा उस राज्यसे शीघ्रही विनष्ट हो जायगा ऐसा कहे ॥ १० ॥

नृपमंत्रिप्रीतिप्रश्ने विचारः ।

शुभदशा तनुसप्तपमुत्सिले नृपतिमंत्रिहितत्वतनुत्तमम् ॥ ११ ॥

यदि शुभ दृष्टिसे लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल हो तो राजा और मंत्रियों बहुत अच्छा प्रेम है ॥ ११ ॥

राज्यं चरं स्थिरं वेत्ति प्रश्ने विचारः ।

दशपतौ स्वगृहे शुभवीक्षिते सुविधुमुत्सिले यदि वा गुरौ ॥

निजभतुंगचतुष्टयगोऽथवा दशपमुत्सिलेऽत्र पदं स्थिरम् ॥ १ ॥

यदि दशमेन अपने घरमें शुभ ग्रहसे दृष्ट हो अथवा पूर्ण चंद्रमाके साथ इत्तसाळ करना हो अथवा वृद्धस्वपति अपनी राशिके वा उक्के होकर केंद्रमें हो अथवा दशमेके साथ इत्तसाळ करने हों तो राज्य स्थिर रहेगा ॥ १ ॥

भवन्ति तत्परयापरथा यदास्त्रुनि खलमपचंद्रमुसरिफम् ॥

कुचलने ननु राज्यपरिच्युतिर्यदि वपुःपतिनीचपमुत्सिलम् ॥ २ ॥

यदि इस पूर्वोक्त योगसे अन्यथा योग हो तो स्थिर नहीं रहेगा, दूसरे राजाके वशमें हो जायगा । जो चतुर्थ घरमें स्थित दशमेके लग्नेशका चंद्रमाके साथ इत्तसाळ योग हो तो खोटे चक्रनेसे राज्य निकल जायगा । यदि लग्नेशके नीचेका इत्तसाळ चंद्रमाके साथ हो तो भी ॥ २ ॥

कुचलनात्पदहानिरथो खपे पदहतिर्निजनीचपमुत्सिले ॥

यदि नवत्रिगतस्तनु सखिबर्मपतिमुत्सिली नृपतारकः ॥

यदाङ्गेश्वरस्यंकनाथेशरफी भवेत्केद्रगः प्रासुयाद्धृष्टराज्यम् ॥ ३ ॥

कुचलनेसे राज्यकी हानि होगी, अथवा दशमेका अपने नीचेके साथ इत्तसाळ हो तो राज्यकी हानि होगी । यदि लग्नेश नवम तृतीयमें स्थित होकर तृतीयके साथ इत्तसाळ करता हो तो राजाकी वृद्धि होगी । यदि तृतीयके साथ इत्तसाळ योग करता हुआ लग्नेश केंद्रमें हो तो राजाको अष्ट (गये हुए) राज्यकी प्राप्ति होगी ॥ ३ ॥

मम राजदर्शनं भविष्यति न चेति प्रश्ने विचारः ।

लग्नेशेन दिवाकरेण यदि वा खेशेत्तसालं तदा ।

भूयान्द्रूपतिदर्शनं सवहुमानं लग्नेशभेशयोः ॥

अन्योन्यं हितदृक् तथा मुत्सिलं वाभूपतोऽर्थागमो ।

वैरालोकनतश्चिरेण यदि केंद्रेऽगायपेन्द्रवम् ॥ १ ॥

लग्नेश वा सूर्यके साथ दशमेका इत्तसाळ हो तो राजदर्शन बहुमानके साथ होगा और जो लग्नेश लग्नेशकी परस्पर मित्रदृष्टि हो अथवा दोनोंका इत्तसाळ हो तो राजासे अर्थका लाभ होगा, यदि दोनोंकी परस्पर वैरिदृष्टि हो तो बहुत कालमें राजदर्शन होगा और जो केंद्रस्थित लग्नेशका चंद्रमाके साथ ॥ १ ॥

कंचूलं स्थिरभे चिरान्नरपतेराप्तिश्चरे चंद्रमा ।

वारिकं द्वितनावुपर्शवशतः स्यान्नामरेज्येऽवले ॥

आशाहानिरथान्न सोजसि गुरौ केंद्रे निजोचे नृपा- ।

तपूर्णाशा विपदा स्वभे तु दलिता हद्दे त्वकेंद्रे लघुः ॥ २ ॥

केंद्रल्योग स्थिर राशिपर हो तो राजासे बहुत कालमें लाभ होगा । यदि चंद्रमा चर राशिका हो तो एक बार राजदर्शन होगा । यदि द्विस्वभाव राशिका हो तो समीपकी राशिके वशसे राजदर्शन कहे, यदि बृहस्पति निर्बल हो तो आशाकी हानि, यदि बृहस्पति बलवान् होकर केंद्रमें उचके हों तो राजाके यहांसे आशा पूरी होगी, यदि अपनी राशिके हों तौ चौथाई कम और अपने हद्दमें हो तो आधी और केंद्रवर्जित स्थानमें हो तो बहुत थोड़ी आशा सिद्धि होगी ॥ २ ॥

जयपराजयप्रश्ने विचारः ।

तनुसप्तदशोपगाः शुभाश्रेत्पुरनाथस्य जयाय चेत्कुजार्की ॥

नवमे किल पृच्छकस्य नेष्टौ ज्ञसितेज्या इह तज्जयाय नूनम् ॥१॥

लग्न, सप्तम, दशममें. शुभ ग्रह हों तो पुरके राजाकी जय और जो मंगल, शनैश्वर नवम घरमें हों तो पूछनेवालेकी पराजय और जो नवम घरमें बुध, शुक्र, बृहस्पति हों तो पूछनेवालेके पुरके राजाकी जय होगी ॥ १ ॥

**त्रिसुखसुतरिपुस्त्रीमृत्युगाः सत्वगाश्रेत्पुरनृपतिविजयदाः
शेषगा यातृराज्ञः ॥ विजयकृत उत्तान्ये तु प्रभंगं दिशन्ति
व्ययभवदशपापाश्चापि यातुर्भयाय ॥ २ ॥**

३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ इन स्थानोंमें यदि शुभ ग्रह हों तो पुरके राजाको विजय देते हैं और जो शेष स्थानोंमें हों तो जानेवाले राजाको विजय करते हैं । पाप ग्रह जिसके घरोंमें हो उसका भंग करते हैं । १२ । ११ । १० में पाप ग्रह हों तो जानेवाले राजाको भय होती है ॥ २ ॥

**शुभानृक्षे केंद्रे यदि शुभदृशा सन्धिरथ च वपुर्लग्नेशेशावुदि-
तबलिनौ पौरजयदौ ॥ तनौ नृक्षे सौम्या व्ययभवगताश्चा-
पि नृपयोर्भवेत्संधिः पापैर्द्वितनुभगतैः पूर्णकलहः ॥ ३ ॥**

यदि शुभ ग्रह पुरुषसंज्ञक राशियोंपर केंद्रोंमें स्थित हों और उनको शुभ ग्रहही देखते हों तो दोनोंमें मिलाप हो जाता है अथवा लग्नेश और लग्नेशका स्वामी ग्रह उदय होकर बलवान् हो तो पुरके राजाको विजय देते हैं और जो लग्नमें पुरुषसंज्ञक राशि हो और शुभ ग्रह १२ । ११ भवनमें हों तो दोनों राजाओंका मिलाप हो जाता है और जो पाप ग्रह द्विस्वभाव राशियोंपर हों तो पूरी लड़ाई होती है ॥ ३ ॥

यदा स्त्रीस्त्रीशेशावुदितबलिनौ यापिजयदौ यदा लग्नी-

शोर्मुतसिलमयुद्धं हितदृशा ॥ यदा दृष्ट्या हीनं तनुमदप-
मुत्सर्गिफमलं रणश्रेल्लमेशश्चरमदगृहे वीर्यरहितः ॥ ४ ॥

यदि सप्तमेश और समप्तेशका स्वामी ग्रह उदित और बली हों तो यायी राजाको विजय देते हैं । यदि लग्नेश सप्तमेशका मित्रदृष्टिसे इत्तसाल योग हो तो युद्ध नहीं होता और जो मित्रदृष्टिसे रहित लग्नेश समप्तेशका इत्तसाल हो तो पूर्ण युद्ध हो और यदि लग्नेश चर राशिका होकर सप्तम गृहमें निर्बली हो तो ॥ ४ ॥

पुराधीशो वीर्योद्यमविरहितश्चेत्स्मरपतिश्चरे लग्नं यायी तदु-
गतसुवीर्योद्यमबलः ॥ स्थिरे लग्ने लग्नेद् पुरपतिरलं वीर्यसु-
बलोद्यमी चैवं स्त्रीशो मदन उपरो वीर्यसहितः ॥ ५ ॥

पुरका राजा पराक्रम तथा उद्यमसे रहित जानना और यदि सप्तमेश चर राशिके लग्नमें स्थित हो तो जानेवाला राजा वीर्य उद्यम बलसे रहित जानना और जो लग्नेश स्थिर लग्नमें स्थित हो तो पुरका राजा पूर्णवीर्य, सुन्दर, बल और उद्यमयुक्त जानना । इसी प्रकार सप्तम स्थानमें हो तो जानेवाला राजा वीर्ययुक्त जानना ॥ ५ ॥

कर्मैद् तनौ स्थायिबलं सहायं तुर्येद् स्मरे यायिबलं च तद्भत् ॥
चेदम्बरात् षट्कृद्गृहेषु सौम्यैदुलग्नपाः पौरजयाय नूनम् ॥ ६ ॥

यदि दशमेश लग्नमें हो तो स्थायी राजाकी सेना सहाय करनेवाली और जो चतु-
र्थेश सप्तममें हो तो यायी राजाकी सेना सहाय करनेवाली है । यदि दशम स्थानसे लेकर छः घरोंमें शुभ ग्रह, चंद्रमा और लग्नेश हों तो पुरके राजाकी जय ॥ ६ ॥

चेच्छेषषट्के विधुसप्तमेशसौम्यास्तदा यायिएतेर्जयाय ॥

भौमेन्दुमन्दार्कतमस्सु लग्ने त्रिभिश्चतुर्भिर्यदि वा प्रयायी ॥ ७ ॥

और जो शेष छः घरोंमें चंद्रमा, सप्तमेश, शुभ ग्रह हों तो यायी राजाकी विजय निश्चय होती है और यदि मंगल, चंद्रमा, शनि, सूर्य, राहु ये सब अथवा इनमेंसे तीन वा चार ग्रह लग्नमें हो तो यायी राजा ॥ ७ ॥

पौरं द्रुतं हन्ति मदे च पौरः प्रयायिनं चेद्भृगुजीवसौम्याः ॥

लग्ने बलाढ्या यदि वेज्यशुकौ लग्ने पुरेड् यायिबलं निहन्ति ॥ ८ ॥

पुरस्थायीको मार देता है और जो ये पूर्वोक्त ग्रह सातवें घरमें हों तो पुरस्थायी राजा प्रायीको मार देता है । यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध ये तीनों अथवा बृहस्पति शुक्र दोनों बलवान् होकर लग्नमें बैठे हों तो पुरस्थायी राजा यायी राजाकी सेनाको मार देता है ॥ ८ ॥

सौम्येन्दुशुक्रामरपूजितानां सर्वैस्त्रिभिर्वा स्मरगैर्बलाढ्यैः ॥

यायी द्रुतं स्थायिनमेव हन्यात्सुखांबरस्थैश्च शुभैर्हि संधिः ॥ ९ ॥

बुध, चंद्र, शुक्र, वृहस्पति ये सब अथवा इनमेंसे तीन ग्रह बलवान् होकर सातवें घरमें बैठे हों तो यायी राजा स्थायीको शीघ्रही मार देता है और जो चौथे दशवें घरमें शुभ ग्रह हो तो दोनोंमें मिलाप हो जाता है ॥ ९ ॥

तनौ च केत्वर्ककुजैः स्मरेऽग्रेण्मंदेदुभिर्वात्र विपर्ययस्थैः ॥

सद्भिः प्रवीर्यैरुभयोः प्रणाशो यदा तनौ चंद्रकुजेत्तसालः ॥ १० ॥

लग्नमें केतु, सूर्य, मंगल और सातवें घरमें लग्नेश, शनैश्चर, चंद्रमा अथवा विपर्ययस्थ हों अर्थात् लग्नमें लग्नेश, शनि, चंद्र और सातवें घरमें केतु, सूर्य, मंगल हों और शुभ ग्रह बलवान् हों तो दोनोंका नाश हो और यदि लग्नमें चंद्रमा, मंगलका इत्तसाल हो तो ॥ १० ॥

पौरस्य बंधो निधनं रणे वा स्मरेऽत्र योगे किल यायिसृत्युः ॥

तदा तनौ रात्रिपती रविर्वा खलेत्तसाली दृढसंगराय ॥ ११ ॥

युद्धमें पुरस्थायी राजाका बंधन वा मरण हो और जो सातवें घरमें यह योग हो तो यायी राजाकी मृत्यु हो । यदि लग्नमें चंद्रमा वा सूर्यका पाप ग्रहके साथ इत्तसाल योग हो तो बड़ा प्रबल युद्ध हो ॥ ११ ॥

वक्रे बलोने प्रबले त्ववक्रे केंद्रे शनौ दैत्यसुते रणश्च ॥

स्वर्क्षे स्वतुंगे च धरासुताकौ चंद्रोऽपि खे यावदहो रणः स्यात् १२

और वक्री ग्रह निर्बली और अवक्री ग्रह बलवान् हो केंद्रमें शनि शुक्र हों तोभी युद्ध हो । यदि अपनी राशिके वा उच्चके मंगल सूर्य हों और चंद्रमा दशवें हो तो जबतक दिन रहे तबतक युद्ध हो ॥ १२ ॥

केंद्रे स्थिरे भूमिसुते रणोऽल्पो द्युचंगे चरेऽतीव लघुः प्रदिष्टः ॥

दिवाकरोपग्रहमुत्तसीलं स्यात्सैनिकानां मरणं च संधिः ॥ १३ ॥

केंद्रमें स्थिर राशिका मंगल हो तो अल्प युद्ध हो और सूर्यका उपग्रह केतु, राहुके साथ इत्तसाल हो तो योद्धाओंका मरण होनेके बाद मिलाप हो जावे ॥ १३ ॥

लग्ने स्थिरे स्वोच्चभगैर्बलिष्ठैः सद्भिर्विपापैश्च शुभे विलम्बे ॥

शुभेत्तसाले हिमगौ रणश्चेदवाप्तिकोशौ शुभदृष्टयुक्तौ ॥ १४ ॥

लग्नं स्थिर हो तथा शुभ ग्रह अपनी उच्च राशिके होकर बलवान् हों, पाप

ग्रहोंसे रहित हों, शुभ ग्रह लग्नमें हों, चंद्रमाका शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल हो तो युद्ध होवे । यदि ग्यारहवां, दूसरा घर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो ॥ १४ ॥

पौरस्य सेनोपचयश्च रन्ध्रे युते शुभैर्दृष्टयुते च यातुः ॥

लग्नस्वकर्मायगतैश्च सौम्यैः पौरस्य नूनं प्रबलः सहायी ॥ १५ ॥

पुरके राजाकी सेनाका बल बढ़ता है और आठवां, पांचवां घर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो यायी राजाकी सेनाका बल बढ़ता है । लग्न, द्वितीय, दशम, एकादश घरोंमें शुभ ग्रह हों तो पुरस्थायी राजाका सहायक बलवान् होता है ॥ १५ ॥

तनुपे मृतौ मृतिपमुत्तसिले नगराधिपस्य च धने स्मरपे ॥

धनपेत्तसालिनि परस्य मृतिस्तनुषोऽत्यगश्चरगृहे प्रबलः ॥ १६ ॥

लग्नेश आठवें स्थित होकर अष्टमेशके साथ इत्तसाल करता हो तो नगरके राजाकी मृत्यु हो और जो सप्तमेश दूसरे घरमें स्थित होकर धनेशके साथ इत्तसाल करता हो तो यायी राजाकी मृत्यु हो और नगेश बलवान् होकर बारहवें घरमें चरराशिगत हो तो ॥ १६ ॥

पुरपो विनश्यति विजित्य पुरा स्मरपो यदैवमितरः क्षयति ॥

तनुनाथसप्तमपमध्यगतः प्रबलः खगश्च निजवर्गनरात् ॥ १७ ॥

पुरका राजा मृत्युको प्राप्त होता है और यदि सप्तमेश बलवान् होकर बारहवें घरमें चरराशिगत हो तो यायी राजा पुरको जीतकर मृत्युको प्राप्त होता है । लग्नेश और सप्तमेशके मध्यमें जो कोई बलवान् ग्रह हो तो वह अपने वर्गके पुरुषद्वारा ॥ १७ ॥

नृपयोश्च संधिकृदिनो नृपतेर्विधुरत्र कंचुकिन इन्दुभवः ॥

बुधलेखतोऽप्यवनिज्यो नृपतो भृगुजः स्त्रियाः प्रवरतश्च गुहः १८

दोनों राजाओंमें संधि करा देता है अर्थात् जो सूर्य मध्यमें हो तो राजासे, चंद्रमा हो तो कंचुकी (अन्तःपुरपाल) से, बुध हो तो पंडित चतुर पुरुषके लेखसे, मंगल हो तो राजासे, शुक्र हो तो स्त्रीसे, राहु हो तो प्रवरसे ॥ १८ ॥

जरिस्त्रियाः शानिरथांगपतिर्वपुषि स्मरेशकृतमुत्तसिलः ॥

तद्दु यायिराद् भवति संधिकरो मदनेऽपि वा खसुखयोस्त्वपरः १९

शानि हो तो वृद्ध स्त्रीसे सन्धिप्रबन्ध हो । यदि लग्नमें स्थित होकर सप्तमेशके साथ इत्तसाल करता हो तो यायी राजा संधि कर लेता है । यदि लग्नेश

सातवें, दशवें, चौथे घरमें स्थित होकर सप्तमेशके साथ इत्तसाल करता हो तो स्थायी राजा संधि कर लेता है ॥ १९ ॥

समता द्वयोरिह खले मदने सबलैऽत्यगे च पुरपो हि धनम् ॥

अपराय यच्छति विलोममतः किल यायिपः पुरमवाप्य पुनः ॥२०॥

यदि सातवें घरमें पाप ग्रह हो तो दोनों राजाओंमें समता हो जाती है । यदि बलवान् पाप ग्रह बारहवें घरमें हो तो पुरका राजा यायीको धन देता है और इससे विलोम हो अर्थात् छठे घरमें बलवान् पाप ग्रह हो तो यायी राजा पुरमें पुहुँचकरा ॥२०॥

प्रददाति नागरनृपाय खगः प्रबलोऽत्र यस्य फलदो न परः ॥

व्ययगोऽगपे पुरपतिर्मदपेऽरिगते परश्च हि पलायनकृत् ॥ २१ ॥

नगरके राजाको धन देता है । उक्त स्थानमें जिसका जो ग्रह बलवान् हो वहही ग्रह फलदायक होता है और अन्य नहीं । लग्नेश बारहवें हो तो पुरका राजा और सप्तमेश छठे हो तो यायी राजा भाग जाता है ॥ २१ ॥

अथ चारप्रश्ने विचारः

सूर्येत्तसाले विधुजे सुगुप्ताश्चाराः स्मृता भूमिसुतेशराफात् ॥

ग्रहाः शशांकेन खलेन युक्तास्तदान्यवेषाः प्रचरन्ति चाराः ॥ १ ॥

चंद्रमाका सूर्यके साथ इत्तसाल हो तो चारपुरुष (सुखविर) छिपे हुए हैं और चंद्रमाका मंगलके साथ इशराफ योग हो और ग्रह चंद्रमा पाप ग्रहोंसे युक्त हों तो चारपुरुष अन्यके वेषमें विचरते हैं ऐसा कहे ॥ १ ॥

दिग्विजयप्रश्ने विचारः ।

सिते तनौ सुते गुरौ सुखे बुधे त्रये रवौ ॥

परैः खगैर्भवे नृपो विजित्य चैत्यरीन् द्रुतम् ॥ २ ॥

लग्नमें शुक्र, पांचवें बृहस्पति, चौथे बुध, तीसरे सूर्य, शेष ग्रह ग्यारहवें हों तो राजा शीघ्रही वैरियोंको जीतकर स्थानपर आ जाता है ॥ २ ॥

तनौ कुजार्की च गुरुस्तनूजे लाभेऽथ खे वित्सितयो रविः खे ॥

प्रष्टुर्जयः संगरतोऽत्र योगे सितेऽष्टमे द्राग्वशमेति शत्रुः ॥ ३ ॥

लग्नमे मंगल, शनि, पांचवें बृहस्पति, ग्यारहवें बुध, दशवें शुक्र वा सूर्य हो तो पूँछ-नेवालेकी युद्ध करनेसे विजय होती है । इसी योगमें जो शुक्र आठवें हो तो शत्रु शीघ्रही वशमें आ जाता है ॥ ३ ॥

शशिनि कर्मणि लग्नगते गुरौ रिपुगते तरणौ जयलब्धयः ॥

उदायिवैरिगुरौ भृगुजेऽष्टमे शशिनि वा तरणौ जयलब्धयः ॥१॥

चंद्रमा दशवें, बृहस्पति लग्नमें, सूर्य छटे होवे तो जयप्राप्ति होती है । देवताओंके वैरियोंके गुरु शुक्र वा चंद्रमा, सूर्य आठवें हों तो जयप्राप्ति होती है ॥ ४ ॥

रवौ भवेऽम्बरे कुजे त्रये शनौ विधौ रिपौ ॥

तनौ परेषु पृच्छको जयार्थलाभवान् भवेत् ॥ ५ ॥

सूर्य ग्यारहवें, मंगल दशवें, शनि तीसरे, चंद्रमा छटे, शेष ग्रह लग्नमें हो तो पूछनेवालेको जय तथा द्रव्यका लाभ होता है ॥ ५ ॥

आराकौ प्रबलिगुहो भवे सितज्ञौ लग्ने श्रीजयसुखालावाँस्तदा
स्यात् ॥ शुक्रेऽस्ते शशिनि मृतौ च केंद्रभागे तुर्येशे भवति
जयर्द्धिसिद्धिलाभः ॥ ६ ॥

मंगल, सूर्य और बलवान् राहु ग्यारहवें, शुक्र बुध लग्नमें हों तो पूछनेवालेको लक्ष्मी, जय, सुखका लाभ होता है । शुक्र सातवें, चंद्रमा आठवें, चतुर्थेश केंद्रमें हो तो जय और ऋद्धि सिद्धिका लाभ होता है ॥ ६ ॥

वपुषीज्यशुक्रविधुजैस्त्रितये शशिभौमभानुभिरलं विजयः ॥

तनुगे गुरौ दशमगे तरणौ मदने विधौ भुवि बुधेऽर्थजयौ ॥ ७ ॥

लग्नमें बृहस्पति, बुध, शुक्र और तीसरे चंद्रमा, मंगल, सूर्य हों तो पूर्ण विजय होती है । लग्नमें बृहस्पति, दशवें सूर्य, सातवें चंद्र, चौथे बुध हो तो अर्थ और जयका लाभ होता है ॥ ७ ॥

पापैर्भवांबरगतैर्वपुषीज्यशुक्रौ युद्धे जयाय यदि जीवसितौ
विलग्नौ ॥ सूर्ये चरे रिपुग्रहे बलिनोः कुजाक्योंर्विच्छुक्रयो-
र्व्ययगृहे विजयाप्तिलाभः ॥ ८ ॥

पाप ग्रह ग्यारहवें दशवें, बृहस्पति, शुक्र लग्नमें हों तो युद्धमें विजय होती है । यदि बृहस्पति, शुक्र लग्नमें, सूर्य चर राशिके हों, छठे घरमें बली होकर मंगल शनैश्वर, बारहवें बुध शुक्र हों तो विजय और द्रव्यका लाभ हो ॥ ८ ॥

तनौ गुरौ भास्वति लाभसंस्थे मंदे तृतीये च कुजे रिपुस्थे ॥

चंद्रे सुखस्थे दशमे भृगौ च बुधेऽपि खे प्रष्टुरलं जयः स्यात् ॥ ९ ॥

लग्नमें बृहस्पति, ग्यारहवें सूर्य, तीसरे शनि, छठे मंगल, चौथे चंद्रमा, दशवें शुक्र तथा बुध हों तो पूछनेवालेकी परिपूर्ण जय होती है ॥ ९ ॥

जीवे तनौ स्मरविधौ बुधशुक्रतः खे तुर्येऽथवा त्र्यरिभवेषु ख-
लेषु तद्वत् ॥ खे शीतगौ भृगुविदोः सुखपुत्रयोः खे तुर्येऽथवा
त्र्यरिभवेषु खलैर्जयः स्यात् ॥ १० ॥

बृहस्पति लग्नमें, चंद्रमा सातवें अथवा बुध शुक्रसे दशवें वा चौथे हों तथा ३।६।
११ वें पाप ग्रह हों तोभी पूर्ण जय होती है । चन्द्रमा दशवें, शुक्र बुध चौथे, पांचवें
अथवा दशवें, चौथे हों और पाप ग्रह ३।६।११ में हों तो विजय होती है ॥ १० ॥

खे शीतगौ भृगुविदोः सुखपुत्रयोः षष्ठेऽर्के गुरौ वपुषि चारिभवे
कुजाक्योः ॥ प्रष्टुर्जयो यदि गुहः प्रथमे शनिः खेऽर्कारौ सुखे
बुधसितौ विजयस्वराज्यम् ॥ लग्ने सितेऽम्बुनि बुधो मदने सुरे-
ज्ये भौमे भवे त्रयशनौ जयवाहराज्यम् ॥ ११ ॥

चन्द्रमा दशवें, शुक्र बुध चौथे पांचवें, सूर्य छठे, बृहस्पति लग्नमें, मंगल शनि
छठे ग्यारहवें हों तो पूछनेवालेकी जय होती है । यदि राहु शनि लग्नमें, सूर्य मंगल
दशवें, बुध शुक्र चौथे हों तो विजय, धन, राज्यकी प्राप्ति होती है । लग्नमें शुक्र,
चौथे बुध, सातवें बृहस्पति, ग्यारहवें मंगल, तीसरे शनि हो तो जय, वाहन और
राज्यका लाभ होता है ॥ ११ ॥

गुहो लग्ने स्वोच्चेऽतिरिपुगतयोर्मदकुजयोः स्वतुंगेऽर्के लाभे बुध-
सिधुसितैः खे पतिजयः ॥ वपुर्नाथेन्दू शेच्छुभमुतसिले वित्त-
सुखदौ प्रयातुर्वैलोम्यादतिभयकरौ तौ ह्यरिकुलात् ॥ १२ ॥

उच्च । १२ । लग्नमें, शनि मंगल अतिशक्त घरमें उच्चे तुर्ये ग्यारहवें बुध चंद्र
शुक्र दशवें हों तो राजाका विजय होता है भौमे लग्नमें चंद्रमा शुभ ग्रहका इत्तमालमें
हों तो जनवले राजाका धन और सुख देते हैं और विलोम होनेमें अर्थात् लग्नमें
चंद्रमाका पाप ग्रहके साथ इत्तमाल हो तो शत्रुकुलसे अतिभय पहुँचता है ॥ १२ ॥

व्यधिकृति कुजे धनस्थे नृपपृष्ठबलस्य कष्टमत्र भवेत् ॥

वादानिलतो भीतिः सोरे चोरान्बुतोऽर्केऽग्निरणात् ॥ १३ ॥

अधिकारहीन मंगल दूसरे घरमें हो तो राजाका पृष्ठरक्षक सेनाको कष्ट होता है

और दूसरे शनि हो तो विवाद और पवनसे, सूर्य हो तो अग्नि और युद्धसे भय होता है ॥ १३ ॥

अधिकृतकुजे च कोशे नरमृत्युभयं धनेशनीचेऽस्ते ॥

यानं विफलं भंगं यदि कुलचंद्रार्कयोऽगधर्मसुते ॥ १४ ॥

यदि अधिकारयुक्त मंगल दूसरे हो तो मनुष्योंको मृत्युका भय हो और जो धनेश नीच वा अस्तका हो तो राजाका जाना निष्फल तथा भंग होता है । यदि मंगल चंद्र शनि लग्न, पंचम, नवममें हों तो ॥ १४ ॥

प्रष्टुर्भगाय यदांगे मंदेन्दू कुजे क्षितौ मृत्युः ॥

यदि मंदारौ मृत्यौ सूर्यो लग्ने तदा रणे मृत्युः ॥ १५ ॥

पूछनेवालेका भंग करते हैं । यदि लग्नमें शनि और चंद्र मंगलसे दृष्ट हों तो मृत्यु हो यदि शनि मंगल आठवें सूर्य लग्नमें हो तो युद्धमें मृत्यु हो ॥ १५ ॥

अत्र व्ययमृत्युस्थे चंद्रे सूर्यान्विते रणे मृत्युः ॥

विधुबुधभौमा मदने यातुः पृष्ठरणे नाशः ॥ १६ ॥

और इसी योगमें वारहवें आठवें, चंद्रमा सूर्य हों तो युद्धमें मृत्यु हो और चंद्र बुध मंगल सातवें हों तो जानेवाले राजाका पीछे युद्धमें नाश हो ॥ १६ ॥

यदारशुकौ वपुषोऽरिवृद्धिः क्षुधाभयं चेत्तनुचंद्रजीवौ ॥

मंदेक्षितौ स्यात्समरे प्रभंगो यदा खलाः पंचमलग्नसंस्थाः ॥ १७ ॥

यदि मंगल शुक्र लग्नमें हों तो शत्रुओंकी वृद्धि और क्षुधासे भय हो और यदि लग्नमें चंद्रमा बृहस्पति, शनैश्वरसे दृष्ट हों तो युद्धमें प्रभंग हों । यदि पाप ग्रह पाचवें लग्नमें स्थित हों तो ॥ १७ ॥

प्रष्टु रणे पुत्रमृतिर्यदास्ते मृत्यौ रविः शीतकरस्तनौ वा ॥

रिपोर्भयात्रासवधोग्रबंधा यदा खला द्वित्रिचतुष्टयस्थाः ॥ १८ ॥

युद्धमें पूछनेवालेके पुत्रकी मृत्यु हो, यदि सूर्य चंद्रमा, मंगल सातवें, आठवें वा लग्नमें हों तो शत्रुकी भयसे त्रास, वध, उग्र बंधन हो । यदि पाप ग्रह दूसरे, तीसरे केंद्रमें ॥ १८ ॥

सौम्या विवीर्या हिमगुर्मृतिस्थो रणे प्रयातुर्वधबंधभीतिः ॥

सद्भिर्बलिष्ठैः सुतधर्मकेंद्रेऽनिष्टेऽपि योगे समवत्फलं स्यात् ॥ १९ ॥

और शुभ ग्रह वीर्यहीन हों, चंद्रमा आठवें हो तो जानेवालेको वध वा बंधनकी भय हो । शुभ ग्रह बलवान् होकर । ५ । ९ । १ । ४ । ७ । १० में बैठे हों तो अनिष्ट योग होनेपरभी समवत्फल अर्थात् न बहुत अच्छा फल होता है ॥ १९ ॥

शीतांशौ मदगे रवौ तनुगते मंदारयोरष्टमे ।

सौम्ये भ्रातरि मंत्रिणा सह गृहीत्वा हन्यते भूपतिः ॥

सौम्याकौ तनुगौ स्मरे कुजविधू भंगः स्वदेशे यदा ।

धूने मंदकुजौ तनौ रविविधू युद्धे प्रभंगस्तथा ॥ २० ॥

चंद्रमा सातवें, सूर्य लग्नमें, शनि मंगल आठवें, शुभ ग्रह तीसरे हो तो राजा मंत्री-समेत पकडकर मारा जाता है । शुभ ग्रह और सूर्य लग्नमें, मंगल चंद्रमा सातवें हों तो अपने देशमें भंग हो । यदि सातवें शनि मंगल, लग्नमें सूर्य चंद्रमा हों तोभी युद्धमें भंग हो ॥ २० ॥

अर्कावर्यारैः स्मरायात्मजनवमगतैर्लग्ने शीतभानौ ।

प्रष्टा शत्रुं निहन्यात्सचिवपुरयुतं चेद् ब्रह्मशुक्रौ रिपुस्थौ ॥

भानुर्भृत्यौ कुजेन्दू वपुषि ससचिवार्थृक्षयोगेऽर्कमंदौ ।

भौमेक्षाप्तौ त्वशैषैर्बलिभिरिह शुभैर्वाहिनीनाथनाशः ॥ २१ ॥

सूर्य, शनि, मंगल ७ । ११ । ५ । ९ में हों, चंद्रमा लग्नमें हो तो पूछनेवाला शत्रुको पुर और मंत्रीसमेत मार देता है । यदि बुध शुक्र छठे, सूर्य आठवें, मंगल चंद्रमा लग्नमें, सूर्य शनि मंत्रीसहित शत्रुकी राशिपर मंगलकी दृष्टिसे युक्त हों और सब शुभ ग्रह बलवान् हों तो सेनापतिका नाश हो ॥ २१ ॥

यायिनां शुभाशुभप्रश्ने विचारः ।

चरोदये शुभाः शुभाय यायिना परत्र नो ॥

स्थिरोदयेऽपि वा शुभं निजेशदृष्टियोगतः ॥ १ ॥

चर लग्नमें शुभ ग्रह हों तो जानेवालेको शुभके लिये अन्यथा अशुभके लिये होते हैं और जो स्थिर लग्नमें निजेशसे दृष्ट हों तोभी शुभ फल होता है ॥ १ ॥

यातुर्निवृत्तिप्रश्ने विचारः ।

सर्वाधिबलः स्वेष्टो यन्मितपदगो भवेत्समायातः ॥

तन्मितमासैर्यातुर्विनिवृत्तिश्चात्र चरभागे ॥ १ ॥

सबसे अधिक बली ग्रह जौनसे घरमें हो उतनेही महीनामें जानेवाला आवेगा

अथवा बलवान् ग्रह चर राशिके नवांशकमें हो तो पूर्वोक्त महीनोंमेंही ॥ १ ॥

स्थिरभागे विनिवृत्तिः सा द्विगुणा द्व्यंगभागगे त्रिगुणा ॥

यदि वा स्मरपतिवक्रे पुनरावृत्तिः प्रयातुरुद्दिष्टा ॥ २ ॥

यदि स्थिर राशिके नवांशकमें हो तो उससे दूने और द्विस्वभाव राशिके नवांशकमें हो तो पूर्वोक्त माससंख्याके तिगुने महीनोंमें आवेगा अथवा जब कभी सप्तमेश वक्री होगा उसी समय जानेवालेका लौटना होगा ॥ २ ॥

शत्रोरागमने श्रुते आगमनं भविष्यति न वेति प्रश्ने विचारः ।

इन्दुःस्थिरे चेच्च तनौ चरोदयोऽर्यनागमस्य श्रवणेऽपि चागमः ॥

चरे विधुः स्याच्च तनौ स्थिरोदयो द्विषागमस्य श्रवणेऽपि नागमः १

यदि चंद्रमा स्थिर राशिका हो और लग्नमें चर राशिका उदय हो तो शत्रुका अनागमनभी सुना हो तथापि आवेगा और यदि चंद्रमा चर राशिका तथा लग्नमें स्थिर राशि हो तो शत्रुका आगमनभी सुना गया हो परन्तु नहीं आवेगा ॥ १ ॥

भानुभानुजसितेन्दुभुवां चेदंगगश्चरगृहे खचरेन्द्रः ॥

आगमं रिपुनृपस्य विदध्यादक्रतोऽत्र न कदापि विदध्यात् ॥ २ ॥

सूर्य, शनि, शुक्र, बुध इनमेंसे कोई एक ग्रह चर राशिका हो तो शत्रु राजाका आगमन करता है, यदि वह ग्रह वक्री हो तो कदापि आगमन नहीं करता ॥ २ ॥

स्थिरे तनौ जीवशनीक्षिते गमागमौ न योगेऽत्र त्रिपंचषष्ठगाः ॥

खलारिपोः संगमदा इहैव चेच्चतुर्थगा वैरिपतेर्निवृत्तये ॥ ३ ॥

स्थिर लग्न वृहस्पति शनिसे दृष्ट हो तो जाना आना नहीं होगा और इसी योगमें तीसरे पांचवें छठे पाप ग्रह हों तो शत्रुका संगम करते हैं, तथा इसी योगमें चौथे पाप ग्रह हों तो शत्रु राजाकी निवृत्ति करते अर्थात् लौटकर चञ्च जाता है ॥ ३ ॥

चेद्भानुचंद्रौ हिबुकेन चागमो रिपोः सुखास्ते च गुरुज्ञभः वाः ॥

द्विडंति तूर्णं यदि भानुशीतगू द्विषोऽबुगौ जीवसितौ तदेत्यरिः ४

यदि सूर्य चंद्रमा चौथे हों तो शत्रुका आगमन नहीं आता और वृहस्पति, बुध, शुक्र, चौथे सातवें हों तो शत्रु शीघ्रही आवेगा । यदि सूर्य चंद्रमा छठे, वृहस्पति शुक्र चौथे हों तो शत्रु आवेगा ॥ ४ ॥

हिमगुर्दितनौ स्थिरं वपुश्चेदपि दूरागमितो निवर्ततेऽरिः ॥

वपुषि द्दितनुर्विधुश्चरे चेन्नियतं चार्द्धयो निवर्ततेऽरिः ॥ ५ ॥

यदि चंद्रमा द्विस्वभाव राशिका और स्थिर लग्न हो तो बहुत दूर आया हुआभी शत्रु लौट जावेगा और लग्नमें द्विस्वभाव राशि तथा चर राशिस्थ चंद्रमा हो तो शत्रु आधे मार्गतक आकर लौट जावेगा ॥ ५ ॥

द्वितनौ हिमकृच्चरं च लग्नं बलयुग्मेन तदेति वैरिभूपः ॥

जयतीह यदा खलेक्षणं स्यात् प्रतिभूपस्यबलात्तिरस्कृतिःस्यात् ६

द्विस्वभाव राशिका चंद्रमा और लग्न चर हो तो शत्रु राजा दो सेना लेकर आवेगा और जीतेगा । यदि लग्न चंद्रमाकी पाप ग्रह देखते हैं तोभी शत्रु राजाकी सेनामें अपनी पराजय होगी ॥ ६ ॥

मेषवृषसिंहेधनुषामेकतमेंजो चतुर्थे वा ॥

तत्काले विनिवृत्तिर्यदि चरलग्ने रविश्च जीवो वा ॥ ७ ॥

मेष, वृष, सिंह, धनु इनमेंसे कोई एक राशि लग्नमें वा चौथे हो तो उसी समय शत्रु लौट जायगा । यदि चर लग्नमें सूर्य वा बृहस्पति हो तो शत्रु आवेगा ॥ ७ ॥

शत्रोरागमनं चेत्स्थिरलग्ने भास्करिर्गुर्वाऽपि ॥

नागमनं यदि तनुभाञ्चंदोर्दुर्यन्मितैर्दिनेर्भवति ॥ ८ ॥

यदि स्थिर लग्नमें सूर्य वा बृहस्पति हो तो शत्रुका आगमन नहीं होगा । यदि लग्नकी राशिसे चंद्रमाकी राशि जितनी संख्यापर हो तो उतनेही दिनोंमें शत्रुका आगमन होगा ॥ ८ ॥

आगमनं स्याच्छत्रोर्यदि नहि मध्ये ग्रहः कश्चित् ॥

द्वितये यदि वा त्रितये जीवसितौ चेत्परागमो नूनम् ॥ ९ ॥

परन्तु लग्न चंद्रमाकी राशिके मध्यमें कोई ग्रह न होवे तो और जो होगा तो आवेगा । दूसरे वा तीसरे बृहस्पति शुक्र हों तो शत्रुका आगमन निश्चयही होगा ॥ ९ ॥

सुते रिपौ वा यदि पापिनोऽध्वतो रिपोर्निवृत्त्यै यदि तूर्यगाःखलाः ॥

पुरोपकण्ठोपगतोऽपि पीडितो निवर्तते चेत्सुतषष्ठयोः खलाः ॥

पलायनायारिपतेर्यदा ज्ञषालिकुम्भकर्का भुवि वैरिधर्षणा ॥ १० ॥

यदि पांचवें वा छठे पाप ग्रह हों तो शत्रु मार्गसे लौट जायगा और जो चौथे पाप ग्रह हों तो पुरके समीप आया हुआभी पीडित होकर लौट जायगा । यदि पांचवें छठे पाप ग्रह हों तो शत्रु राजा भाग जायगा और यदि मीन, वृश्चिक, कुम्भ, कर्क चौथे हों तो शत्रुकी भय होगी ॥ १० ॥

अथ संघट्टचक्रम् ।

क्रियादिभिर्द्वादशभिस्त्रिकोणं संघट्टचक्रं विलिखेत्सखेटम् ॥

तिर्यक्तथा सन्मुखवक्रवेधो मीनाजयोर्वृश्चिकमेषयोश्च ॥ १ ॥

मेषादि बारह राशियुक्त त्रिकोणसंघट्टचक्र लिखकर जो ग्रह जिस राशिपर हो उसको उसीपर धरे, तब तिरछा और सामनेका वक्र वेध कहाता है, जैसे मीन और मेषका, वृश्चिक और मेषका इसी प्रकार अन्य राशियोंकाभी चक्रमें समझ लेना चाहिये और इसी प्रकार नक्षत्रसंघट्टचक्रभी विचारा जाता है जिसको आगे लिखेंगे ॥१॥

एवं परत्रापि नृपोद्भवर्क्षं चेत्पापविद्धं समरस्तदोग्रः ॥

अतोऽन्यथा सन्धिरथो यदृक्षं क्रूरैः प्रविद्धं सरणाभिलाषी ॥२॥

यदि राजाकी जन्मराशि वा जन्मका नक्षत्र पाप ग्रहोंसे विद्ध हो तो उग्र युद्ध हो और जो उससे अन्यथा हो अर्थात् शुभ ग्रहोंसे विद्ध हो तो संधि हो जावे और जिसकी राशि वा नक्षत्र क्रूर ग्रहोंसे प्रविद्ध हो तो वही युद्धाभिलाषी है ॥ २ ॥

सौम्यैश्च सन्धीच्छुरयो विमिश्रैर्वक्रातिचारस्तगतैर्न युद्धम् ॥

वाल्पं भवेदेकतमेऽपि विद्धे यदा जनुर्भेऽर्ककुजा हि मंदाः ॥३॥

जो शुभ ग्रहोंसे वेधित हों तो संधि चाहता है और यदि वक्र, अतिचार, अस्तगत, पाप शुभ ग्रह दोनोंसे वेधित हों तो युद्ध नहीं होगा । यदि एक राजाकी जन्मराशि वा नक्षत्र पाप ग्रहोंसे विद्ध हो और दूसरे राजाका न हो तो थोडा युद्ध होगा । यदि जन्मकी राशि वा नक्षत्रपर सूर्य, मंगल, केतु, शनैश्चर हों तो युद्ध देते हैं ॥ ३ ॥

युद्धप्रदाश्चेद्भृगुचंद्रांद्रिजावास्तु सन्धिर्यदि जन्मराशौ ॥

स्वतुंगभर्क्षे सकला यदा स्त्रीमानार्थसौख्याय यदा च सर्वे ॥४॥


यदि शुक्र, चंद्र बुध, बृहस्पति जन्मकी राशिपर हों तो संधि हो जाती है । यदि समस्त ग्रह अपनी उच्च राशिके हों तो स्त्री, सन्मान, अर्थ, सौख्यादिकी प्राप्ति होती है और यदि सब ग्रह ॥ ४ ॥

नीचारिभस्थाः श्वपचारिभीतिक्लेशप्रदाश्चेज्जननेन्दुराशेः ॥


द्रेकाणभागे ह्यशुभेः प्रविद्धे युद्धं शुभैर्व्योमचरैश्च संधिः ॥५॥

नीच वा शत्रुराशिके हों तो श्वपच और शत्रुकी तर्फसे क्लेश और भय देते हैं । यदि जन्म चंद्रराशिका द्रेकाणभाग अशुभ ग्रहोंसे प्रविद्ध हो तो युद्ध और जो शुभ ग्रहोंसे प्रविद्ध हो तो सन्धि हो जाती है ॥ ५ ॥

अथ राशिसंघट्टचक्रम्



अथ नक्षत्रसंघट्टचक्रम्



जनुर्लभं यस्य प्रबलनिजभोच्चस्थपतिना प्रदृष्टं तस्याजौ जय
इह विलोमे तु परथा ॥ जनुर्धिष्णये राहुः खलखचरयुक् पामर-
दृशा स्ययं वा यस्य स्याद्भ्रजति समरे भंगमचिरात् ॥ ६ ॥

जिसकी जन्मलग्न अपनी उच्चराशिस्य स्वामी ग्रहसे दृष्ट हो तो उसी राजाकी युद्धमें जय, यदि ऐसा न हो तो पराजय होती है । जिसकी जन्मराशि वा नक्षत्र-पर राहु पाप ग्रहसे युक्त वा नीच दृष्टिसे दृष्ट हो तो युद्धमें शीघ्रही उसका भंग होता है ॥ ६ ॥

यदाऽभिवृद्ध्या नृपजन्मराशौ दृष्टिः शुभस्यार्थसुखास्पदासिम् ॥
पापस्य च क्लेशभयार्थनाशं ददाति मिश्रा हि फलं विमिश्रम् ॥ ७ ॥

यदि राजाकी जन्मराशिपर शुभ ग्रहकी पूर्ण दृष्टि हो तो द्रव्य, सुख, स्थान आदिकी प्राप्ति और जो पाप ग्रहकी हो तो क्लेश, भय, अर्थनाश और यदि पाप शुभ ग्रह दोनोंकी हो तो मिश्र फल होता है ॥ ७ ॥

प्रविद्धे खलैर्युक्तदृष्टे वृषे मध्यदेशाधिपः पीड्यतेऽन्यागमेन ॥

तदा चौरदुर्भिक्षभूपातिवादानयैः पीड्यते च प्रजानो शुभैर्हि ॥ ८ ॥

यदि वृष राशि पाप ग्रहोंसे सिद्ध वा युक्त वा दृष्ट हो तो मध्यदेशका राजा अन्य राजाके आगमनसे पीडित होता है तथा प्रजाभी चोर, दुर्भिक्ष, राजा, अग्नि, विवाद और अनीतिसे पीडित होती है । यदि शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो यह फल नहीं होता ॥ ८ ॥

यावत्कुरुक्षेत्रकगर्गराज्यं प्रयागभूसंभलमत्र मध्यम् ॥

खलैर्नयुगमे युतविद्धदृष्टे समागधश्चंपकगौडनाथः ॥ ९ ॥

जितना कुरुक्षेत्र, गर्गराज्य, प्रयागकी भूमि तथा संभलका देश उतना मध्य देश कहता है । यदि मिथुन पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो मगध, चंपक गौड इन देशोंके राजा ॥ ९ ॥

निपीड्यतेऽन्यागमतश्च लोकमहर्धरुग्दस्युभिरन्यथा नो ॥

खलैः प्रविद्धेक्षितयुक्तकर्के कर्लिगचक्रांगतिलिगभूपः ॥ १० ॥

अन्य राजाकी चढाईसे, तथा सब प्रजालोगभी महर्ध, रोग, चोर, डाह आदिसे पीडित होते हैं । अन्यथा शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो यह फल नहीं होता । यदि कर्क पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो कर्लिग, चक्रांग, तिलिगदेशके राजा लोग ॥ १० ॥

निपीड्यते कोशलकादिभिर्जनो महर्घरोगैश्च शुभैरतोऽन्यथा ॥

खलैः प्रविद्धेक्षितयुग्मृगाधिपे निषादकर्णाटकविन्ध्यभूपतिः ११

कोशलदेशादिके राजाओंसे तथा प्रजाजन महर्घरोगादिकोंसे पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो यह फल नहीं होता । यदि सिंह पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो निषाद, कर्णाटक, विन्ध्याचल देशके राजालोग ॥ ११ ॥

निपीड्यते रुग्निपुतोऽन्यथाशुभैः खलैश्च विद्धासहितेक्षितावधूः ॥

तदामहर्घारिरुजा निपीड्यते समालवश्चित्रनृपोऽन्यथा शुभैः ॥१२॥

रोग और शत्रु आदिसे पीडित होते हैं और जो शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो उक्त फल नहीं होता । यदि कन्या पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो महर्घ, शत्रु, रोगादिसे मालव और चित्रदेशके राजालोग पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो यह फल नहीं होता ॥ १२ ॥

प्रविद्धे खलैर्युक्तदृष्टे तुलक्षे मरूगुर्जरेद् पुष्करेद् पीड्यते च ॥

अदृष्टैश्च दंतावलैरत्र सौम्यैर्विलोमं खलैर्युक्तविद्धेक्षितेऽलौ ॥१३॥

यदि तुला पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो मारवाड, गुर्जर, पुष्कर देशोंके राजालोग अदृष्ट हाथियोंसे पीडित होते हैं, यदि शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो विलोम समझना चाहिये अर्थात् शुभ फल होता है । यदि वृश्चिक पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो ॥ १३ ॥

महर्घारिरांगैर्वितस्ताख्यसिंधुक्षमाशोभतीद् पीड्यतेऽन्यैर्विलोमम् ॥

प्रविद्धे खलैर्युक्तदृष्टे च चापे खुरासांतुरकेद् महर्घारिरोगैः ॥१४॥

महर्घ, शत्रु, रोगादिसे वितस्ता और सिंधुकी पृथ्वीका राजा तथा गोमती-नदीका ईश्वर पीडित होता है और जो शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्त हो तो विलोम अर्थात् शुभ फल होता है । यदि धनु पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो खुरासान, तुरकिस्तान देशके राजालोग महर्घ, शत्रु, रोगादि ॥ १४ ॥

परैः पीड्यतेऽन्यैः शुभं विद्धदृष्टान्विते पामरैरत्र नक्रेऽरिभूपात् ॥

सकाश्मीरजालंधरेद् मध्यपालस्तथा पीड्यतेऽन्यैश्चसौख्यार्थलाभः १५

तथा अन्य राजाओंसे पीडित होते हैं । शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो शुभ फल होता है । यदि मकर पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो शत्रु राजासे काश्मीर, जालंधर, मध्यदेशके राजालोग पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो सौख्य अर्थका लाभ होता है ॥-१५ ॥

कुंभे खलैर्विद्धयुतैःक्षिते स्यात्कुलूत्तकेदारखसोत्तरेशाम् ॥

अशतिरागैस्तपनं हि सौम्यैः सुखार्थवृद्धिश्च खलैः प्रविद्धे ॥१६॥

यदि कुंभ पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो कुलूत्त, केदार, खस, उत्तर देशोंके राजा लोगोंको शत्रुओं तथा रोगोंसे ताप पहुंचता है, शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो सुख और अर्थकी वृद्धि होती है ॥ १६ ॥

मीने च दृष्टे सहिते हिमाद्रिर्निर्णीड्यतेऽन्यैश्च समृद्धिमेति ॥

भेषे खलैर्विद्धयुतैःक्षिते वै नैपालगंगातटतीरभुक्तीद् ॥१७॥

यदि मीन पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो हिमालयका राजा पीडित होता है, शुभ ग्रहोंसे विद्ध हो तो समृद्धिको प्राप्त होता है । यदि भेष पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो नैपाल तथा गंगातटके समीप देशके राजा लोग ॥ १७ ॥

प्रपीड्यतेऽलं सरयूपसंस्थितैः शुभैः समर्घार्थधनैः प्रवर्द्धते ॥

यद्राशिवेधी खलयुक् तमोऽथवा शनिर्हि तद्देशंनृपादिनाशकः ॥१८॥

सरयूनदीके राजाके आगमनसे पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो समर्घ, अर्थ और धनसे वृद्धि होती है । जिसकी राशिको वैधित करनेवाका राहु वा शनि पाप ग्रहसे युक्त हो तो उसी देशके राजादिका नाश करता है ॥ १८ ॥

चारातिवक्राद्रविजः कुजश्च केतुर्गतिस्पर्शनदर्शनाच्च ॥

उल्काभिघाताद्ग्रहणाद्गर्वीद्वोश्चारात्तमः पीड्यतीह धिष्ण्ये ॥१९॥

चारका अति और वक्र होनेसे शनि, मंगल, केतु और गतिका स्पर्शन दर्शन होनेसे, सूर्य चंद्रमाका ग्रहण होनेसे, राहु कृत्तिका नक्षत्र वा मेषके क्रमसे अपने चार द्वारा नक्षत्र वा राशिको पीडित करता है ॥ १९ ॥

कृशानुधिष्ण्यात्क्रियतोऽथवापि क्रूरग्रहाणामुडुपीडनेन ॥

क्षत्रस्य भंगः खलु मध्यदेशात्खण्डस्य च द्वादशमे विभागे ॥२०॥

क्रूर ग्रहकी नक्षत्र वा राशिपीडासे मध्यदेशसे किसी खंडके चारहवें हिस्सेमें क्षत्रभंग होता है ॥ २० ॥

अथ कोटचक्रम् ।


त्रिनाडिचक्रे चतुरस्र आयते शैवीक्रमात्कोटभतोऽन्तरान्यसेत् ॥

बाहिश्च कोटेतरमध्ययोस्ततो विनिर्गमोऽभ्यन्तरकोटबाह्यतः ॥१॥

तीन नाडीका चौकोर बड़ा चक्र लिखे उसके भीतर ईशान दिशामें कोटका

नक्षत्र धरके भीतर बाहिर नक्षत्रोंको इस क्रमसे स्थापित करे कि कोटके भीतरसे बाहिर तर्फको विनिर्गम और कोटकी बाहिर तर्फसे मध्यभागमें प्रवेश इस रीतिसे लिखना चाहिये ॥ १ ॥

अथ कोटचक्रम् ।



इति क्रमादत्र तु वक्रिणो यदा सुरेज्यभौमज्ञसिताः पुरा क्रमात् ॥

प्रभंगदा स्युर्जलदिवक्रमादिम तु रक्षका वक्रिण एव संततम् ॥२॥

यदि इसमें बृहस्पति, मंगल, बुध और शुक्र वकी हों तो क्रमसे पूर्वादि दिशाओंमें भंग देते हैं, तथा पश्चिमादि दिशाओंमें निरन्तर रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

यदा रविर्मदयुतो न भंगदाः स्मृता इमे वेष्टकभूपतिर्यदा ॥

प्रवेशभे संगरमारभेत्तदा जग्नी भवेन्निर्गमभे च तत्परः ॥ ३ ॥

यदि सूर्येश नियुक्त हो तो पूर्वोक्त वकी ग्रह भंग नहीं दिते । यदि इच्छा करनेवाला राजा प्रवेशके नक्षत्रमें शुद्ध प्रारम्भ करे तो विजयी और निर्गम नक्षत्रमें करे तो उसका शत्रु विजयी होता है ॥ ३ ॥

अन्तः सौम्या वहिः क्रूरा यापिनो भंगनाशदाः ॥

परथा दुर्गभंगाय पापाश्चेद्बाह्यकोटके ॥ ४ ॥

मध्यभागमें शुभ ग्रह और बाह्यभागमें क्रूर ग्रह हो तो यायी राजाका भंग और

नाश करते हैं । यदि अन्य प्रकारसे हो तो किलेका भंग करते हैं । यदि पाप ग्रह कोटके बाहिर ॥ ४ ॥

अन्तः शुभास्तदा खण्डो दुर्गभंगो न जायते ॥

बाह्यकोटे शुभाः पापा मध्ये दद्यात्पुरेद् गढम् ॥ ५ ॥

और शुभ ग्रह भीतर हों तो दुर्ग अखण्ड रहता है, भंग नहीं होता । यदि शुभ ग्रह कोटके बाहिर और पाप ग्रह भीतर हो तो पुरेश गढको दे देता है ॥ ५ ॥

यदा कोटे शुभाः पापा बहिरन्तर्द्वयोः क्षयः ॥

बाह्ये मध्ये खलाः कोटे तदा खंडरणो समौ ॥ ६ ॥

यदि कोटमें बाहिर भीतर शुभ और पाप ग्रह स्थित हों तो दोनों राजाओंका नाश होता है । यदि कोटके बाहिर भीतर केवल पाप ग्रह हों तो अखंड युद्ध हो परन्तु दोनों राजासमान रहते हैं, न कोई जीतता है न हारता है ॥ ६ ॥

बहिरन्तरा शुभखला हि यदा नृपसंधये यदि शुभाः सबलाः ॥

जयदाः खला अशुभदा विमिश्रिताः खचरा विमिश्रितफला

निरन्तराः ॥ ७ ॥

यदि कोटमें बाहिर भीतर शुभ पाप ग्रह हों तो राजाओंमें सन्धि हो जाती है । यदि शुभ ग्रह बलवान् हों तो जयदायक और अशुभ पाप ग्रह बलवान् हों तो अशुभ-दायक, यदि मिले झुले पाप ग्रह हों तो मिश्रफलदायक होते हैं ॥ ७ ॥

मध्ये वक्रिखला दुर्गेद् स्वयं नश्यति वै तदा ॥

दुर्गभे वक्रिपापाः स्युः स्वयं दुर्गेद् पलायते ॥ ८ ॥

यदि मध्य भागमें वक्री पाप ग्रह हों तो दुर्गेश स्वयंही भाग जाता है । यदि कोटके नक्षत्रपर वक्री पाप ग्रह हों तो दुर्गेश स्वयंही भाग जाता है ॥ ८ ॥

रवौ बन्धशोषः कुजे च प्रदाहः शनौ मृत्युयोगः स्वभेदश्च राहौ ॥

ध्वजेऽन्तर्विषं स्याच्च सर्वे च मध्ये तदा दुर्गभंगो यदेज्येन्तरा स्यात् ॥ ९ ॥

जो सूर्य हों तो किसी प्रकारसे बंधनसे दुःख हो, मंगल हो तो अतिदाह, शनि हो तो मृत्युयोग, राहु हो तो अपना भेदन, केतु हो तो भीतर विषदान और जो समस्त पाप ग्रह मध्यमें हों तो दुर्गभंग हो । यदि वृहस्पति मध्यमें हो तो ॥ ९ ॥

प्रभूतं समर्धं जलं स्यात्सितो ज्ञस्तथेन्दुः ससौम्यस्तथा सर्वसौम्यः ॥

जयो दुर्गपस्याथ चेदेककोऽपि खलो मध्यगो बाह्य कोटे च सौम्याः १०

बहुत समर्थ तथा जल होता है । यदि शुक्र, बुध, शुभग्रहयुक्त चंद्रमा तथा सब शुभ ग्रह हों तो दुर्गपतिकी जय होती है । यदि अकेलाही कोई पाप ग्रह कोटके मध्यमें और शुभ ग्रह बाह्य कोटमें हों तो ॥ १० ॥

तदा दुर्गपो द्राक् त्यजेदेव दुर्गं यदा मंदयानाः स्वभोच्चादिसौम्याः ॥
स्थिरर्क्षे विपापाः प्रवीर्याश्च मध्ये जयो दुर्गिणश्चेद्दहिस्ते परस्य ॥११॥

दुर्गका मालिक शीघ्रही किलेको छोड जाता है । यदि कोटके मध्यमें मंदगति अपनी राशिके उच्चादिगत पाप ग्रहोंसे रहित बलवान् शुभ ग्रह स्थिर राशि वा नक्षत्र-पर स्थित हों तो किलेके मालिककी और जो बाह्य भागमें हों तो दूसरे शत्रु राजाकी जय होती है ॥ ११ ॥

चेदन्तरं विषममल्पबलः सहायैर्हीनः पुरेश इह यावदथो शुभः
स्यात् ॥ तावद्दली गढपतिश्च यदैव पापा आयान्ति नूनमिह
पौरभयं तदा स्यात् ॥ १२ ॥

यदि अन्तर विषम हो तो पुरेश अल्पबली और सहायहीन होता है और जब-तक कोटके मध्यमें शुभ ग्रह रहता है तबतक गढपति वली और जब पाप ग्रह आ जाते हैं तो निश्चयही पुरपति राजाको भय होता है ॥ १२ ॥

इह कृत्तिकादित्वमुपलक्षकं तत् पुरभादिक्रम उचितः ॥

इस चक्रमें कृत्तिकादि नक्षत्रोंका लेख तो उपलक्षकमात्र है, किन्तु प्रथम पुरके नक्षत्रक्रमसे लिखना चाहिये ॥

अथ सर्वतोभद्रचक्रम् ।

दशोर्ध्वं दश तिर्यक् च रेखास्रैलोक्यदीपके ॥

अकारादिस्वराँस्तत्र कोष्ठेऽथैशीक्रमाल्लिखेत् ॥ १ ॥

(त्रैलोक्यदीपक) सर्वतोभद्रमें दश खडी और दश तिरछी रेखा खींचे, तथा कोठोंमें ईशानदिशाके क्रमसे ॥ १ ॥

सृष्टिमागैण नियतं शोडशैवं चतुर्भ्रमम् ॥

पूर्वादितः कृत्तिकातः सप्त सप्त च तारकाः ॥ २ ॥

सृष्टिमाग करके चार घुमाव पूर्वक सोलह स्वरोको लिखे, पूर्वादि दिशाओंमें कृत्तिकासे लेकर सात सात नक्षत्र स्थापित करे यह पहला घुमाव है ॥ २ ॥

अवकहडाः पूर्वस्यामटपरता दक्षिणे च नयभज्जखाः ॥

पश्चिमदिशि गसदचला उत्तरदिक्स्थाः परिज्ञेयाः ॥ ३ ॥

अनकठलः पूर्वमें, अटपरत दक्षिणमें, नयभजल पश्चिममें, गसदचल उत्तरमें यह दूसरा घुमाव है ॥ ३ ॥

पूर्वादितो वृषाद्याः स्युः क्रमादेव त्रयस्त्रयः ॥

शेषेषु काष्ठाकोष्ठेषु नंदाद्यास्तिथयः क्रमात् ॥ ४ ॥

पूर्वादि दिशाओंमें क्रमसे वृषको आदि लेकर तीन तीन राशि लिखे यह तीसरा घुमाव है और शेष दिशाओंके कोठोंमें नंदादि तिथि क्रमसे लिखे यह चौथा घुमाव है ॥ ४ ॥

वाराणां सप्तकं लेख्यं भौमाद्यं पूर्वदिक्क्रमात् ॥

शान्यर्कराहुकेत्वाराः पापा शेषाः शुभाः स्वगाः ॥ ५ ॥

पूर्वादि दिशाओंमें क्रमसे मंगलको आदि लेकर सात वार स्थापित करे । शनि, सूर्य, राहु, केतु और मंगल ये पाप और शेष शुभ ग्रह कहते हैं ॥ ५ ॥

सर्वतोभद्रचक्रम् ।

घडल

	अ	क	रो	मु	आ	पू	पु	श्ले	आ
	भ	उ	अ	व	क	ह	उ	ऊ	म
	अ	ल	ल	२	३	४	ल	अ	पू
	रे	च	१	ओ	न	औ	५	ट	उ
शक्य	उ	व	१२	रि	पू	भ	६	प	ह
	पू	स	११	आ	ज	अं	७	र	वि
	श	ग	ऐ	१०	९	८	९	त	स्वा
	ध	कृ	ख	ज	भ	य	न	कृ	वि
	ई	श्र	अ	उ	पू	मू	ज्ये	अ	इ

२५३

बुधोऽपि क्रूरयुक् क्रूरश्चंद्रमाश्च कृशस्तथा ॥

यत्र भे खचरस्तिष्ठेत्ततो वेधत्रयं भवेत् ॥ ६ ॥

स्वर्गेषु वशादत्र वामदक्षिणसन्मुखाः ॥

शीघ्रे वामोन्मुखी मध्ये ज्ञेया वक्त्रे च दक्षिणा ॥ ७ ॥

ऋरयुक्त बुध तथा कुषा चंद्रमामी ऋर कहाता है, जिस नक्षत्रपर ग्रह स्थित हो वहांसे उस ग्रहकी दृष्टिवशसे वाम, दक्षिण और सन्मुख ये तीन वेध होते हैं- शीघ्रगति ग्रहमें वाम और मध्यगति ग्रहमें सन्मुख और वक्रमें दक्षिणदृष्टि होती है ॥ ६ ॥ ७ ॥

भौमादिष्वथ सूर्येन्दुकेत्वहीना च दृक्त्रयम् ॥

सदैव वक्रिणौ दैत्यौ सूर्येन्दू शीघ्रगौ धतः ॥ ८ ॥

मंगल आदि ऋर ग्रहोंमें सूर्य, चंद्र, केतु और राहु इनकी तीनों दृष्टियां होती हैं, क्योंकि राहु केतु दोनों सदैव वक्रौ और सूर्य चंद्रमा शीघ्री रहते हैं ॥ ८ ॥

सूर्यान्मुक्ता उदीयन्ते शीघ्राः खेटा धने रवेः ॥

तृतीये च समाः प्रोक्ताश्चतुर्थे मंदगामिनः ॥ ९ ॥

सूर्यसे मुक्त शीघ्र ग्रह सूर्यसे दूसरे घरमें उदय होते हैं, तीसरेमें समगति, चौथेमें मंदगामी ॥ ९ ॥

भानोः खेटात्पञ्चमे च वक्राश्चाष्टमसप्तमे ॥

अतिवक्राः स्मृता धर्मदशके मार्गगामिनः ॥ १० ॥

पांचवेंमें वक्रौ, सातवें आठवेंमें अतिवक्रौ, नौवें दशवें मार्गगामी ॥ १० ॥

लाभद्वादशके शीघ्रा यदा वक्रो भवेत्खगः ॥

सौम्योऽतिसौम्यश्चोग्रोऽतिपापः शीघ्रः स्वभाववत् ॥ ११ ॥

ग्यारहवें बारहवें शीघ्री हो जाते हैं और सौम्य ग्रह जब वक्रौ होता है तब अतिसौम्य और पाप ग्रह वक्रौ होता है तो अतिपाप और शीघ्री स्वभावके तुल्य होता है ॥ ११ ॥

तुंगस्थानं तुंगभं स्यात्तस्मान्नीचं च सप्तमम् ॥

नीचाच्चोच्चात्तुर्यभं यत्समं सोऽग्रशुभः खलुः ॥ १२ ॥

उच्चस्थानकी उच्चराशि और उच्चसे सातवीं नीच और नीच तथा उच्चसे चौथी समराशि कहाती है । पाप ग्रहके साथ शुभभी पाप हो जाता है ॥ १२ ॥

ऊर्ध्वदृष्टी च सूर्यारौ बुधशुक्रौ च केकरौ ॥

चंद्रेज्यौ समदृष्टी च मंदराहू त्वधोदृशौ ॥ १३ ॥

सूर्य मंगल ऊर्ध्वदृष्टिवाले, बुध शुक्र काणे, चंद्र वृहस्पति समदृष्टि और शनि राहु अधोदृष्टिवाले हैं ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वदृष्टिग्रहे कुर्यात्कुण्डली यन्त्रसाधनम् ॥

समे च साधयेत्पिण्डं रन्ध्रपातमधोदृशि ॥ १४ ॥

ऊर्ध्वदृष्टि ग्रह होवे तो कुण्डलीयन्त्र बनावे और समदृष्टि हो तो पिण्ड, अधोदृष्टि हो तो छिद्रपातयन्त्र बनावे ॥ १४ ॥

सुहृदोऽर्केन्दुभौमेज्या जशुकशनिराहवः ॥

अन्योन्यं वैरिणो ह्यन्ये राहोः सर्वे तु शत्रवः ॥ १५ ॥

सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति और बुध, शुक्र, शनि और राहु ये चार चार ग्रह आपसमें मित्र और अन्य ग्रहमें शत्रु एवं राहुके सब ग्रह शत्रु हैं ॥ १५ ॥

घङ्छा रौद्रगे वेधे षण्ठा हस्तगे तथा ॥

धफटा पूर्वाषाढायां शङ्गथा भाद्रउत्तरा ॥ १६ ॥

घ ङ छ आर्द्रके, ष ण ठ हस्तके, ध फ ढ पूर्वाषाढाके, श ङ थ उत्तराभाद्र-पदाके वेधमें लिखने चाहिये ॥ १६ ॥

ववौ शसौ षखौ चैव जयौ डञ्जौ परस्परम् ॥

एकेन द्वितयं विद्धं सदसद्गह्वेधने ॥ १७ ॥

शुभ वा अशुभ ग्रहका वेध होनेपर व व, श स, ष ख, ज य, ङ ञ इन दो वर्णोंमें एकका वेध होनेसे दूसरा विद्ध हो जाता है ॥ १७ ॥

अवर्णादिस्वरद्वन्द्वे ह्येकवेधे द्वयोर्व्यधः ॥

युक्तास्वरात्मके वेधे त्वनुस्वारविसर्गयोः ॥ १८ ॥

अवर्णादि द्वंद्वस्वर (अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, लृ लृ,) इनमें एकका वेध होनेपर दोनोंका वेध समझना चाहिये, युक्त स्वर (ए ऐ ओ औ) इनके वेधमें अनुस्वार (अं) और विसर्ग (अः) काभी वेध हो जाता है ॥ १८ ॥

घङ्छाः षण्ठाश्चैव धफटाः शङ्गथास्तथा ॥

एतंत्रिकं त्रिकं त्रिद्वं विद्धैकपदभैः क्रमात् ॥ १९ ॥

नक्षत्रके प्रथमं चरणादिके विद्ध होनेसे क्रमसे ये तीन तीन-वर्णभी विद्ध होते हैं, यथा नक्षत्रका प्रथम चरण विद्ध हो तो घ ङ छ, दूसरा विद्ध हो तो ष ण ठ, तीसरा विद्ध हो तो ध फ ढ और चौथा विद्ध हो तो श ङ थ विद्ध हो जाते हैं ॥ १९ ॥

भरण्यन्तपदस्थायी कृत्तिकाद्यांघ्रिगोऽपि वा ॥

वेधयेत्तु अउलृऊकारं पूर्णां तिथिं तथा ॥ २० ॥

यदि ग्रह भरणीके अंत-और कृत्तिकाके आदि चरणको वेधता हो तो अ उ लृ ऊ और पूर्ण तिथि इनकोभी वेधित करता है ॥ २० ॥

एवं कोणभयोर्मध्ये चान्त्यादिपदगो स्वर्गो ॥

अस्वरादिचतुष्कस्य वेधः पूर्णतिथेस्तथा ॥ २१ ॥

इसी प्रकार दोनों कोणके दो नक्षत्रोंके अन्त्य आदि चरणपर स्थित ग्रह उन दोनों नक्षत्रोंके मध्यस्थ अकारादि चार स्वर और पूर्णा तिथिको वेधित करता है ॥ २१ ॥

एकादिपादवेधेन भीर्हानी रुग् मृतिः क्रमात् ॥

धिष्ण्ये विधे भ्रमो वर्णे हानिर्व्याधिः स्वरे तिथौ ॥ २२ ॥

नक्षत्रके प्रथमादि चार चरणोंके विद्ध होनेसे क्रमसे भय, हानि, रोग तथा मृत्यु होती है, नक्षत्रवेधमें भ्रम, वर्णमें हानि, स्वरमें व्याधि, तिथिमें ॥ २२ ॥

भयं राशौ परं विघ्नं पंचवेधे मृतिर्भवेत् ॥

उग्रस्यैकस्य वेधेन भीर्द्वयोश्च व्रणो रणे ॥ २३ ॥

भय, राशिमें अतिविघ्न और जो पांचों वेध हों तो मृत्यु होती है। एक पाप ग्रहका वेध होनेसे भय, दोका वेध होनेसे युद्धमें घाव ॥ २३ ॥

खलत्रयव्यधाद्भंगश्चतुःपापव्यधान्मृतिः ॥

आधी रवेर्व्यधे द्रव्यहानिर्भौमस्य रुक् शनेः ॥ २४ ॥

तीनका वेध होनेसे भंग, चारका होनेसे मृत्यु होती है। सूर्यका वेध हो तो व्याधि, मंगलका हो तो द्रव्यहानि, शनैश्वरका हो तो रोग ॥ २४ ॥

राहुकेत्वोर्महाविघ्नं पुष्टेन्दोश्च शुभं फलम् ॥

क्षीणोन्दोरशुभं चाद्रेर्बुद्धिर्जीवस्य वाञ्छितम् ॥ २५ ॥

राहु केतुका हो तो महाविघ्न, पूर्ण चंद्रमाका हो तो शुभफल, क्षीण चंद्रमाका हो तो अशुभ फल, बुधका हो तो बुद्धिबुद्धि बृहस्पतिका हो तो मनोरथ सिद्धि ॥ २५ ॥

रतिः शुक्रस्य वृद्धयै स्यात्पूर्णा स्वोच्चर्क्षगे फलम् ॥

त्रिकोणे चाष्टमे वादौ समर्द्धं चाद्रिवद्रिपौ ॥ २६ ॥

शुक्रका हो रतिवृद्धि होती है। यदि ग्रह अपनी उच्चराशिका त्रिकोण (९।९) में हो तो पूर्ण फल होता है और आठवें वा सातवें हो तो भले प्रकार आधा फल और छठे घरमें हो तो सातवें घरके तुल्य फल वर्णन करे अर्थात् आधा फल कहे ॥ २६ ॥

स्थानवेधसमायोगाद्यत्संख्यं जायते बलम् ॥

तत्तुल्यं वेधवस्तूनां फलं ब्रुयादशंकितः ॥ २७ ॥

स्थानवेधके जोडनेसे जितना बल हो उतनाही वेधवस्तुओंका फल निःसंदेह
कहे ॥ २७ ॥

वक्रे द्विगुणमुच्चस्थे त्रिगुणं शीघ्र उक्तवत् ॥

नीचेऽर्द्धं च सदा निन्द्यो वेधः कार्येषु सत्सु च ॥ २८ ॥

यदि वक्र ग्रह हो तो दूना, उच्चका हो तो तिगुना, शीघ्री हो तो पहिले कहे
हुएके तुल्य, नीचका हो तो आधा फल बतावे और शुभ कार्योंमें वेध सदा
निंदित है ॥ २८ ॥

रोगकाले वक्रिपापवेधे मृत्युश्च पापिनि ॥

शीघ्रे रोगी भवेज्जययो वेधस्थाने भटे क्षतिः ॥ २९ ॥

रोगकालमें वक्रा और पाप ग्रहका वेध होवे तो मृत्यु, शीघ्र पाप ग्रहका वेध
होवे तो योद्धा, रोगी और यदि योद्धा वेधके स्थानमें हों तो क्षय होता है ॥ २९ ॥

कवौ प्रवेशनं युद्धे भंगः खंडो भवेद्गटे ॥

वामदक्षे सतोर्वेधो दुर्गहानिर्हि सन्मुखे ॥ ३० ॥

यदि शुक्रका पाप ग्रहके साथ वेध हो तो युद्धमें प्रवेश, यदि शुभ ग्रहका पाप
ग्रहके साथ वाम वेध हो तो युद्धमें भंग, जो दक्षिण वेध हो तो गढमें खंड और
सामने वेध हो तो दुर्गहानि होती है ॥ ३० ॥

वृषादिराशित्रयभानुभोगाद्दशाचतुष्कं क्रमतोऽस्तमैत्र्याः ॥

ऐंद्री यदास्तं समुपैति शैवी तथा फलावाच्यनलस्य दिक् च ॥ ३१ ॥

वृषादि तीन तीन राशियोंपर सूर्यका भोग होनेसे क्रमसे पूर्वादि चारों दिशा
अस्तको प्राप्त होती हैं अर्थात् २ । ३ । ४ राशियोंमें पूर्व, ५ । ६ । ७ में
दक्षिण, ८ । ९ । १० में पश्चिम और ११ । १२ । १ में उत्तर दिशा अस्त हो
जाती है । पूर्व दिशा जब अस्त होती है तबही ईशान दिशा और जब दक्षिण
दिशा अस्त होती है तभी आग्नेय दिशा अस्त होती है ॥ ३१ ॥

तद्गतप्रतीची निर्ऋतेर्दिशा स्यात् तथोत्तरावायुदिशा तथा स्यात् ॥

भेऽस्ते रुजा हानिरिहाक्षरे च शोकः स्वरे विघ्नमलं च राशौ ॥ ३२ ॥

एवं पश्चिम दिशा अस्त होती है तब नैऋत्य और उत्तर दिशा अस्त होती है

तव वायव्य दिशाभी अस्त हो जाती है । नक्षत्र अस्त हो तो रोग, अक्षर हो तो हानि, स्वर हो तो शोक, राशि हो तो बहुत विघ्न ॥ ३२ ॥

भयं तिथौ पञ्चसु मृत्युरेव यात्रां विवादं चरणं गृहस्य ॥

द्वारं शुभं चाऽप्यपरं समस्तमस्तोन्मुखं नैव कदा विदध्यात् ॥ ३३ ॥

तिथि हो तो भय, यदि पांचों अस्त हों तो मृत्यु होती है, यात्रा, विवाद, युद्ध, गृहका द्वार और सब शुभ कर्म अस्तके सामने नहीं करने चाहिये ॥ ३३ ॥

यन्नामाद्यक्षरं ह्यस्तं सदैव निहतः सदा ॥

पुष्टिर्धिष्ण्ये समुदिते लाभो वर्णे सुखं स्वरे ॥ ३४ ॥

जिसके नामका आदि अक्षर अस्त हो वह सदाही दैवसे निहत रहता है, नक्षत्र उदय हो तो पुष्टि, वर्ण हो तो लाभ, स्वर हो तो सुख ॥ ३४ ॥

राशौ जयस्तिथावोजः स्थानाप्तिः पंचकोदये ॥

प्रश्नेऽंगं सत्फलं यच्च पापैर्विद्धं न सद्भि तत् ॥

शुभैः शुभं समैर्मध्यं ज्ञेयमत्र पुरोक्तवत् ॥ ३५ ॥

राशि हो तो जय, तिथि हो तो बल, पांचों उदय हों तो जयप्राप्ति होती है । प्रश्नमें जो अंग शुभफलदायकभी हो यदि वह पाप ग्रहसे विद्ध हो तो शुभ नहीं होता, शुभ ग्रहोंसे विद्ध हो तो शुभ, सम ग्रहोंसे विद्ध हो तो मध्यम फल पाई-केकी नाई समझना चाहिये ॥ ३५ ॥

भूरिकालात्मके वेधे यदा चंद्रो व्यये भवेत् ॥

तदा वेधफलं वाच्यं शुभाशुभमसंशयम् ॥ ३६ ॥

बहुत कालके वेधमें चंद्रमा जब कभी वारहवें घर होगा तबही वेधका शुभाशुभ फल नि.संदेह जानना चाहिये ॥ ३६ ॥

क्रूरैरुभयतो विद्धं यस्य भं च स देशपः ॥

देशदुर्गगढस्थानपुरो नश्यति वस्तु च ॥ ३७ ॥

दोनों तर्फ क्रूर ग्रहोंसे जिसका नक्षत्र विद्ध हो वह देशपति, देश, गढ, स्थान, पुर और वस्तु नाश हो जाते हैं ॥ ३७ ॥

कृतिकादित्रयं मध्ये तथार्द्रादित्रिकं त्रिकम् ॥

पूर्वादिक्रमतो लेख्यं तत्र वेधे हि तत्क्षयः ॥ ३८ ॥

कृत्तिकासे आदि केकर तीन नक्षत्र मध्यमें तथा आर्द्रासे केकर तीन तीन नक्षत्र

पूर्वः आदि दिशाओंमें क्रमसे लिखे जहां वेध हो उसीका क्षय जाने ॥ ३८ ॥

अयोध्या मिथिला चंपा कौशांबी कौशिकी तथा ॥

अहिच्छत्रं गया विन्ध्यमंतर्वेदिश्च मेखला ॥ ३९ ॥

कृत्तिकादि तीन नक्षत्र विद्ध हों तो अयोध्या, मिथिला, चंपा, कौशांबी, कौशिकी, अहिच्छत्र, गया, विन्ध्याचल, अन्तर्वेदि, मेखला ॥ ३९ ॥

कान्यकुब्जः प्रयागश्च मध्यदेशोऽग्निभत्रये ॥

विद्धे नश्यति तत्रापि यत्र वेधो भवेत्क्षयः ॥ ४० ॥

कान्यकुब्ज, प्रयाग, मध्यदेश नाशको प्राप्त होते हैं और जहां वेध हो वहां भी क्षय होता है ॥ ४० ॥

अमौ पुष्ये च रेवत्यां नक्षत्रे च पुनर्वसौ ॥

विद्धे यथाक्रमं वेधो वर्णेषु ब्राह्मणादिषु ॥ ४१ ॥

कृत्तिका, पुष्य, रेवती और पुनर्वसु ये नक्षत्र विद्ध हों तो यथाक्रमसे ब्राह्मणादि वर्णोंमें दुःखादि उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥

तौल्यं भांडो रसो धान्यं वाहेभादिचतुष्पदम् ॥

यावत्पापव्यधस्तावत्सर्वं गच्छेन्महर्घताम् ॥ ४२ ॥

जबतक पाप ग्रहका वेध रहता है तबतक हाथी आदि चतुष्पद ये सब महर्घताको प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥

क्रूरवेधसमायोगे यस्योपग्रहसंभवः ॥

तस्य मृत्युर्न संदेहो रोगिणो निर्बलस्य च ॥ ४३ ॥

क्रूर ग्रहके वेधमें जिस रोगी वा निर्बलता पुरुषके जन्मनक्षत्रपर उपग्रहयोगकी उत्पत्ति हो तो उस पुरुषकी निःसंदेह मृत्यु होती है ॥ ४३ ॥

सूर्यभात्पञ्चमाष्टाख्यमशुभं चैकविंशतेः ॥

चतुष्कं जन्मभं चेत्स्यात्तदा भूयादुपग्रहः ॥ ४४ ॥

सूर्यके नक्षत्रसे पांचवां, आठवां नक्षत्र अशुभ है तथा इकीससे आगे चार २२ २३ २४ २५ वां यदि जन्मनक्षत्र हो तो उपग्रह दोष होता है ॥ ४४ ॥

अनिष्टं जनुर्भे प्रविद्धे दशक्षे हि कर्मक्षयश्चाष्टमे स्यात्प्रभेदः ॥

धृतौ द्रव्यनाशस्त्रयोविंशतौ रुक् तथा पंचविंशोऽतिदुःखं

खलैः स्यात् ॥ ४५ ॥

यदि जन्मका नक्षत्र पाप ग्रहोंसे विद्ध हो तो कर्मनाश, १० वां हो तो प्रमेद, १० वां हो तो द्रव्यनाश, २३ वां हो तो रोग, २५ वां हो तो दुःख होता है ॥ ४५ ॥

तमोभतः पंचमगं नृपस्य भं पलायते राट्सचिवो निहन्यते ॥

भटक्षतश्चेद्दशमेऽवनीसुतः स्वपक्षतो भृत्युमवापयात्रूपः ॥ ४६ ॥

राहुके नक्षत्रसे राजाका पांचवां नक्षत्र होवे तो राजा युद्धसे भाग जाता है तथा मंत्री मारा जाता है । योद्धाके नक्षत्रसे दशवें नक्षत्रपर मंगल हो तो राजा अपने पक्षसे मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

विद्धे राज्ञो ज्ञातिभे ज्ञातिनाशो राजर्क्षे स्याद्बंधनं देशभे च ॥

देशत्यागो हूनविशे प्रवासश्चेदत्रैवोपग्रहो मृत्युहेतुः ॥ ४७ ॥

यदि राजाकी ज्ञातिके नक्षत्रपर मंगल हो तो जातिके नाश और जो राजाके नक्षत्रपर हो तो राजाका बंधन, यदि देशके नक्षत्रपर हो तो देशत्याग, उन्नीसवें नक्षत्रपर हो तो यह उपग्रहभी मृत्युका कारण है ॥ ४७ ॥

अथवा तुरङ्गराहुविचारणीयः ।

राहोर्भतः सप्तकमानने स्यात्स्कन्धे ततः सप्ततथोदरे च ॥

सप्त त्रिके सप्त यथा क्रमेण लिखेच्च योद्धर्क्षमु तत्र चिन्त्यम् ॥ ४८ ॥

अथवा तुरंगराहु इस प्रकारसे विचारना चाहिये कि, राहुके नक्षत्रसे सात सात नक्षत्र मुख, स्कन्ध, उदर, कटिपर लिखे, इस प्रकारके चक्रमें योद्धाका जन्मनक्षत्र विचारे कि-किस अंगपर आया है ॥ ४८ ॥

मृतिं वक्रे स्कन्धे भयमुदरदेशे हि विजयं ॥

कटौ घातं स्याद्वै भवति यदि भं योद्धजनियम् ॥

सजीवं मध्यत्वं यदि सशनि सूर्ध्वक्षतिमथो ॥

सभौमं तद्घातं सविधु मरणं चेधह्युतम् ॥ ४९ ॥

यदि मुखपर हो तो मृत्यु, स्कंधपर भय, उदरपर विजय, क्रमरपर घात होता है । यदि तुरङ्गमुखास्थित योद्धाके जन्मनक्षत्रपर बृहस्पति हो तो मध्यम फल शनि हो तो शिरमें घाव, मंगल हो तो घात, चंद्रमा हो तो मरण, बुध हो तो ॥ ४९ ॥

अभयं शुक्राब्जं रणविमुखतां केतुसहितं ।

रणे शस्त्रत्यागं सरवि रिपुतामैव तनुते ॥

यदांसस्थं सेज्यं दिशति विजयं चेतकवियुतं ।

रणे शस्त्रत्यागं यदि सशनि भंगं सविधु तत् ॥ ५० ॥
 तदा शस्त्रभ्रंशं सरवि रिपुवश्यं कुजयुतं ।
 तनुच्छेदं विद्युक् स्वलनमु सकेत्वात्महननम् ॥
 भमौदर्यं सेज्यं दिशति विजयं चेत्कवियुतं ।
 रिपौर्वैमुख्यं तत्सशनि समतां सार्कमु जयम् ॥ ५१ ॥
 ससौम्यं शूरत्वं सखलविधु चेद्धीतिमतुलां ।
 सपुच्छं चेत्संधिं यदि रिपुमृतिं भौमसाहितम् ॥
 कटिस्थं भं सेज्यं दिशति विजयं सेन्द्रपचयं ।
 सशुकं तत्साम्यं सशनि हि भयं सेन्दुतनयम् ॥
 परं क्लेशं सारं मृतिमथ ससूर्यं रिपुवशं ।
 सकेतु श्रीहानिं समरविमुखत्वं च दिशति ॥ ५२ ॥

अकल्याण, शुक्र हो तो युद्धमें विमुखा, केतु हो तो युद्धमें शास्त्रत्याग और सूर्य हो तो शत्रुताको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार स्कन्ध, उदर तथा कटिस्थित नक्षत्रपर ग्रह-स्थितिका फल चक्रोंमें समझ लेना चाहिये ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

स्कंधफलम् ।

सू	चं	म	बु	बृ	शु	श	के
शत्रुके वशमें होना	शस्त्रभ्रंश	शरीर छेदन	स्वलन	विजय	युद्धमें श- स्त्रत्याग	भंग	आत्मघात

उदरफलम् ।

सू	चं	मं	बु	बृ	शु	श	के
जय	अतुल भय	शत्रुमृति	शूरता	विजय	शत्रुकी वि- सुखता होनी	समता	संधि

कटिफलम् ।

सू	चं	मं	बु	बृ	शु	श	के
शत्रुके वश होना	अपचय	मृत्यु	परमक्लेश	विजय	समता	भय	श्रीहानि और युद्धमें विसुखता

रवेर्भाक्षिथ्यंकत्रिनखमितमिष्टर्क्षमथवा ॥

त्रयोविंशं केतोर्भृतिसमुचितोपग्रह इति ॥ ५३ ॥

सूर्यके नक्षत्रसे १५।१।३।२० वां इष्ट नक्षत्र हो अथवा केतुका तेईसवां हो तो यह मृत्युका करनेवाला उपग्रह कहा है ॥ ५३ ॥

सेनापतेः शुभाशुभज्ञानम् ।

राजा मंत्री च सेनानीः कोटपालो यथाक्रमम् ॥

शनिः सूर्यस्तथा सोमो बुध एभ्यः फलं वदेत् ॥ ५४ ॥

राजा, मंत्री, सेनापति, कोटपाल क्रमसे शनि, सूर्य, चंद्र, बुध हैं इनसे शुभाशुभ फल कहे ॥ ५४ ॥

शीघ्रगाश्चरराशिस्थाः पालयन्ति निजाश्चमूम् ॥

शनौ नीचगते पौरा रवौ नीचगतेऽध्वगाः ॥ ५५ ॥

यदि शीघ्रगतिवाले ग्रह चरराशिस्थ हों तो अपने पुरुष और जो शनि नीचका हो तो पुरवासी लोग और यदि सूर्य नीचका हो तो रस्तागीर मनुष्य सेनाकी रक्षा करते हैं ॥ ५५ ॥

बंधनं वाहिसंयुक्ते मृत्युः शत्रुनिरीक्षिते ॥

सक्षतो रिपुसंयुक्ते परयुक्तो हि निर्भयः ॥ ५६ ॥

शनि वा सूर्य राहुसे युक्त हो तो बंधन, शत्रुसे दृष्ट हो तो मृत्यु, शत्रुसे युक्त हो तो धाव और शुभग्रहयुक्त हो तो सेनापति निर्भय होता है ॥ ५६ ॥

शीघ्रगा मित्रसंयुक्ता मित्रेणालोकिता यदि ॥

तदा संधिं विजानीयात्सेनयोरुभयोरपि ॥ ५७ ॥

यदि शीघ्रगति ग्रह मित्र ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो दोनों सेनाओंमें सन्धि हो जाती है ॥ ५७ ॥

अबलांशगते चंद्रे स्त्रीखेटप्रविलोकिते ॥

अबलर्क्षगते वापि स्त्री स्यात्सैन्यस्य पालिका ॥ ५८ ॥

यदि स्त्रीग्रहके नवांशमें चंद्रमा स्त्रीग्रहसे दृष्ट हो अथवा स्त्रीराशिगत हों तो सेनाकी रक्षा करनेवाली स्त्री होती है ॥ ५८ ॥

कस्यांगस्य घात इति प्रश्ने विचारः ।

अर्कक्षतो भटक्षं दशमं तज्जन्मपादश्च ॥

दक्षकरोदरघातो द्वादशभं चेतु हस्तयातश्च ॥ ५९ ॥

यदि सूर्य नक्षत्रसे योद्धाका जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रका चरण दशावां हो तो दाहिने हाथ और उदरपर घाव लगा है, यदि धारहवां हो तो हाथपर लगा है ॥ ५९ ॥

जीवति चतुर्दशं चेज्जन्मांघ्रिश्चात्र दोर्निहतिः ॥

पंचदशं भुजघाताद्भुपतिर्विशं तथैकविंशं चेत् ॥

कायहतोप्रियते चेत्सिद्धभमादक्षपादगृहहतेः ॥ ६० ॥

और जो चौदहवां नक्षत्र वा जन्ममरण हो तो जीवतां है तथा भुजाओं प्रहार होता है और यदि पन्द्रहवां हो तो भुजाकी चोटसे मृत्युको प्राप्त होता है, यदि १६।२०।२१ वां हो तो शरीरकी चोटसे और जो चौबीसवां हो तो दाहिने पैरसे लेकर पीठमें चोट लगनेसे मृत्यु हो ॥ ६० ॥

लमाद्वा वीरजन्मर्क्षाद्देहेऽर्के शिरसि क्षतिम् ॥

चंद्रे व्यये मुखे भौमे लाभे वक्रहृदोर्बुधे ॥ ६१ ॥

अथवा यदि लग्नसे वा वीरके जन्मराशिसे सूर्य लग्नमें हो तो शिरमें घाव हो, चंद्रमा बारहवें हो तो मुखमें, मंगल ग्यारहवें हो तो मुख और हृदयमें ॥ ६१ ॥

स्व स्तने च गुरौ भाग्य ऊर्वोः शुक्रेऽष्टमे गुदे ॥

शंनौ चतुर्थगे जान्वोर्धियि राहौ भुजद्वये ॥ ६२ ॥

बुध दशवें हो तो छातीमें, बृहस्पति नववें हो तो जंघाओंमें, शुक्र आठवें हो तो गुदामें, शनि चौथे हो तो घुटनोंमें, राहु पांचवें हो तो दोनों भुजाओंमें ॥ ६२ ॥

केतौ षष्ठे हनोर्मूले शीर्षे वा भटजन्मतः ॥

अष्टमेशे मृतौ हस्ते ज्येष्ठे भ्रात्रंगराद् त्रिभे ॥

कण्ठे स्वगृहनिर्माणलभे शेषे भवेच्छ्रुतौ ॥ ६३ ॥

केतु छठे हो तो ठोड़ीमें वा शिरमें अथवा योद्धाके जन्मराशिसे अष्टमेश आठवें हो तो बड़े हाथमें अर्थात् दाहिनेमें, तृतीयेश लग्नसे तीसरे घरमें हो तो कण्ठमें और अपने गृहनिर्माणकी लग्नसे शेष ग्रह हों तो कानमें घाव हो ॥ ६३ ॥

दुर्भंगप्रश्ने विचारः ।

खलेऽबले वा सबले तनौ नो दुर्गस्य भंगोऽष्टमभे हि भंगः ॥

भौमे तनौ वादितिजे न भंगो यदा सुरः सप्तम आशु भंगः ॥ १ ॥

बलवान् वा निर्वर्त्तौ पाप ग्रह लग्नमें हो तो दुर्भंग नहीं हो । यदि आठवें

शुभ ग्रह हो तो भंग हो और मंगल वा राहु लग्नमें हो तो भंग नहीं होता । यदि राहु सप्तममें हो तो शीघ्रही भंग हो ॥ १ ॥

तनौ खलो दुर्गशुभाय चौथी दृष्टिर्न चातःपरथाऽन्यथा च ॥

विवादसंग्रामरिपुप्रणाशदुर्गप्रभंगादिषु चेत्खलौऽग्रे ॥ २ ॥

यदि लग्नमें शुभ पाप ग्रह हो तो शुभ फल और जो पापदृष्टि हो तो अशुभ फल होता है । इससे दूसरी तरहपर हो तो अन्यथा फल होता है अर्थात् शुभ ग्रह लग्नमें हो तो दुर्गभंग और जो शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो दुर्गरक्षा हो । विवाद, संग्राम, शत्रुनाश, दुर्गभंग इत्यादिकोंमें पाप ग्रह लग्नमें हों तो ॥ २ ॥

शुभाय नो दृक् यदि सप्तमूर्त्योः खलौ षडष्टस्वगतोऽगनाथः ॥

न दुर्गभंगो यदि रिःफवित्ते खला न भंगोऽप्यरिवेष्टितानाम् ॥३॥

शुभ और जो दृष्टि हो तो अशुभ फल होता है ॥ यदि लग्न सप्तममें पाप ग्रह और छठे, आठवे, दूसरे लग्नेश हो तो दुर्गभंग नहीं होता । यदि बारहवें दूसरे पापग्रह हो तो शत्रुसे घेरे हुए पुरुषोंका भंग नहीं होता ॥ ३ ॥

खलैश्चतुःकर्मगतैश्च येन प्रवेष्टितं दुर्गमतोऽस्य नाशः ॥

पलायनं वा तनुपुत्रकर्मजीवेशरिसैन्यं प्रबलं गृहीत्वा ॥ ४ ॥

यदि पाप ग्रह चतुर्थ दशममें हो तो जिसने किला घेर लिया है उस राजाका नाश वा पलायन हो १ । ५ । १० में बृहस्पति हो तो शत्रुकी प्रबल सेना क्षणमात्रमें दुर्गको लेकर ॥ ४ ॥

दुर्गक्षणेनैव पराङ्मुखः स्याद्यदा तनुस्थस्तनुवीक्षको वा ॥

जीवो हितालोकनतोऽर्कशुक्रौ चंद्रक्षितौ चोदयिभिः प्रवीर्यैः ॥५॥

छाटे जाती है । यदि बृहस्पति लग्नमें स्थित हो वा मित्रदृष्टिसे लग्नको देखता हो और बलवान् उदयके शुभ ग्रहों तथा चंद्रमासे सूर्य शुक्र दृष्ट हों तो ॥ ५ ॥

शुभैर्गढस्थस्य जयप्रहर्षक्षेमोद्गमश्चेत्तनुर्गोऽगनाथः ॥

शुक्रोऽथवेज्यो भवगःशुभं स्याद्दुर्गस्थितानां शुभमित्रदृष्टः ॥६॥

गढपति राजाकी जय, प्रहर्ष, कल्याणकी प्राप्ति होती है । यदि लग्नेश लग्नमें शुक्र वा बृहस्पति ग्यारहवें शुभ मित्रसे दृष्ट हो तो दुर्गस्थित पुरुषोंको शुभदायक होते हैं ॥६॥

विशेषतः स्वोदयिसौम्यदृष्टो जयाय चेदृश्चिकसिंहसंज्ञे ॥

तातारिलभे सबलो गढस्थो बहिः स निर्गम्य रणाज्याय ॥७॥

यदि विशेषकरके अपने उदयके शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो विजय होती है । यदि दशम, छठे, लग्नें, वृश्चिक, सिंहराशिपर वलवान् लघेश वा शुक्र वा बृहस्पति हो तो गहपति राजा बाहिर निकलकर युद्धसे जय पाता है ॥ ७ ॥

स्थिरे केंद्रगे पूर्णवीर्येऽगनाथे पुरेशो बली सप्तपे चैवमन्यः ॥

यआपौल्लिमे योऽस्तगो वक्रगो वा बलोनोऽगसप्तेशयोर्निर्बलोऽसौ ८

यदि लघेश पूर्ण बली होकर स्थिर केंद्रमें हो तो पुरेश बली और जो सप्तमेश इस प्रकारसे हो तो यायी राजा बली होता है । यदि लघेश सप्तमेश दोनोंमें जो कोई आपोल्लिममें हो अथवा अस्तका हो वा वक्री हो वा न्यूनबली हो तो वरही राजा निर्बल होता है ॥ ८ ॥

स्वभेशोऽगमंश्वरं मित्रदृष्ट्या प्रपश्येद्वलीदुर्गपश्चेत्सुखेशः ॥

स्मरारीश्वरौ मित्रदृष्ट्या प्रपश्येद्वलीयान् रिपुश्चेत्तनौनाधिकारः ९

यदि स्वराशिपति लग्न वा लघेशको मित्रदृष्टिसे देखता हो तो दुर्गेश बली, यदि चतुर्थेश सप्तमेश षष्ठेशको मित्रदृष्टिसे देखता हो तो शत्रु बली होता है । यदि लग्नें दशमेश वा सूर्यका अधिकार ॥ ९ ॥

**दशेशस्य वार्कस्य वै दुर्गभङ्गश्चरेंऽगे खले वोक्तयोगेऽतिय
त्नात् ॥ यदांगे स्वभोक्त्रादिगानां कबूलंसितेज्येन्दुजाना च
वा मुत्तशीलम् ॥ १० ॥**

नहीं हो तो दुर्गभंग हो अथवा इसी उक्त योगमें चरलग्नस्थ पाप ग्रह हो तो अतियत्नसे दुर्गभंग ही । यदि लग्नें अपने उच्चराशिगत ग्रहोंका कबूल अथवा शुक्र बृहस्पति बुधका इत्तसाल योग हो तो ॥ १० ॥

न दुर्गस्य भंगो रवीन्द्वारमादेत्तसाले द्विदेहोदये दुर्गभंगः ॥

चरक्षे विशेषात्प्रयत्नेन भूयाद्यदांगे विधुः पापयुक् कर्मगेन ॥११॥

दुर्गका भंग नहीं होता । यदि द्विस्वभाव लग्नें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनिका इत्तसाल हो तो दुर्गभंग हो । यदि चर राशिपर हों तो विशेष यत्नसे दुर्गभंग हो । यदि लग्नें पापयुक्त चंद्रमा दशमस्थ पाप ग्रहसे दृष्ट हो तो ॥ ११ ॥

खलेनेक्षितो यत्नतो दुर्गभंगो यदा द्रव्यादयः पापिनः सेन्दवोऽगो ॥

स्मरे वा रणे पार्थिवस्य क्षयः स्याच्छुभस्येक्षणादत्र नूनं जयः स्यात् १२

त्रसे दुर्गभंग हो । यदि दो वा तीन आदि पाप ग्रह चंद्रमाके साथ लग्नें वा

सातवें हों तो युद्धमें राजाका नाश होता है। यदि शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो निश्चयही जय होती है ॥ १२ ॥

शुभैर्मदगैः पूर्णवीर्यैः स्मराम्बास्पदे यायिभिर्नैव भंगश्च भयः ॥

याय्याशु नश्येद्यदांगे च सँस्थाः पृथग्भानुदैत्यारमंदाभिधानाः ॥

शुभाः सप्तमे दुर्गभंगोऽस्य यत्नाच्चरेंजोऽत्र दुर्गेद्ब्रजेत्यक्तदुर्गः १३॥

यदि पूर्णबली शुभ ग्रह मंदगनि होकर सातवें चौथे घरमें प्राप्त हों तो दुर्गभंग नहीं हो, किन्तु यायी राजा भय होकर नाशको प्राप्त हो जाता है। यदि लग्नमें सूर्यसे भिन्न राहु मंगल शनैश्चर और सातवें शुभ ग्रह हों तो गढपतिका दुर्गभंग हो। यदि चर लग्नमें उक्त योग हो तो दुर्गपति किलेको छोडकर भाग जाता है ॥ १३ ॥

भानौ वा भानुसूनौ कुभुवि तनुगते यंत्रपातोऽतिदुर्गा- ।

चेदुग्रः केंद्रगो वेष्टकमनुजपतेर्वधुहा यंत्रघातैः ॥

चेलभेदकेद्रसंस्थः शुभमुतसिलकृद्दुर्गभंगाय सेनौ- ।

जोभेदात्पापलगांतरलवसमघस्राष्टमासैः प्रभंगः ॥ १४ ॥

सूर्य वा शनि वा मंगल लग्नमें हो तो किलेसे यन्त्रोंका अतिपात हो अर्थात् बहुतसे शस्त्रकलें युद्धके लिये चलाई जावें। यदि पाप ग्रह केंद्रमें हो तो घेरनेवाले राजाके बन्दुका यन्त्रपातसे नाश होता है। यदि लग्नेश केंद्रमें स्थित होकर शुभ ग्रहके साथ इत्तसाळ करता हो तो सेनाका बल भेदन होनेसे दुर्गभंग हो। पाप ग्रह; और लग्ने अंतरके अंशोंके समान दिनों तथा आठ महीनेमें दुर्गभंग हो ॥ १४ ॥

तपनेऽनलदाहदुश्च खण्ड्यार्कसुते संगरतः कुजै बुधे च ॥

शनिभौमयुते खलार्दिते वा गढभंगो हि बलेन भेदखंड्योः १५॥

यदि लग्नेश सूर्य केंद्रमें स्थित हो तो अग्निदाहसे, शनैश्चर हो तो खण्डन करनेसे, मंगल और बुध हो तो युद्ध करनेसे, शनि और मंगलसे युक्त वा पाप ग्रहसे पीडित लग्नेश हो तो भेदन तथा खण्डनके बलसे ॥ १५ ॥

राहौ पाखण्डच्छलाभ्यां च भंगः केतौ दुर्गेडेव दुर्ग हि जह्यात् ॥

साकर्षब्जेऽम्बुक्षयाद्दुर्गलाभः साकर्षारे त्रंगे रणाग्न्यन्ननाशात् १६

राहु हो तो पाखण्ड और छलसे दुर्गभंग हो और यदि केतु हो तो दुर्गपति गढको त्याग जाता है। शनियुक्त चंद्र हो तो जलक्षय होनेसे, शनियुक्त मंगल पुरुषराशिक लग्नमें हो तो युद्धकी अभिसे अन्ननाश हो जानेके कारण दुर्गलाभ हो ॥ १६ ॥

तपनदृष्टधनाधिपराज्यता वपुषि वित्तशुभा गढनायकः ॥

बहुसहायबलो यदि सदृशा स्मरपदृष्टहिमोंऽगपमुत्सिली ॥१७॥

यदि सूर्यसे दृष्ट धनेश हो तो राज्य बना रहता है और यदि लग्न द्वितीयमें शुभ ग्रह हों तो बहुत सहायसे गढपति बलवान बना रहता है । यदि सप्तमेशकी शुभ दृष्टिसे दृष्ट चंद्रमा लग्नेशके साथ इत्तसाल-करता हो तो ॥ १७ ॥

अधिगतेद् प्रहिणोति वचोहरं तदुदितं नगरेडभिमानयेत् ॥

हितदृशांगपदृष्टविधुः स्मरेणमुत्सिली यदि पौरवचोहरम् ॥१८॥

यायी राजा अपने दूतको नगरपतिके पास भेजता है और फिर उसके कहे वाक्यको नगरपतिभी मान लेता है । यदि लग्नेशकी मित्रदृष्टिसे दृष्ट चंद्रमा सप्तमेशके साथ इत्तसाल करता हो तो पुरवासी राजा दूतको भेजता है ॥ १८ ॥

अपर ईरितसंधिमुतानयेद्यदि विधुः शनिभौमयुतस्तदा ॥

वचनहृद्रधबंधनिषाडितो यदि सलग्नपवीक्षितसौम्ययुक् ॥१९॥

और उसके सन्धिपत्रको यायी राजा मान लेता है । यदि चंद्रमा शनि और मंगलसे युक्त हो तो वचनका ले जानेवाला दूत वध तथा बंधनेसे पीडित होता है । यदि चंद्रमा लग्नेशसे दृष्ट और शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो ॥ १९ ॥

बहुधनांबरलाभपरोऽथ केंद्रगखलस्तनुलग्नपती यतः ॥

यथयति प्रभयं प्रवदेत्ततः खलु गढस्य पुरादिदिशः क्रमात् २० ॥

बहु धन और वस्त्रका लाभ हो । यदि केंद्रस्य पापग्रह लग्न और लग्नपतिको पीडित करता हो तो पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे गढको अधिक भय पहुँचता है ॥ २० ॥

लग्नेशफलम् ।

लग्नपतिर्यदि षष्ठे रिपुरात्मैव मृत्युभे मृत्तिकृत् ॥

व्ययभे व्ययकृतसततं प्रश्नकृतोऽन्यर्क्षगऽ स शुभः ॥ २१ ॥

यदि लग्नेश छठे हो तो प्रश्नकर्ताका आत्माही शत्रु होता है और आठवें हो तो मृत्यु, वारहवें हो तो व्यय करता है, जो अन्य स्थानगत हो तो शुभ होता है ॥ २१ ॥

सखलो यः खलाक्रांता सूर्ययुक्तश्च यो ग्रहः ॥

हतरश्मिः स नष्टः स्यान्नष्टाङ्गोऽत्राङ्गपः पुमान् ॥ २२-॥

जो ग्रह-पापयुक्त, पापाक्रान्त, सूर्ययुक्त वा हतरश्मि हो वह नष्ट कहाता है । यदि लग्नेश नष्ट हो तो प्रश्नकर्ता पुरुष नष्टांग होता है ॥ २२ ॥

ऋरेण जीवमानो यो राहुपार्श्वे यथा रविः ॥

ऋराक्रान्तः सविज्ञेयः ऋरयुक्तः समंशके ॥ २३ ॥

ऋर ग्रहसे जीवमान जो ग्रह जैसे राहुके समीप सूर्य सो ऋराक्रान्त और ऋर ग्रहसे समान अंशोंपर ॥ २३ ॥

पूर्णया वीक्षितो दृष्ट्या पापदृष्टः स उच्यते ॥

प्रविविक्षुः प्रविष्टो वा सूर्यराशौ विरश्मिकः ॥ २४ ॥

ऋरयुक्त जानना चाहिये । जो पूर्ण दृष्टिसे देखा गया हो सो पापदृष्ट और सूर्यकी राशिमें प्रवेशकी इच्छावाला वा प्रविष्ट ग्रह विरश्मि कहाता है ॥ २४ ॥

अथ वादप्रश्ने विचार ।

विवादे खलोंजो जयीप्रश्नकृतस्यात्मरे चेत्तदन्यो द्वयोर्यद्बलः स्यात् ॥
विवादावसाने बलीयान् जयी चेद्दिहायोदयास्ते स्थितौ ऋरखेटौ ॥१

प्रश्नलग्नमें पाप ग्रह हो तो और प्रश्नकर्त्ता यदि सातवें हो तो प्रतिवादी विवा-
दमें जय पाता है । यदि दोनों स्थान लग्न सप्तममें पाप ग्रह हों तो जिसका बली ग्रह
हो वहही बलवान् होता और विजय पाता है । लग्न और सप्तमको छोडकर अन्य
स्थानोंमें स्थित पाप ग्रह ॥ १ ॥

मिथः शत्रुदृष्टी तदा वादिनौ द्वौ मिथः खड्गपुत्रीप्रहारं विधत्तः ॥

स्मरंगेशचंद्रेशराफे विवादः चिरं द्विस्वभावे स्वगेऽन्येशसंसत् ॥२

परस्पर शत्रु दृष्टिवाले हों तो दोनों वादी आपसमें छुरीका प्रहार करते हैं ।
सप्तमेश लग्नेशका चंद्रमाके साथ इशराफ योग हो तो बहुत समयतक विवाद रहता है
और द्वितीय घरमें द्विस्वभाव राशिपर सप्तमेश लग्नेश हों तो अन्य राजाके स्थानमें
समा हो ॥ २ ॥

अणुमुक्तौ तनुनाथे सबले केंद्रस्थिते बली प्रष्टा ॥

एवं मदपे वादी यदि लग्नास्तेशचंद्रमुत्तसिलम् ॥ ३ ॥

सूक्ष्मभोगवाला अर्थात् जिसके बहुत थोड़े अंशादिक बीते हों ऐसा लग्नेश
बलवान् होकर केंद्रमें स्थित हो तो पुलनेवाला बली, इसी प्रकार सप्तमेश हो तो वादी
बली होता है । यदि लग्नेश सप्तमेशका चंद्रमाके साथ इत्तसाल हो-तो ॥ ३ ॥

तूर्णं झकटकशान्तिर्यद्वा तन्वस्तनाथमित्रदृशा ॥

यदि कर्मेश्वरवर्गे लग्नस्मरनाथयोर्हि मुत्तसिलम् ॥ ४ ॥

शीघ्रही विवादकी शान्तिं हो जाती है । अथवा लग्नेश सप्तमेशकी मित्रदृष्टिसे दशमेशके वर्गमें लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल हो ॥ ४ ॥

यद्वांबुपयुतदृष्टं तत्पमियुग्मं विवादहृन्नृपतः ॥

वक्री तनुमदपत्योः संसदि विबलः स्वपेन यो दृष्टः ॥ ५ ॥

अथवा चतुर्थेशसे युक्त वा दृष्ट लग्नेश सप्तमेश हों तो राजाके द्वारा दोनोंका विवाद शान्त किया जाता है औ लग्नेश सप्तमेश दोनोंमें जो वक्री हो सभामें वहही निर्बल और जो दशमेशसे दृष्ट हो वह सभामें अन्यायी ॥ ५ ॥

संसद्यन्यायी स्याद्यश्चार्केणेत्तसालत्कृतसबली ॥

यः स्वर्क्षोच्चे केंद्राधिपमुत्तसिली नृपः सहायः स्यात् ॥ ६ ॥

और जो सूर्यके साथ इत्तसाल करता हो वह बली होता है । जो अपनी उच्च राशिका होकर केंद्राधिपतिके साथ इत्तसाल करता हो तो उसको सहायक राजा होता है ॥ ६ ॥

चेत्कर्मपे वीर्ययुतेऽर्कपुत्रे क्षोणीजदृष्टे हि चतुष्टयस्थे ॥

न्यायस्तदा धर्मपरो न पूर्णदण्डेन युक्तोऽवनिजे दशस्थे ॥ ७ ॥

यदि शनि दशमेश होकर बलवान् हो तथा मंगलसे दृष्ट केंद्रस्थित हो तो न्याय धर्मयुक्त नहीं होता किन्तु पूर्ण दण्डयुक्त होता है । यदि मंगल, बृहस्पति, शुक्र दशवें हों तो ॥ ७ ॥

ईज्ये सिते धर्मपरश्च पूर्णो न्यायो बुधे राज्यगते विमिश्रः ॥

भानौ सदंड सशुभे हिमांशौ शुभः सदण्डस्त्वशुभेऽशुभ-

श्च ॥ तनुमदनपशीतांश्वीशराफे त्रिवादश्चिरमशुभतनौ खे

भूपसंसत्तनोऽन्या ॥ ८ ॥

धर्मयुक्त पूर्ण न्याय होता है यदि बुध दशवें हो तो मिलाझुला, सूर्य हों तो दण्डसहित, शुभयुक्त चंद्रमा हो तो शुभ, अशुभयुक्त हो तो दण्डसहित और अशुभ होता है । लग्नेश सप्तमेशका चंद्रमाके साथ इशराफ योग हो तो विवाद चिरकालतक रहता है । यदि लग्न दशम स्थान अशुभ ग्रहयुक्त हो तो फिर राजाको दूसरी सभा होती है ॥ ८ ॥

रोगप्रश्ने विचारः ।

वैद्य आद्यं स्वभं रोगवान् भेषजं तुर्यभं रुग् रिपुः सत्पदं य-

च्छुभम् ॥ पापयुक् चेत्रिकस्थो विधुः पापिनः कोशसप्ता-

न्त्यगा रोगिणो मृत्यवे ॥ ९ ॥

पहिला घर वैद्यका, दशवां रोगीका, चौथा औषधीका और छठा रोगका है । जो घर शुद्ध वा शुभग्रहयुक्त हो तो शुभ होता है, यदि पापयुक्त चंद्रमा ४ । ८ । १२ वें हो और पाप ग्रह २ । ७ । १२ वें हों तो रोगीकी मृत्यु होती है ॥ ९ ॥

**यदैवात्र योगे रविलम्बयातो बुधः सप्तमे स्याद्भुतं रोगिमृत्युः। वि-
रोगस्य कष्टं यदांगे खलः स्याद्भिषक् निर्गुणस्तत्कृता रोगवृद्धिः १०**

यदि इसी योगमें सूर्य लग्नमें, बुध सातवें हों तो शीघ्रही रोगीकी मृत्यु होती है और यदि रोगरहित हो तो कष्ट होता है । यदि लग्नमें पाप ग्रह हों तो वैद्य निर्गुणी होता है और उसके इलाजसे रोग बढ जाता है ॥ १० ॥

**शुभेऽस्मिन् सुखी चेतसुखे स्यादसौम्ये भिषग्भेषजैस्तस्य वै
दीर्घरोगः ॥ शुभैरत्र सद्द्वैद्यदत्तौषधीभिः सुखी चेतस्मरे पापि-
नोऽन्यः कुरोगः ॥ ११ ॥**

यदि लग्नमें शुभ ग्रह हो तो सुखी हो जाता है । यदि चौथे घरमें पाप ग्रह हों तो वैद्यकी औषधिसे उसको दीर्घ रोग हो जाता है । यदि चौथे घरमें शुभ ग्रह हों तो सद्द्वैद्यकी दी हुई औषधियोंसे सुखी हो जाता है । यदि सातवें पाप ग्रह हों तो औषधी और वैद्यसे कोई अन्य-रोग पैदा हो जाता है ॥ ११ ॥

**भिषग्भेषजाभ्यां विलोमे सुखी स्यात् खलैः कर्मणै रोगवृद्धिः
स्वबुद्ध्या ॥ कुपथ्याद्विलोमे सुखं चेद्धिमांशुः शुभैर्दृष्टयुक्ते-
द्रगो लग्नेन ॥ १२ ॥**

यदि इसका विलोम हो अर्थात् सातवें शुभ ग्रह हो तो सुखी हो जाता है । जो पाप ग्रह दशवें हों तो अपनी बुद्धिसे कुपथ्य करनेसे रोगवृद्धि हो, यदि विलोम हो तो सुखी हो जाता है । यदि चंद्रमा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त होकर केंद्रस्थ हो और लग्नेशके साथ इत्तसाल करता हो तो ॥ १२ ॥

विधायेत्तसालं हरेद्रोगजालं यदा केंद्रयातो विधुर्लम्बनाथः ॥

शुभैः केवलैर्दृष्टयुग्मकगास्ताष्टपाकेर्विहीनो गदानाशु हन्यात् १३

रोगजालको हर केता है । यदि केंद्रस्थ लग्नेश और चंद्रमा केवल शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तथा वक्री लग्नेश अष्टमेश सूर्यसे रहित हों तो शीघ्रही रोगोंको नाश कर देता है ॥ १३ ॥

चरे वा द्विदेहे तनौ चंद्रलग्नेद् शुभैर्वीक्षितो वा स्वराशोर्हिमांशौ ॥

खभे वा सुखे रोगनाशोऽथ चंद्रांगपत्योः शुभेनेत्तसाले सुदृष्टे ॥१४॥

यादि चर वा द्विस्वभाव लग्नमें चंद्रमा लग्नेश शुभ ग्रहसे दृष्ट हों वा अपनी राशिसे चंद्रमा दशवें वा चौथे हो तो रोगका नाश हो जाता है और चंद्रमा लग्नेशका इत्तसाल शुभ ग्रहने शुभ दृष्टिसे देखा हो ॥ १४ ॥

सुखं रोगहानिर्यदेन्दुः स्वभस्थेत्तसाली रुजं हन्ति वक्रेऽत्र गेहे ॥

विकारं पुनः कल्पयेत्सत्यपथ्याद्यदीदृंगपावष्टमे मृत्युरेव ॥ १५ ॥

तो सुख और रोगहानि होती है । यदि स्वराशिस्थ चंद्रमा शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो रोगका नाश करता है और जो चंद्रमाके घरमें कोई वक्री ग्रह हो तो सत्यपथ्यसेही फिर विकार पैदा कर देता है । यदि चंद्रमा लग्नेश आठवें हों तो मृत्यु होती है ॥ १५ ॥

लग्नाष्टपमुत्तसिले पापदृशा वाष्टायगे लग्नपतौ ॥

निधनस्थे रोगिमृतिश्चेत्सुखादधोऽगपतिः ॥ १६ ॥

लग्नेश और अष्टमेशका इत्तसाल हो अथवा लग्नेश अष्टमेश पाप दृष्टिसे युक्त आठवें ग्यारहवें हों अथवा लग्नपति अकेलाही आठवें हो तो रोगीकी मृत्यु होती है । यदि चौथे घरसे नीचेके स्थानमें लग्नेश हो ॥ १६ ॥

षष्ठे विधुः स्मरेशा कृतमुत्तसिलो मदेड्ढिपौ च मृतिः ॥

लग्नपचंद्रौ केंद्रे निधने वा पापमुत्तसिले ॥ १७ ॥

षष्ठस्थ चंद्रमा सप्तमेशके साथ इत्तसाल करता हो, सप्तमेश छठे हो तो मृत्यु हो । यदि लग्नेश चंद्रमा केंद्रमें वा आठवें स्थित होकर पाप ग्रहोंसे इत्तसाल करते हों ॥ १७ ॥

अस्तमितौ खलदृष्टौ रोगमृत्तिश्चेत्तनौ हिमगुः ॥

मंदो व्ययेऽष्टमेऽर्को भौमः खे रोगिणस्तदा मृत्युः ॥ १८ ॥

अथवा अस्तंगत होकर पाप ग्रहोंसे दृष्ट हो तो रोगीकी मृत्यु हो । यदि चंद्रमा लग्नमें, शनि बारहवें, सूर्य आठवें और मंगल दशवें हो तो रोगीकी मृत्यु हो ॥ १८ ॥

केंद्रे सबले जीवति नो चेन्नो वै यदा खलाः सर्वे ॥

तन्वंबुव्ययमृतिधीष्वायुर्नाशो यदा खलाः केंद्रे ॥ १९ ॥

केंद्रोंमें बलवान् शुभ ग्रह हों तो जीवता है । यदि न हो तो नहीं जीवता है । यदि सब पाप ग्रह १ । ४ । १२ । ८ । ९ वें हों तो आयुका नाश होता है । यदि पाप ग्रह केंद्रोंमें ॥ १९ ॥

पृष्टादयेऽष्टमस्थे चंद्रे मृत्युर्यदाष्टमांगमदे पापाः ॥

शुभा विवीर्या रोगिमृत्तिश्चेद्विधुः सुखाष्टमगः ॥ २० ॥

पृष्ठोदय राशिपर अष्टमस्थ चंद्रमा हो तो मृत्यु हो । यदि अष्टम, ळय और सप्तम घरमें पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह निर्बली हों तो रोगीकी मृत्यु हो । यदि चंद्रमा चौथे तथा आठवें ॥ २० ॥

पापद्वयमध्यगतो मृत्युश्चेज्जन्मभे शनिर्विसौम्यदृशा ॥

पापेक्षितो मृतिश्चेन्निघने यज्जन्मभं खलैर्दृष्टम् ॥ २१ ॥

स्थित होकर दो पाप ग्रहोंके मध्यमें स्थित हों तो मृत्यु हो । यदि जन्मराशिस्य शनिको पाप ग्रह देखते हों और शुभ ग्रह न देखते हों तो मृत्यु हो । यदि आठवें घरमें जिसकी जन्मराशि पाप ग्रहोंसे दृष्ट हो तो ॥ २१ ॥

तस्य मृतिर्यदि चंद्रो मंदकुजेर्क्षे तनौ खले मृतिगे ॥

मंदे कुजे भृगौ वा सप्तमगे निर्बलैः शुभैर्मृत्युः ॥ २२ ॥

उसकी मृत्यु और यदि शनि मंगलकी राशिपर चंद्रमा और ळयमें पाप ग्रह, आठवें शनि मंगल, सातवें शुक्र और शुभ ग्रह निर्बल हों तो मृत्यु होती है ॥ २२ ॥

केंद्रे त्रिकोणेषु शुभाः सदंगं सद्दीक्षितं पूर्णविधुश्च केंद्रे ॥

त्रिलाभयोर्वा सुखमेति रोगी यदा तनौ वित्सकलश्च चंद्रः ॥

केंद्रे स्थितौ शुक्रगुरुखलाश्च षडायगाः सौख्यमुपैति रोगी ॥ २३ ॥

यदि १ । ४ । ७ । १० । १२ । ५ में शुभ ग्रह हों, शुभ ळयको शुभ ग्रह देखते हों, पूर्ण चंद्रमा १ । ४ । ७ । १० । ३ । ११ में हो तो रोगी सुखी हो जाता है । यदि ळयमें बुध, पूर्ण चंद्रमा, केंद्रोंमें शुक्र बृहस्पति, पाप ग्रह छठे ग्यारहवें हो तो रोगी सुखी हो जाता है ॥ २३ ॥

अथ देवादिदोषज्ञानं संततवाधादिषु ।

रवौ हि देवा हिमगौ च देव्यः शुक्रेऽम्बुदेव्यः पितरो गुरौ च ॥

शाकिन्य आरे कुलजास्तथा ज्ञे भूता शनौ गोत्रभवाश्च राहौ ॥ १ ॥

बारहवें वा आठवें सूय हों तो देव, चंद्रमा हो तो देवी, शुक्र हो तो जलदेवी, बृहस्पति हो तो पितर, मंगल हो तो शाकिनी, बुध हो तो कुलके भूत, शनि हो तो अपने गोत्रकी देवी और राहु हो तो ॥ १ ॥

प्रेता व्ययाष्टोपगते प्रबाधां कुर्वन्ति चोच्चर्क्षगते प्रवीर्ये ॥

साध्यां हिमांशौ च कुजे विवीर्ये साध्यां यदा केंद्रखला सवीर्याः ॥

बाधामसाध्यां प्रददत्यपापाः केंद्रे प्रवीर्या जपसाध्यतां च ॥ २ ॥

प्रेत वाधा करते हैं । उच्च राशिका बलवान् चंद्रमा हो तो साध्य तथा मंगल निर्बली हो तो साध्य बाधा करता है । यदि केंद्रोंमें पाप ग्रह बलवान् हों तो असाध्य और केंद्रोंमें शुभ ग्रह बलवान् हों तो जपसाध्य वाधा करते हैं ॥ २ ॥

मित्रेण प्रीतिर्वा संगमो भविष्यति न वेति प्रश्ने विचारः ।

लग्नभवाधिपमुत्तसिले सति संगमतेऽप्यथवेष्टृशा ॥

तनुपे भवगे भवपे तनुगे हितता यदि केंद्रगयोर्ग्रहयोः ॥१॥

लग्नेश और एकादशेशका इत्तसाल हो अथवा दोनोंमें परस्पर मित्रदृष्टि हो तो मित्राप होवेगा और लग्नेश ग्यारहवें एकादशेश लग्नमें हो अथवा केंद्रस्थ होकर दोनोंमें परस्पर मित्रदृष्टि हो तो ॥ १ ॥

हितदृक् हितता यदि कंटकतो द्वितये च तयोः सुदृढा प्रथमा ॥

हितता च ततस्त्रितये स्थितयोर्हितता प्रभविष्यति पूर्णतरा ॥२॥

मित्रता हो । यदि केंद्रोंसे दूसरे घरमें स्थित होकर दोनों मित्रदृष्टि हो तो पहिली मित्रता दृढ हो जावेगी और यदि केंद्रोंसे तीसरे घरमें स्थित हो तों मित्रता पूर्णतर होवेगी ॥ २ ॥

गुप्तकार्यप्रश्ने विचारः ।

लग्नेशि चंद्रे च शुभेत्तसाले वा सदृशा पूर्णबले च केंद्रे ॥

केंद्राद्वितीयेऽपि च गुप्तसिद्धिर्नापोक्लिमस्थे त्वशुभेत्तसाले ॥ १ ॥

लग्नेश और चंद्रमाका शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल हो अथवा केंद्रोंमें शुभ दृष्टिसे पूर्ण बलवान् हों अथवा केंद्रसे दूसरे स्थानमें हों तो गुप्तसिद्धि और आपोक्लिम स्थानमें स्थित होकर अशुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करते हों तो सिद्धि नहीं होती है ॥ १ ॥

व्ययप्रश्ने विचारः ।

परिणयकुटुंबमित्राद्यर्थं सौम्यैः खलैर्नृपाग्निचौरार्थम् ॥

भौमे व्यभिचारार्थं सौम्ये वाणिज्यगोपदाश्वार्थम् ॥ १ ॥

यदि वारहवें घरमें शुभ ग्रह हों तो विवाह, कुटुंब और मित्रादिकोंके अर्थ, पाप ग्रह हों तो राजा, अग्नि और चौरोंके अर्थ, मंगल हो ती व्यभिचारके अर्थ, बुध हो तो वाणिज्य, गोपद और अश्वोंके अर्थ ॥ १ ॥

जीवे धर्माय भृगौ पत्यर्थं भास्करे नृपस्यार्थम् ॥

चंद्रे केलिसुखार्थं शन्यग्वोरन्त्यभे व्ययो नेष्टः ॥ २ ॥

बृहस्पति हो तो धर्मके अर्थ, शुक्र हो तो पतिके अर्थ, सूर्य हो तो राजाके अर्थ, चंद्रमा हो तो श्रीढासुखके अर्थ और शनि राहु हो तो नेष्ट व्यय हो ॥ २ ॥

स्वामिभृत्यप्रश्ने विचारः ।

तनुधनुमृतिसप्तमेषु सौम्यैः पतिभृतकौ धनिना सुखार्थयुक्तौ ॥

इह पापिभिरीशभृत्यनाशो यदि शीर्षोदयभं शुभेक्षितं वा ॥१॥

१।२।८।७ इन घरोंमें शुभ ग्रह हों तो स्वामी और भृत्य किसी धनी पुरुषके द्वारा सुख और अर्थसे युक्त होते हैं और इनही पूर्वोक्त घरोंमें पाप ग्रह हों तो स्वामी और नौकरका नाश होता है । यदि शीर्षोदय राशि शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो ॥ १ ॥

धनमृत्युरिगैः शुभैस्त्रिलाभारिषु पतितेभृतकस्य सौख्यलाभौ ॥

तनुकोशमदाष्टमेषु पापाः क्रमतश्चेद्ध्ययविभ्रमार्तिनाशाः ॥ २ ॥

अथवा २।८।६ में शुभ ग्रह और ३।११।६ में पाप ग्रह हों तो भृत्य-कको सौख्य और लाभ होता है । १।२।७।८ में पाप ग्रह हों तो क्रमसे व्यय, विभ्रम, दुःख और नाश होते हैं ॥ २ ॥

प्रभोः कीदृश चित्तमिति प्रश्ने विचारः ।

सौम्येन्दुदृष्टौ तनुसप्तपौ चेत्पापैर्विना भूमिपतिप्रसादः ॥ १ ॥

यदि लग्नेश और सप्तमेशको शुभ ग्रह और चंद्रमा देखते हों और पाप ग्रह न देखते हों तो भूमिपतिकी प्रसन्नता जाननी ॥ १ ॥

अयमन्यो वा प्रभुर्भन्य इति प्रश्ने विचारः ।

यदांगपः केंद्रगतः षडीशावान्त्याधिनाथेन कृतेत्तसालः ॥

परेश्वरोऽर्थाय विलोमतो नो चेद्धर्मसंस्थे नहि वा त्रिगेन ॥१॥

लग्नेश्वरो मुत्तसिलं तनोति वा लग्नगोऽन्यः प्रभुरर्थदः स्यात् ॥

पापान्तरस्थोऽस्तगतः खलेत्तसाली हि केंद्रेन परः प्रभुः स्यात् ॥२॥

यदि केंद्रगत लग्नेश षष्ठेश वा द्वादशेशके साथ इत्तसाल करता हो तो परप्रभु अर्थदायक है और जो विलोम हो तो परप्रभु अच्छा नहीं है । यदि नवमेश वा तृती-येशके साथ लग्नेश इत्तसाल करता हो अथवा लग्नेमें स्थित हो तो दूसरा प्रभु अर्थदा-यक है और यदि लग्नेश पाप ग्रहोंके मध्यमें हो वा केंद्रस्थ होकर पाप ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो दूसरा प्रभु अच्छा नहीं है ॥ १ ॥ २ ॥

अथ स्वपतिः शुभो वाऽन्यपतिरिति प्रश्ने विचारः ।

तनुपे बलिनी शुभेक्षितयुक्ते स्वोच्चभगे च चतुष्टयसंस्थे ॥

शीतगुमुत्तसिले निजनाथोऽर्थप्रद एव यदा मदनेशः ॥ १ ॥

लग्नेश बलवान् होकर शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो, अपनी उच्चराशिका होकर केंद्रमें स्थित हो, चंद्रमाके साथ इत्तसाल करता हो तो स्वपति अर्थका देनेवाला है । यदि सप्तमेश ॥ १ ॥

स्वोच्चभकेंद्रगतः शुभवीक्षायोगगतो विधुमुत्तसिली च ॥

अन्यपतिः फलदो यदि लग्नेद् मुत्सरिफी विधुना फलदोऽन्यः ॥२

अपनी उच्चराशिगत होकर केंद्रस्थ हो, शुभ ग्रहोंसे दृष्ट तथा चंद्रमाके साथ इत्तसाल करता हो तो अन्य पति फलदायक होता है । यदि लग्नेश चंद्रमाके साथ इशराफ करता हो तो अन्य पति फलदायक होता है ॥ २ ॥

सप्तपतिर्विधुमुत्सरिफी चेत्स्वीयपतिः फलदो यदि लग्ने ॥

शीतकरे खलमुत्सरिफेऽन्यो राट् फलदः शुभमुत्सरिफे नो ॥३॥

यदि सप्तमेश चंद्रमाके साथ इशराफ करता हो तो स्वपति फलदायक होता है । यदि लग्ने चंद्रमा पाप ग्रहके साथ इशराफ योग करता हो तो अन्य पति फलदायक होता है और जो शुभ ग्रहके साथ इशराफ योग करता हो तो अन्य पति फलदायक नहीं होता ॥ ३ ॥

सेन्दुशुभैस्तनुगैर्निजभूपः सप्तमैरपरोऽर्थितदः स्यात् ॥

लग्नपतिस्तनुगो निजभर्तार्याय च सप्तपतिर्मदनेऽन्यः ॥ ४ ॥

चंद्रमायुक्त शुभ ग्रह लग्नेमें हों तो स्वपति और जो सातवें हों तो अन्य पति अर्थका देनेवाला हाता । लग्नेश लग्नेमें हो तो निज भर्ता अर्थका देनेवाला और सप्तमेश सप्तम हो तो अन्य राजा फलदायक होता है ॥ ४ ॥

एवं पदगृहवाहनादिप्रश्ने विचारणीयः ॥

इसी प्रकार पद, घर, वाहनादिप्रश्ने विचारना चाहिये ॥

वाटिकाक्षेत्रादिकामप्रश्ने विचारः ।

तनौ वारिभे सौम्यखेटैश्च केंद्रे विपापैः स्वभोच्चादिगैः सद्युतीक्षे ॥

दधानैः सुखं कर्षकस्यान्नलाभो यदागे खलो नाशिरल्पा सबाधम् ॥१॥

लग्नेमें वा चौथे शुभ ग्रह पाप ग्रहोंसे रहित केंद्रमें स्थित होकर अपनी उच्चादि राशिके हों तथा शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हों तो खेती करनेवालेको अन्नशाम होता है । यदि लग्ने पाप ग्रह हों तो प्राप्ति नहीं होती । यदि दोषी तो बाधासहित थोड़ी होवे, राजा वा चोरसे हानि पहुँचे ॥ १ ॥

नृपाचौरतोऽथोऽम्बुनि क्रूरयुक्ते कृषिं सन्त्यजेद्राजचौरादिभीत्या ॥
खलैः सप्तमस्थैरवृष्ट्यान्नशोषो यदालपं भवेदन्नमीशस्य भीत्या ॥ २ ॥

जो चौथा घर क्रूरयुक्त हो तो राजा चौरादिके भयसे खेतीको छोड़ देवे । यदि सातवें घरमें पाप ग्रह हों तो वर्षा न होनेसे अन्न सूख जावे और जो कुछ थोडासा होवे उसको राजाकी भयसे ॥ २ ॥

तथा वैरिचौरा हरन्ति द्रुतं चेद्दशेशे खससाष्टगे सौम्ययुक्ते ॥

शुभालोकिते वाटिकाक्षेत्रसिद्धिः खपेशे शुभे वक्रियुक्ते च वक्रे ३

वैरी और चोर छीन ले जावें । यदि दशमेश १० । ७ । ८ इन घरोंमें शुभ ग्रहयुक्त वा दृष्ट हो तो वाटिका क्षेत्रादिकी सिद्धि होती है और यदि दशमेश शुभ ग्रह हो और वक्री ग्रहसे युक्त हो वा आपही वक्री हो ॥ ३ ॥

भवेद्वृक्षकक्षेत्रनाशोऽथ तस्मिन्न वक्रेऽस्तगे जीर्णवृक्षाःशुभाःस्युः ॥

तनौ मार्गगा बालवृक्षाःशुभाः स्युश्चरे खेशदृष्टे द्रुमाणां क्षयः स्यात् ४

तो वृक्ष क्षेत्रका नाश हो । यदि वह दशमेश वक्री न होकर अस्तका हो तो पुराने वृक्ष अच्छे रहते हैं और लग्नमें शुभ ग्रह दशमेश मार्गी हो तो बालवृक्ष अच्छे बने रहते हैं अर्थात् फलदायक होते हैं और चर लग्न दशमेशसे दृष्ट हो तो वृक्षांका नाश होता है ॥ ४ ॥

भूभाटकप्रश्ने विचारः ।

तन्वम्बुखास्तेषु शुभैर्धनासिर्भूभाटकादत्र खलैर्न चैव ॥ १ ॥

१ । ४ । १० । ७ इन घरोंमें शुभ ग्रह हों तो भूभाटकसे धनकी प्राप्ति होती है और यदि पाप ग्रह हों तो नहीं होती है ॥ १ ॥

भृत्यचतुष्पदप्रश्ने विचारः ।

षष्ठेश्वरो लग्नपचंद्रमोभ्यां यदेत्तसाली रिपुपोंऽगगो वा ॥

षष्ठस्थितौ वा रिपुलग्ननाथौ शुभेक्षितौ वाहनभृत्यलब्धिः ॥१॥

यदि षष्ठेश और लग्नप चंद्रमाके साथ इत्तसाल करता हो अथवा षष्ठेश लग्नमें हो अथवा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट षष्ठेश लग्नप लग्नमें स्थित हों तो वाहन और भृत्यकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

अङ्गाङ्गपौ वीर्ययुतौ तदानीं भृत्याश्च वाहासिरथ स्मरे च ॥

स्मरेश्वरो वीर्ययुतो हि वाहभृत्यादिलाभो नियतं प्रदिष्टः ॥ २ ॥

यदि लग्न और लग्नेश बलवान हों तो वाहन और भृत्यकी प्राप्ति और जो सातवें घरमें सप्तमेश बलवान हो तो वाहन भृत्यका लाभ निश्चयही होता है ॥ २ ॥

बंधमोक्षप्रश्ने विचारः ।

केन्द्रे केन्द्राधिनाथेन तनुपस्येत्तसालतः ॥

बंधमोक्षो न लग्नेशो लग्ने केंद्रखलाश्चिरात् ॥ १ ॥

केंद्रमें केन्द्राधिनाथके साथ लग्नेशका इत्तसाल योग होनेसे बंधा हुआ नहीं छूटता और लग्नेश लग्नेमें, पाप ग्रह केंद्रमें हो तो बहुत कालमें छूटता है ॥ १ ॥

सतामित्तसालश्च कंबूलयोगो यदा कंटके बन्धमोक्षश्चिरात्स्यात् ॥

यदापोक्लिमे लग्नपोऽन्त्येशपापेक्षितो दीर्घबन्धो यदा लग्नपेन्दू २

यदि केंद्रमें शुभ ग्रहोंका इत्तसाल और कंबूल योग हो तो बंधा हुआ बहुत कालमें छूटता है । यदि आपोक्लिम स्थानमें लग्नेशको पाप द्वादशेश देखता हो तो बहुत कालतक बंधन रहे । यदि लग्नेश और चंद्रमा ॥ २ ॥

शुभैः संयुतो स्याच्छुभं केंद्रसस्थांगनाथेत्तसाले न मोक्षोऽर्थितोऽपि ॥
यदा केन्दगो लग्नपस्रन्त्यधमारियातेत्तसाली हठाहंन्धमोक्षः ॥३॥

शुभ ग्रहोंसे युक्त हों तो शुभ फल होता है और यदि केन्द्रस्थ लग्नेशके साथ चंद्रमाका इत्तसाल हो तो मोक्ष चाहनेपरभी नहीं छूटता । यदि केंद्रस्थ लग्नेश ३ । १२ ९ । ६ स्थानस्थित ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो हठ करनेसे सुखपूर्वक बंधनसे छूटता है ॥ ३ ॥

सुखेनाथ चंद्रांगनाथेत्तसाले हि कष्टादथाष्टेशपापांगपत्योः ॥

सुखे मुत्तिसलं बन्धनान्मृत्युरेवेत्तसाले खलेन्द्रोः सुखे मृत्युरेव ॥४॥

अथवा चंद्रमा और लग्नेशका इत्तसाल हो तो कष्टसे छूटता है, अथवा अष्टमेश पाप ग्रह और लग्नेशका चौथे स्थानमें इत्तसाल हो तो बंधनसे मृत्यु और चौथे घरमें पाप ग्रह और चंद्रमाका इत्तसाल हो तोभी मृत्यु हो ॥ ४ ॥

मृतीशक्षपानाथयोरित्तसाले मृतिर्वांगनाथेऽस्तगे क्रूरदृष्टे ॥

मृतिश्चैवमारे विनिष्कास्य गुप्तेः समाहन्यते चेद्रपुःशीतरश्मी ॥५॥

अष्टमेश और चंद्रमाका इत्तसाल हो तो मृत्यु अथवा लग्नेश अस्तंगत वा क्रूर दृष्ट हो तो मृत्यु होती है । इसी प्रकार मंगलभी अस्तका वा क्रूर ग्रहसे दृष्ट हो तो रक्षास्थानसे निकालकर मारा जाता है । यदि लग्नेश और चंद्रमा ॥ ५ ॥

चरे बंधमोक्षश्च कर्के तु कष्टाचिराद्बन्धमोक्षोऽथ मत्स्ये हिमांशौ ॥
विलम्बाद्रिपुत्वं स्थिरेंदौ चिरात्स्याद्विदेहे न मोक्षो भवेद्बंधकाले ॥६॥

चर राशिके हों तो बंधा हुआ छूट जाता है । यदि कर्क राशिके हों तो बहुत दिनोंमें कष्टसे छूटता है और जो मीन राशिका चंद्रमा हो तो विलंबसे छूटता है । यदि स्थिर राशिका चंद्रमा हो तो बहुत कालपर्यन्त शत्रुता रहती है । यदि द्विस्वभाव राशिका हो तो बंधनके समय नहीं छूटता किन्तु अत्यधिक कालमें छूटता है ॥ ६ ॥

चंद्रेंऽगपे वा नवमे तृतीयसंस्थेत्तसाले सुखतः प्रमोक्षः ॥

चंद्रेंऽगपे वा सहजे त्रिधर्मनाथेत्तसाले सुखतः प्रमोक्षः ॥ ७ ॥

अथवा नवमस्थ चंद्रमा वा लग्नेशका तृतीयस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल हो तो सुखपूर्वक छूट जाता है । अथवा तृतीयस्थ चंद्रमा वा लग्नेशका तृतीयेश वा नवमेशके साथ इत्तसाल हो तो सुखसे छूट जाता है ॥ ७ ॥

चेत्खेऽन्त्यलभाधिपमुत्तसीलं यमस्य गेहं समुपैति बद्धः ॥

यदाङ्गराण्मुत्तसिली त्रिपेन धर्मेश्वरेणान्त्यगृहे स नश्येत् ॥ ८ ॥

यदि दशवें घरमें द्वादशेश और लग्नेशका इत्तसाल हो तो बंधा हुआ पुरुष यमराजाके घर पहुंचता है और यदि बारहवें घरमें लग्नेश तृतीयेश और धर्मेशके साथ इत्तसाल करता हो तो बंधा हुआ जन नाशको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

स्वर्क्षे खगते चंद्रे लग्नपतौ त्रिस्थमुत्तसिले मुक्तिः ॥

स्यादथ बन्ध्वास्पदगतमुत्तसिलं यदा तृतीयचद्रस्य ॥ ९ ॥

दशवें घरमें अपने राशिके चंद्रमा और लग्नेश तृतीयस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल करते हों तो बंधनसे छूट जाता है और यदि शनिसे युत दृष्ट तृतीयस्थ चंद्रमाका ॥९॥

शनियुतदृष्टस्य चिरं गुप्तिस्थितिर्ङ्गकष्टमाधिरथो ॥

कुजयुतदृष्टे केंद्रे चंद्रे घातश्च बन्धने पीडा ॥ १० ॥

चतुर्थस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल हो तो बहुत कालपर्यन्त हवालातमें रहकर शरीर-कष्ट और रोग भोगता है, अथवा केंद्रस्थित चंद्रमाको मंगल देखता हो तो बंधनमें घात और पीडा होती है ॥ १० ॥

यदाङ्गराणिमत्रदृशाङ्गनेशं संवीक्षते न्यायकरस्तदेशः ॥

अरीक्षणो ना यदि लग्ननाथो दुश्चिक्वधर्माधिपतीत्तसाली ॥११॥

यदि लग्नेश मित्रदृष्टिसे सप्तमेशको देखता हो तो राजा न्याय करनेवाला जान ना । यदि पुरुष ग्रह लग्नेश शत्रुदृष्टिसे देखनेवाला होकर तृतीयाधिपति तथा धर्माधिपतिके साथ इत्तसाल करता हो तो ॥ ११ ॥

स्वयं हि मोक्षः स चतुष्टये चेच्चिराद्धनेशोऽम्बुनि दीर्घबन्धः ॥
सप्ताधिपः सौम्यखगः सुदृष्ट्या लग्नेशदर्शी यदि बंधदायी ॥१२॥

आपहीसे छूट जाता है । यदि वह लग्नेश केंद्रमें हो तो वह काळमें छूटता है । यदि द्वितीयेश चौथे घरमें हो तो दीर्घकाळ बंधन रहता है । यदि शुभ ग्रह सप्तमेश शुभ दृष्टिसे लग्नेशको देखता हो तो बंधनका देनेवाला होता है ॥ १२ ॥

दाक्षिण्यकृच्चद्रुभेन चंद्रो विकेन्द्रगः सौम्यशशीशदृष्टः ॥

मोक्षः सुखं चेत्स्मरपो नवस्थोऽस्ते सौम्यदृष्टिः स्वयमेव नश्येत् १३

यदि चंद्रमा वृहस्पतिकी राशिसे दक्षिणता करनेवाला अर्थात् दाहिनी तर्फ हो और केंद्ररहित स्थानमें स्थित हो, शुभ ग्रह तथा अपने स्वामीसे दृष्ट हो तो सुखपूर्वक छूट जाता है । यदि सप्तमेश नौवें घरमेंही और सातवें घरपर शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो आपही नष्ट हो जाता है ॥ १३ ॥

दिनर्क्षतः चतुर्भान्तर्बद्धर्क्षं बद्धनाशनम् ॥

ततस्त्रिभान्तर्मासेन तन्मोक्षश्च भवेत्ततः ॥ १४ ॥

अथवा दिनके नक्षत्रसे लेकर चार नक्षत्रोंके मध्यमें बद्ध पुरुषका जन्मनक्षत्र हो तो बंधे हुएका नाश और उन चार नक्षत्रोंसे आगेके तीन नक्षत्रोंके अन्तर्गत हो तो छूट जाता है ॥ १४ ॥

आचतुर्भं तस्य मृतिस्ततो दण्डेन चात्रिभम् ॥

तन्मोक्षश्च ततो नूनमाचतुर्भं रिपुक्षयः ॥

ततस्त्रिभान्तरा मासचतुष्केन स मुच्यते ॥ १५ ॥

इन तीनसे आगे चार नक्षत्रोंतक हो तो मृत्यु और उससे आगे तीन नक्षत्रोंपर्यन्त हो तो दण्ड पाकर लूट जाता है तथा इससे आगे चार नक्षत्रतक हो तो शत्रुका नाश हो और इससे आगे तीन नक्षत्रोंके मध्यमें हो तो चार महीनेमें छूट जाता है ॥ १५ ॥

ततश्चतुर्भमध्ये हि तन्मृतिस्तदनन्तरम् ॥

आभत्रयं तस्य मोक्षो बलेनैतद्वदेत्सुधीः ॥ १६ ॥

१ दिनके नक्षत्रसे अर्थात् सूर्यके नक्षत्रसे गिनना चाहिये ।

इसके आगेके चार नक्षत्रोंमें हो तो मृत्यु, इसके बाद तीन नक्षत्रोंमें हो तो मोक्ष नाम छूट जाता है । बुद्धिमानको उचित है कि इसका फल, बल विचार कर कहे ॥ १६ ॥
बद्धमोक्षचक्रम् ।

४	३	४	३	४	३	४	३
नाश	मोक्ष	मृत्यु	दण्डन मोक्ष	शुभनाश	मासच- तुष्केन मोक्ष	मृत्यु	मोक्ष

सभायां नृपेण गुप्तदत्तो लेखः कीदृश इति प्रश्ने विचारः ।

विधुर्यस्येशराफेऽस्ति केंद्रे स्वोच्चर्क्षगः स चेत् ॥

नृपो लेखप्रदोऽसौ चेदुपकेन्द्रे च्युतः पदात् ॥ १ ॥

चंद्रमा जिस ग्रहके इशराफमें हो और वह चंद्रमा यदि केंद्रमें अपनी उच्च राशिका हो तो उस लेखका देनेवाला राजाही है और यदि चंद्रमा केंद्रके समीपवर्ती स्थानोंमें हो तो लेख देनेवाला अपने पदसे भ्रष्ट है अर्थात् राज्यच्युत है ॥ १ ॥
लभेशे शशिनि निजोच्चगे सुलेखो लभेन्दू स्थिरग्रह आदरेण राज्ञा ॥
संदिष्टो यदि तनुशीतगुर्निजेशा सन्दृष्टः कपटलिपिर्निरर्थकश्च ॥२॥

यदि लग्नपति चंद्रमा अपनी उच्च राशिका हो तो राजाने अच्छा लेख दिया और जो लग्न चंद्रमा स्थिर राशिके हों तो राजाने आदरसे किसी कामके लिये आज्ञा दी है और यदि लग्न तथा चंद्रमा अपने स्वामीकी शुभ दृष्टिसे दृष्ट हों तो कपटका लेख और निरर्थक है ॥ २ ॥

पापेन्दौ खलमुत्सारिफे कुवृत्तः पूर्णेदौ शुभकृन्मुत्सारिफे

भवेत्सुवृत्तः ॥ चेलभे विधुविधुजेशराफयोगो लेखो वै

कुशलहरोऽन्यथाऽन्यथा च ॥ ३ ॥

पाप चंद्रमा शुभ ग्रहके इशराफमें हो तो लेखमें कोई निन्दित वृत्तान्त है और यदि चंद्रमा शुभ ग्रहके इशराफमें हो तो अच्छा वृत्तान्त है । यदि लग्नमें चंद्रमा और बुधका इशराफयोग हो तो लेख अपनी कुशलका नाशक है और इस योगसे अन्यथा हो तो कुशलकारक है ॥ ३ ॥

अनिष्टयोगेऽत्र तनावनिष्टो लेखो विशेषादशुभाय नूनम् ॥

कोशादिभे यत्र गते हिमांशौ बुधेशराफोऽस्ति च तद्ग्रहस्य ॥

वार्त्तानुकूला कथिता च शस्त्रा शुभेक्षणात्सान च पापदृष्टेः ॥४॥

यादि लग्ने अनिष्ट योग हो तो लेखभी अनिष्ट है और विशेषकरके अशुभ फलदायक है । यादि दूसरे घरसे आदि लेकर जिस किसी घरमें चंद्रमाके साथ बुधका इशराफ योग हो तो उसी घरकी वार्ता अनुकूल कही गई है और उस घरको शुभ ग्रह देखते हों तो अतिनेष्ट वार्ता जाननी ॥ ४ ॥

रात्रो ग्रामादिमुद्रालिखितप्राप्तप्रश्ने विचारः ।

यदार्कविद्ध्यां दशपेत्तसालस्तदा समुद्रालिखितस्य लाभः ॥५॥

यादि सूर्य बुधके साथ दशमेशका इत्तसाल योग हो तो मुहरसहित लिखी हुई वस्तुका लाभ होगा ॥ ५ ॥

यस्मै लेखो दत्तः संप्राप्तस्नेन मानितो न वेति प्रश्ने विचारः ।

विधुलग्नपमुत्सिली स्मेद् चेद्यदि वा लग्नपशीतगू कलत्रे ॥

ननु यस्मै प्रहितः स तेन लब्धो यदि चंद्रोदयपस्मेद् कबूलम् ॥

शुभमित्रदृशेक्षितं स लेखः प्रहितस्तत्र गतः स मानितश्च ॥१॥

चंद्रमा और लग्नेशके साथ यादि सप्तमेश इत्तसाल करता हो अथवा लग्नेश और चंद्रमा सातवें घरमें हो तो जिसके वास्ते लेख भेजा गया था उसने वह लेख पा लिया है ऐसा कहे । यादि चंद्रमा और लग्नेशके साथ सप्तमेशका कंबूल योग शुभ ग्रहकी मित्रदृष्टिसे दृष्ट हो तो जो लेख भेजा गया था सो वहां पहुंच गया और उस लेखेवालेने मान लिया है ऐसा बनावे ॥ १ ॥

पत्रोत्तरप्रश्ने विचारः ।

ज्ञेन्दू यदीत्तसाले स्वोच्चभगौ शुभौ शुभोत्तरं पत्रम् ॥ २ ॥

यादि बुध और चंद्रमा शुभ होकर इत्तसालयोगमें हो तथा अपनी उच्च राशिकें हों तो उत्तरपत्र शुभ जानना ॥ २ ॥

लेखग्राही कदैष्यतीति प्रश्ने विचारः ।

लग्नेश्वरे शीतकरेऽथ केन्द्राद्दिनिर्गते सप्तपतीशराफे ॥

मार्गं वहत्याशु चरे स्थिरे नो सौम्यैर्ग्रहैर्दित्रिगतैस्तथैति ॥ १ ॥

लग्नेश वा चंद्रमा केंद्रसे निकलकर सप्तमेशके इशराफयोगमें हो तो लेखग्राही मार्गमें चल रहा है यादि चर राशिका हो तो बहुत शीघ्र आता है, स्थिरका हो तो नहीं आवेगा और शुभ ग्रह दूसरे तीसरे घरमें हों तो आ रहा है ॥ १ ॥

वार्त्तयं सत्या मिथ्या वेति प्रश्ने विचारः ।

शुभेत्तसाले विधुलग्ननाथौ केन्द्रे ससौम्यौ किल सत्यवार्ता ॥

विपर्ययेणात्र मूषैव वार्ता पापस्य योगे त्वशुभाऽन्यथान्या ॥१॥

यदि शुभ ग्रहके इत्तसालमें चंद्रमा और लग्नेन केंद्रमें शुभ ग्रहके साथ हों तो निश्चयही वार्त्ता सत्य है और यदि इस योगसे विपर्यय हो तो झूठी है और पापग्रहका योग हो तो अशुभ है और यदि इससे अन्य प्रकारका योग हो तो कोई अन्य वार्त्ता है ॥ १ ॥

लभे विधुः स्यात्प्रबलः खगेनेत्तसालकृचेत्प्रकटैव वार्त्ता ॥

आविर्भविष्यत्युदुयोपगेनांबुस्थेन गुता प्रकटास्तगेन ॥ २ ॥

लग्नमें बलवान् चंद्रमा यदि दशमस्थ ग्रहक साथ इत्तसाल करता हो तो वार्त्ता प्रकटही है और लग्नस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो वार्त्ता प्रकट हो जावेगी, यदि चतुर्थस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो वार्त्ता गुप्त रहेगी और जो सप्तमस्थ ग्रहके साथ इत्तसाल करता हो तो प्रकट हो जावेगी ॥ २ ॥

शीतांश्ववस्थाबलतो ब्रूयाद्वार्त्ताविनिर्णयम् ॥ ३ ॥

चन्द्रमाकी अवस्थाके बलसे वार्त्ताका निर्णय कहे ॥ ३ ॥

उत्पातभयनाशो भविष्यति न वेत्ति प्रश्ने विचारः

कृतशुभमुत्सिले तनुनाथे केंद्रगते सबले शुभदृष्टे ॥

नैव भयं यदि पामरभस्यः साऽशुभदृक् तनुपो बहुभीतिः ॥ १ ॥

यदि शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करनेवाला लग्नेन बलवान् हाकर केंद्रमें स्थित हो और शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो भय नहीं होगा । यदि लग्नेन पाप ग्रहकी राशिपर स्थित तथा अशुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो बहुत भय होगा ॥ १ ॥

खलोदयपरन्धराणमुत्सिलं यदा कण्टके मृतेर्भयमिहैव चेद्विधु-

खलर्क्षलमेशयोः ॥ भवेन्मुत्सिलं संबंधुहितरुग् यदा वित्तराद्

खलोदयपमुत्सिली भवति कण्टके वित्तराद् ॥ २ ॥

यदि पाप लग्नेन और अष्टमेशका इत्तसाल केंद्रमें हो तो मृत्युका भय होगा और इसी योगमें चंद्रमा और पापराशिस्थ लग्नेनका इत्तसाल योग हो तो बंधुसहित भिन्नको रोग होगा ऐसा कहे । यदि द्वितीयेन पाप लग्नेनके साथ इत्तसाल करनेवाला केन्द्रस्थानमें हो तो धनका हर्नेवाला होता है ॥ २ ॥

व्ययपतिखललमाधीशयोरित्तसालं व्ययमदनगृहे चेत्पापदृष्टे स

नश्येत् ॥ यदि तनुहिसरश्मी साशुभौ यत्र गेहे भवति किल

ततो भीश्चेत्खलर्क्षे विशेषात् ॥ ३ ॥

द्वादशेश और पाप लग्नेनका इत्तसाल पाप ग्रहसे दृष्ट चारद्वय और सातवें घरमें

हो तो उसका नाश होगा । यदि लग्न और चंद्रमा अशुभ ग्रहके साथ जिस घरमें हो उसी घरसे भय होना बतावे । यदि वह लग्न चंद्रमा पाप ग्रहकी राशिके हों तो विशेषकरके भय कहै ॥ ३ ॥

जिघांसया व्रजतो मे किं भविष्यतीति प्रश्ने विचारः ।

लग्नान्बुचंद्राश्चरभे प्रयातुः पराभवश्चेत्खलमुत्तिसलीन्दुः ॥

खलेक्षितस्तत्र कृतेऽपि कार्ये विनिसृतो मृत्युवशं प्रयाति ॥ १ ॥

लग्न, चतुर्थ घर और चंद्रमा ये सब चर राशिके हों तो जानेवालेकी हार होगी । यदि पाप ग्रहके साथ इत्तसाल करनेवाला चंद्रमा पाप ग्रहसे दृष्ट हो तो कार्य सिद्ध कर लेनेपर वहांसे चलेगा तबही मारा जायगा ॥ १ ॥

चरोदये चाशुभदृष्टिवर्जिते शुभेत्तसाले हिमगौ शुभेक्षिते ॥

निजेशदृष्टे विजयं च तोषतां समेत्य यायादभयं द्रुतं बली ॥ २ ॥

अशुभ ग्रहकी दृष्टि वर्जित चर लग्न हो और शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करनेवाला चंद्रमा शुभ ग्रहोंसे तथा निजेशसे दृष्ट हो तो विजय संतोष पाकर बली होता हुआ निर्भय शीघ्रही आ जायगा ॥ २ ॥

स्थिरे विलग्ने निधनं च बंधनं खलेत्तसाले हिमगौ मृत्तिं व्रजेत् ॥

खले निजोच्चर्क्षगतेऽत्र भ्रूभुजा प्रगृह्यतेऽग्रेऽत्र चरे च मुच्यते ॥ ३ ॥

यदि स्थिर लग्न हो तो मृत्यु अथवा बंधन होगा और यदि चंद्रमाका पाप ग्रहके साथ इत्तसाल हो तो मृत्युको प्राप्त हो जायगा । यदि स्थिर लग्नमें पाप ग्रह अपनी उच्च राशिका हो तो राजासे पकड़ा जायगा और जो चर लग्नमें उच्चका पाप ग्रह तो तो छूट जायगा ॥ ३ ॥

बहुषु कार्येषु कस्य सिद्धिरिति प्रश्ने विचारः ।

शुभे बलिन्यंगपतौ चतुष्टये पुरोक्तसिद्धिश्च परत्र तत्परा ॥ ४ ॥

यदि शुभ लग्नेश बली होकर केन्द्रस्थ हो तो पहिले कहे हुए कार्य और जो लग्नेश अन्यत्र हो तो उससे पिछले कार्योंकी सिद्धि होगी ॥ ४ ॥

निधिवस्तुसिंहादिसंशय प्रश्ने विचारः ।

केन्द्रेऽगनाथे शुभमुत्तसीले तत्रास्ति वित्तं खलसद्युतेऽत्र ॥

नीतं तदन्यैश्च निखन्यं यद्वा वपुःपतौ वा हिमगौ तनुस्थै ॥ १ ॥

केन्द्रस्य लग्नेश ग्रहके साथ इत्तसाल करतां हो तो उस स्थानमें द्रव्य है और यदि पाप शुभ ग्रहसे युक्त लग्नेश केन्द्रमें हो तो अन्यजन खोदकर ले गये ऐसा कहे, अथवा लग्नेश वा चंद्रमा लग्नमें स्थित होकर ॥ १ ॥

खगेत्तसाले धनमेति किंच हिमांशुलश्वरमुत्तसीले ॥

विपापकेन्द्रे खननं निधेः स्यादेवं हरिस्तत्र न वेति चिन्त्यम् ॥२॥

दशमस्थ ग्रहसे इत्तसाल करते हों तो थोडा धन प्राप्त होता है, चंद्रमा और ल्येशका इत्तसाल हो और केंद्रोंमें पाप ग्रह न हों तो खजाना खोदनेसे मिलेगा, इसी प्रकार अमुक स्थानमें सिंह है वा नहीं इस प्रश्नका विचार करना चाहिये ॥ २ ॥

सुमुत्तिसली चेद्धनलाभकेन्द्रे पूर्णेन्दुरस्ति स्वमवाप्यते च ॥

तन्वम्बुखास्ते प्रबलेन्दुरिंद्रसोमान्तकाम्भःपतिदिक्षु वस्तु ॥३॥

यदि शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करता हुआ पूर्ण चंद्रमा २ । ११ । १ । ४ ७ । १० इन स्थानोंमें हो तो वहां धन है मिलेगा । यदि १ । ४ । ७ । १० में बलवान् चंद्रमा हो तो क्रमसे इद्र, चंद्र, यम और वरुणकी दिशाओंमें अर्थात् पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिममें वस्तु है ऐसा कहे ॥ ३ ॥

क्रमाद्धिदध्याद्यादि शीतभानुः पापेत्तसाली सखलश्च केन्द्रे ॥

पापैश्च केन्द्राष्टमसंस्थितैः स्यात्तत्रैव वित्तं खननाद्भयं च ॥ ४ ॥

यदि चंद्रमा पापसे इत्तसाल करता हुआ पाप ग्रहके साथ केंद्रमें हो और पाप ग्रह १ । ४ । ७ । ८ में स्थित हों तो जिस स्थानमेंका प्रश्न किया है वहां धन है, परन्तु खोदनेसे भय होगा ॥ ४ ॥

यावन्तः स्युः खेचरास्तुर्यसंस्थास्तावत्संख्यः स्यान्निधिस्तत्र गेहे ॥

यत्संख्यांशैस्तुर्यनाथो गतौ वा त्रंद्रात्तावद्धिः करैः स्याद्धिखातः ५

जितने ग्रह चौथे घरमें हों उतनेही निधि (द्रव्यसमूह) उस घरमें वतावे । चंद्रमासे चतुर्थेश जितने अंशोंकरके दूर चला गया हो, उतनेही हाथ खोदनेसे द्रव्य मिलेगा ॥ ५ ॥

इन्दुलग्नेशयोस्तुर्येद् यावदंशान्तरी ततः ॥

खातहस्ता निधेर्वाच्या एवं सिंहादिकान्तरम् ॥ ६ ॥

चंद्रमा और ल्येशसे चतुर्थेशका जितने अंशोंका अंतर हो उतनेही हाथ जमीन द्रव्यके लिये खोदनी चाहिये इसी प्रकार सिंहादिका अंतर जानना चाहिये ॥६॥

क्रियाद्धिमांशोर्गतभानि नेत्राहतानि पूर्णाग्नि दृतानि लब्धम् ॥

पूर्वादिदिक् स्याद्धिहतस्य चौरैर्नष्टस्य सिंहस्य निधेश्च नूनम् ॥७॥

मेषके चंद्रमासे गत राशियोंको दोसे गुणा करके तीनका भाग लेनेपर जो लब्ध मिले वही पूर्वादिके क्रमसे चौरी गई, नष्ट हुई वस्तुकी तथा सिंह और निधिकी दिशा जाननी उचित है ॥ ७ ॥

नौकागमप्रश्ने विचारः ।

विवीर्यैः खलैः षट्त्रिधर्मान्त्यसंस्थैः सर्वीर्यैः शुभैः
क्षमतोऽभ्येति नौका ॥ चरक्षोदये केंद्रगेन्दौ च शीघ्रं
यदा पापिनः केंद्रगा वीर्ययुक्ताः ॥ १ ॥

निर्वली पाप ग्रह ६ । ३ । ९ । १२ इन स्थानोंमें हों और शुभ ग्रह बलवान् हों तो नौका कुशलसे आती है । यदि पाप ग्रह केंद्रोंमें बलवान् हों ॥ १ ॥

विवीर्याः शुभाः सद्बलेनेशराफा विधुर्जीवकोऽर्कोऽशुगोमज्जते नौः ॥
यदेन्दुः शनेर्मुत्सिले भूमिजोऽगे मृतौ कण्टके वार्कदृष्टः सपापाः ॥
तनुस्त्रीखबन्ध्वीश्वरा मज्जते नौर्नृवस्तुप्रपूर्णा यदा केन्द्रनाथाः ॥२॥

शुभ ग्रह निर्वली हों तथा सद्बलसे इशराफ करनेवाला चंद्रमा हो और बृहस्पति अस्तगत हों तो नौका डूब जाती है । यदि चंद्रमा शनिके इत्तसालमें हो, मंगल लग्न वा आठवें अथवा केंद्रमें सूर्यसे दृष्ट हो और १ । ७ । १० । ४ इन घरोंके अधिपति ग्रह पापयुक्त हों तो मनुष्य और वस्तुओंसे भरी हुई नौका डूब जाती है ॥ २ ॥

कुजाकर्षण्विताः केचिदब्धौ म्रियन्ते यदेन्दुर्गुरुर्वाखलाब्धस्तदा नौः ॥
विभग्नैतिकष्टाद्यदा मृत्युयोगोत्र साप्तिःसुखादेत्यतो नो विलोमे ॥३॥

यदि केंद्रोंके स्वामी मंगल शनिसे युक्त हों तो कुछ मनुष्य समुद्रमें मर जाते हैं । यदि चंद्रमा वा बृहस्पति पापयुक्त हों तो नौका टूटी बिगड़ी हुई कष्टसे आती है । यदि इस योगमें मृत्यु योग पाया जावे तो प्राप्तिके साथ सुखसे आती है और जो इस योगमें विलोम हो अर्थात् सिद्ध योग हो तो सुखसे नहीं आती है ॥ ३ ॥

चेत्कण्टकेशा रविजेन संयुता जयन्ति बध्वा प्लवगाश्च तस्करान् ॥
चेत्स्वे कुजो वाडववाहिनाश्विह प्रदह्यतेऽन्तर्दहनेन चाम्बुनि ॥४॥

यदि केंद्रोंके स्वामी ग्रह शनिसे युक्त हों तो नौकारं चौरोंको बांधकर लाती हैं । यदि दूसरे घरमें मंगल हो तो जलमें भीतर जलनेवाली वाडवाधिसे शीघ्रही भस्म हो जाती है ॥ ४ ॥

चंद्रलक्षणयोः शत्रुदृष्ट्या पोतपयोः कलिः ॥

अष्टमे नवमे नीचेऽरिभे चास्ते धनक्षयः ॥ ५ ॥

यदि चंद्रमा और लग्नेशकी आपसमें शत्रुदृष्टि हो तो दो नौकाके स्वामियोंमें लड़ाई हो जाती है ॥ । यदि चंद्रमा लग्नेश आठवें, नौवें, नीच वा शत्रुराशि वा अस्तके हों तो धनका क्षय होता है ॥ ५ ॥

सबले लग्ने विबले धनपे संग्रह उचितस्तनुभवनाथौ ॥

परमबलौ यदि विक्रियलब्धिर्वा सबलं भवमं शुभयुक्तम् ॥ ६ ॥

बलवान् लग्न और निर्वल धनेश हो तो धनका संग्रह करना उचित है । यदि लग्नेश एकादशेश परम बली हों अथवा ग्यारहवां घर बलवान् तथा शुभ ग्रहयुक्त हो तो वेचनेमें लाभ होता है ॥ ६ ॥

शशांकलभाधिपमृत्युनाथैरेकर्क्षसंस्थैरशुभैर्विशेषात् ॥

मृत्योर्भयं पोतपपोतयोः स्याद्द्वयोश्च दैवादिह बंधभीतिः ॥ ७ ॥

चंद्रमा, लग्नेश और अष्टमेश एक राशिपर स्थित हों तो नौका और नौकापति दोनोंको मृत्युका अथवा बंधनका भय होता है । यदि उन स्थानोंके स्वामी पाप ग्रह हों तो विशेषकरके उक्त फल होता है ॥ ७ ॥

उत्पातप्रश्ने विचारः ।

आसप्तघसं ग्रहणाद्रवीन्द्रोर्भूकंपनिर्घातरजोऽतिपाताः

भवन्ति चोल्कापरिवेषचापा यत्रैव तद्देशपतेः प्रणाशः ॥ १ ॥

सूर्य चंद्रमाके ग्रहणसे सात दिनतक जो भूकंप, निर्घात, रजका अत्यन्त पात अथवा उल्कापात, परिवेष; इंद्रधनुष जिस देशमें हों उसी देशके राजाका नाश होता है ॥ १ ॥

केतोः शिखा यहिशि यत्र चैति लब्धोदया यत्र च यानि भानि ॥

शिखा स्पृशेत्तन्नृपतीन् सदेशान् हन्याद्यदा भौमशानिप्रदृष्टः ॥ २ ॥

केतुकी शिखा जिस दिशा और देशमें उदय हो और जिस देशमें नक्षत्रोंको स्पर्श करे उन देशों तथा वहाँके राजाका नाश होता है । यदि मंगल और शनिसे दृष्ट ॥ २ ॥

राहुः शनिर्वोदितधूम्रकेतुर्ज्यैष्ठास्थितो युद्धरुजे प्रभंगम् ॥

भूपस्य कुर्याद्यदि वाप्यकाले निरन्तरं सप्त दिनानि वृष्टिः ॥ ३ ॥

राहु वा शनि हो, अथवा ज्येष्ठानक्षत्रपरं धूम्रकेतुका उदय हो तो राजाका युद्ध और रोगमें भंग होता है, अथवा जिस देशमें विना समय निरन्तर सात दिनतक ॥३॥

अल्पास्थवा भूरितराऽस्थिमांसांगाराज्यरक्तस्य च यत्र देशे ॥

भंगश्च तद्देशनृपस्य यद्वा वर्षासु वर्षा दिनसप्तकं चेत् ॥ ४ ॥

हाड, मांस, अंगार, घी, राद तथा रुधिरकी वर्षा थोड़ी वा बहुत हों तो उस देश और राजाका भंग होता है । अथवा वर्षाऋतुमें सात दिन लगातार वर्षा हो ॥४॥

शोभो ध्वजिन्यास्त्वचिरेण धान्यं चेद्यत्र वृक्षा अरुणादिवस्त्रैः ॥

वृता इवेक्ष्या हरिताः पतन्ति शुष्काः प्ररोहन्त्यथवेशभंगः ॥ ५ ॥

सेनाका शोभ, जितने कालमें धान्य पकता है उससे आधे वा चोथाई कालमें धान्य पक जावे और जिस देशमें वृक्ष अरुणादि वस्त्रोंसे ढके हुएमें दीखते हों, तथा हरेही गिर पड़ने लगे अथवा सूखे हरे हो जावें तो राजाका भंग होता है ॥ ५ ॥

नद्यो विलोमयाना रोदनहास्यप्रलापिता वाप्यः ॥

शुष्यन्ति चेदशोष्याः कृपा नश्यन्ति भूपभंगभिये ॥ ६ ॥

नदियां उल्टी बहने लगे, वापियोंमें रोने और हँसनेकासा शब्द सुनाई देने लगे, अशोष्य कूप वापियां सूख जावें तो राजाका भंग होता है ॥ ६ ॥

अकस्माद्यदा तोरणाङ्गारकेतुप्रपातोऽथवा निश्यभीक्षणं च रोदः ॥

भवेद्यत्र तद्देशभंगोऽथ भूमीविदारो विना वारिपातं च यत्र ॥ ७ ॥

जिस देशमें यदि अचानक तोरण, अंगार, केतु ऊपरसे गिरें अथवा रात्रिमें नित्यही रोनेका शब्द हो तो उस देशका भंग होता है, अथवा जिस देशमें विना जल वर्षनेके भूमी फट जाय ॥ ७ ॥

अकस्माज्जलस्यागमो निर्जले वारुणे वापि भूर्भूपभंगः समृद्धात् ॥

दिवा वन्यसत्वो विशेषादभीतो विशेषत्र तत्रत्यभूपक्षयः स्यात् ॥८॥

अकस्मात् निर्जल स्थानमेंसे जल निकलने लगे, जलस्थानमें पृथ्वी पड जाय तो राजाका अन्य समृद्ध राजासे भंग होता है, यदि दिनमें कोई जंगली अथवा अन्य जीव अत्यन्त निर्भय होकर जिस देश, शहर, ग्रामादिमें प्रवेश करे तो वहाँके राजाका नाश होता है ॥ ८ ॥

द्विपदपशुखगानां वामराणामकस्मात्तुमुलरणनिनादो

वा परस्त्रीरतिश्च ॥ भवति च दिनभंगो वा रवेः सम्भवो-
ऽस्ते सलिलसुरपकाष्टायां तथा फेरुशब्दः ॥ ९ ॥

मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों अथवा देवतोंका अचानक तुमुल युद्धका शब्द अथवा परस्त्रीके साथ रति, दिनका भंग, अस्तमें सूर्यका सम्भव, पश्चिम दिशामें खोखडीका शब्द ॥ ९ ॥

यस्मिन् देशे वासरेशोऽतिकृष्णः खण्डो रूक्षो वा हितद्देशनाशः ॥

सन्ध्यायुग्मे रक्तमेघावृतोऽर्को वृत्यायुक्तो यत्र नूनं रणाय ॥१०॥

जिस देशमें सूर्यनारायण अत्यन्त काले वा खण्डित अथवा रूखे दीख पड़ें तो उस देशका नाश होता है । दोनों सन्ध्याओंमें लाल बादलोंसे ढके हुए सूर्यनारायण परिवेशयुक्त दीखते हों तो उस देशमें निश्चयही युद्ध होता है ॥ १० ॥

ग्रस्तं विधुं वाप्युदयस्थमर्कं लग्नस्थमिन्दुं परिवेषगं वा ॥

निरीक्ष्य तत्रत्यनृपस्य भंगो नूनं मृतिर्वा सुयशःक्षयश्च ॥११॥

ग्रहण पढते हुए चंद्रमा वा उदय होते हुए सूर्य अथवा परिवेषसहित लग्नस्थ चन्द्रमाको राजा देखे तो उस देशके राजाका भंग, मृत्यु और सुयशका नाश होता है ॥ ११ ॥

यत्र भानोर्ग्रहे वास्ते केतुका वा कर्बंधकाः ॥

श्यामकीलादयो दृश्या मण्डले भूपसंक्षयः ॥ १२ ॥

ग्रहण पढते समय वा अस्तकालमें सूर्यमण्डलके बीच केतु वा कर्बंध वा श्याम-कील आदिका दर्शन होवे तो राजाका क्षय होता है ॥ १२ ॥

सुनिर्मलेऽर्के चेच्छायां न प्रतीपारिभीतिदा ॥

देवपातप्रभंगाद्या दुर्भिक्षान्न्यातिभंगदाः ॥ १३ ॥

यदि सुनिर्मल सूर्यमें छाया प्रतीत हो तो प्रतिक्लृप्त शत्रुओंसे भय नहीं होता है, यदि देवमूर्ति स्थानसे गिर पड़े, टूट जाय, फट जाय तो दुर्भिक्ष और अधिके दुःखसे भंग होता है ॥ १३ ॥

आसत्ताष्टदशाहं चेच्चण्डवायुः सशर्करः ॥

निरन्तरं याम्यरक्षः पश्चिमोत्थसर्दारिभिः ॥ १४ ॥

यदि सात वा आठ वा दश दिनतक लगातार कांक्रडी वर्षानेत्रालां प्रचण्ड पवन अर्थात् आधी चले तो दक्षिण, नैर्ऋत्य, पश्चिम दिशावासी शत्रुओंसे संकट प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

हस्त्यश्वगावो निशि हर्षहास्यारावार्त्तिपूर्णा व्यशना नृपात्यै ॥

धूमो विनाग्निं यदि वा गृहादिदाहो भवेद्यत्र तदीशभंगः ॥ १५ ॥

यदि हाथी, घोड़े, गऊ रात्रिमें प्रसन्न होनेकी चेष्टा करें, हसैं, रोवैं, दुःखी हों, नृणादिक न खावें तो राजाको संकट प्राप्त होता है, जिस देशमें अग्नि विना सर्वत्र रात्रि दिन हुआ रहे, अथवा गृहादिक जलने लगे तो उस देशके राजाका भंग होता है ॥ १५ ॥

अहतवाचरवो यदि वादकूपगिरिकुञ्जरवो नृपभंगदः ॥

अमलिनेऽन्हिविभाति भमण्डलं निशि नवाकणधूमवदीशहत १६

विना बजाये धाजेका शब्द हो अथवा कूप, पर्वत, कुंजमेंसे भयानक शब्द होवे तो राजाका भंग होता है । निर्मल दिनमें नक्षत्रमण्डलका प्रकाश रात्रिमें अप्रकाश होवे अथवा सूक्ष्म धुंआसे घूसरा रहे तो राजाकी हानि होती है ॥ १६ ॥

अन्हीन्द्रचापं जलदैर्विना यदा निशीन्द्रभागे सपयोधरं च तत् ॥

नृपस्य हानिं तनुते विशेषतो जलेतरा वृष्टिविनाशनं परम् ॥ १७ ॥

विना बादल दिनमें इन्द्रधनुष हो अथवा रात्रिमें पूर्व दिशामें बादलोंसहित इन्द्रधनुष हो तो राजाकी हानि होती है और जल विना अन्य वस्तुकी विशेष वर्षा होनेसे अधिक नाश होता है ॥ १७ ॥

मेघैर्विना गर्जितवृष्टिविद्युतो भवन्ति वा स्थावरजंगमात्मनोः ॥

विलोमता तत्र पतिच्युतिर्यदाऽथनिर्झरादेः स्थिरता तथाफला १८

विना बादलोंके गर्जित वृष्टि और बिजली होवे अथवा स्थावरोंकी दशा जंगमोंकीसी और जंगमोंकी दशा स्थावरोंकीसी होवे तो उस देशके राजाकी पदच्युति होती है । अथवा निर्झरादिकोंकी स्थिरता होवे तो निष्फल कही है ॥ १८ ॥

चेद्गन्धर्वपुरं प्रधूमितदिशायां कोटकोचादिम- ।

द्रक्तं स्यान्नृपनाशनं यदि सितं शातादिशायां भवेत् ॥

सूर्यास्तोदययोर्नृपार्थजयसिद्धयर्द्धिप्रदं चेध्वजः ।

सौरौ वावनिजो विधातृशकटं भिन्द्याज्जगत्संक्षयः ॥ १९ ॥

यदि सूर्यके उदयास्तसमय धूमयुक्त दिशामें गन्धर्वपुर कोटके समान धिरा हुआ लाल रंगका दीखे तो राजाका नाश और यदि शांत दिशामें श्वेत रंगका होवे तो राजाको अर्थ, जय, सिद्धि और ऋद्धिकी प्राप्ति होती है । यदि शनि वा मंगल रोहिणीके शकटका भेदन करे तो जगत्का नाश होता है ॥ १९ ॥

नक्तं दिनं प्राक् प्रहरद्वये चेद्भूमिप्रकंपोऽनिलवन्दिहभागे ॥

दुःखामिदुर्भिक्षरुगीशयुद्धैः प्रजाक्षयो भूमिपतेश्च भंगः ॥ २० ॥

रात्रि वा दिनके दो पहर भीतर वायव्य अथवा अश्लोकणमें भूकंप हो तो दुःख, अग्नि, दुर्भिक्ष, रोग और राजयुद्धसे प्रजानाश और राजभंग होता है ॥ २० ॥

नक्तं दिनं तूर्यतृतीययामे कंपो धरिण्या वरुणेन्द्रभागे ॥

स्याद्भूरिवर्षा बहुसस्यसंपत्कंठास्यरोगैर्ज्वरतश्च पीडा ॥ २१ ॥

रात्रि दिनके तीसर चौथे पहर भीतर पश्चिम वा पूर्वदिशामें भूकम्प हो तो बहुत वर्षासे बहुतसी खेतीकी संपदा प्राप्ति किन्तु कंठ और मुखके रोगों तथा ज्वरसे पीडा होती है ॥ २१ ॥

कार्तिकाश्विननभस्सु रवीन्द्रोरर्द्धपादलववद्ग्रहणं चेत् ॥

सेज्यदृग् हि शुभसस्यसमृद्धिर्दक्षिणे हि सकलं ग्रहणं चेत् ॥ २२ ॥

ग्रस्तवत्समुदयास्तमये सच्चात्र भौमशानिदृगादिभिः क्षुत् ॥

चेत्तमोवददुयास्तमये स्याद्भास्करस्य तिथिभानुदशाहात् ॥ २३ ॥

यादि कार्तिक, कार और भादोंके महीनेमें सूर्य चंद्रमाका आधा वा चौथाई ग्रहण घृहस्पतिसे दृष्ट हो तो अच्छी खेतीकी वृद्धि होती है और जो दक्षिणमें सकल ग्रहण अथवा ग्रहण पडता हुआ उदय वा अस्त होने और उसपर मंगल शनिकी दृष्ट्यादिकके क्षुत् दृष्टि हो अथवा सूर्यके उदयास्तकालमें अन्धकारयुक्त ग्रहण होवे और १५ १२ । १० दिनतक ॥ २२ ॥ २३ ॥

भूरिधूलिवनीपतिभंगश्चेद्दिनग्रहणतो ग्रसितेन्दुः ॥

पक्षकान्त इह भूपतयो नाशं व्रजन्ति सुखमेति च लोकः ॥ २४ ॥

बहुत धूलि वर्षे तो राजाका भग होता है यदि सूर्यग्रहणसे पंद्रह दिन पीछे चंद्रग्रहण हो तो राजाओंका नाश और प्रजाको सुख होता है ॥ २४ ॥

चंद्रग्रहणतः पक्षावसाने ग्रहणं रवेः ॥

तदा कोपात् क्षयं यान्ति भूपाः कष्टं तथा जनाः ॥ २५ ॥

यादि चंद्रग्रहणसे १५ दिन पीछे सूर्यग्रहण हो तो कोपसे राजाओंका नाश और प्रजाको कष्ट होता है ॥ २५ ॥

आससघसं ग्रहणास्तयुद्धभ्रमीविदारत्परिवेषचापात् ॥

दिग्दाहकंपौ क्षुद्वृष्टियुद्धरोगास्तदातः प्रशमोऽभ्युपात्तात् ॥ २६ ॥

सात दिनतक ग्रहण, अस्तसमय ग्रहयुद्ध, भूमीविदार तथा परिवेश, इन्द्रधनुष होनेसे दिशादाह, भूकंप, अकांत, अट्टाष्टि, युद्ध, रोग ये सब होते हैं और तभीसे अर्थात् उक्त उत्पातोंके समय जल वर्षनेसे शान्ति बनी रहती है ॥ २६ ॥

स्निग्धः सुवेषः परिवेष इन्दोर्भानोर्यदा माक्षिकशंखजाभः ॥

अखण्डितो रूप्यसमोऽथवा स्याद्दर्षासु कल्याणसमर्घवृष्ट्यै ॥२७॥

यदि चंद्रमाका परिवेष चिकना सुंदर वेषवाला और सूर्यका सोनामक्खी तथा शंखकीसी कान्तिवाला अथवा अखंडित और चांदीके समान हो तो वर्षाकाळमें अच्छी तरह कल्याण, समर्घ और वर्षा होती है ॥ २७ ॥

रूक्षा रक्तश्यामसर्पप्रभोल्का या भूतायां सो निशायां दिवैकः ॥

दीप्तो नूनं भूपभंगाय यद्वा भानोरग्रे स्याद्दिनिर्घातपातः ॥२८॥

रूखी, लाल, काले सर्पके समान कान्तिवाली जो उल्का गत रात्रिमें हो तो बंद दिन-दीप्त कहाता है, राजाका भंग होनेके लिये कहा है अथवा सूर्यके आगे निर्घातपात हो ॥ २८ ॥

घसे रात्रौ वा सभूमीप्रकंपोऽथोल्कायुग्वै वा स्वयं भूपभंगः ॥

भूमीकंपाच्चेत्रितुर्याश्विघसे पक्षे मासेऽसौ पुनर्भूपभंगः ॥ २९ ॥

रात्रि वा दिनमें भूकंपसाहित अथवा उल्कायुक्त निर्घातपात हो तो स्वयंही राजाका भंग होता है । यदि भूकंपसे ३ । ४ । २ दिनमें, पक्षमें अथवा माससे निर्घातपात हो तो राजाका भंग होता है ॥ २९ ॥

आषाढपूर्णिमायां सन्ध्यायां पूर्वरुद्रसौम्यदिशाम् ॥

वायुः सुभिक्षमतुलं वृष्टिं कुर्यात्समीरवारिदिशः ॥

मध्यं संस्यं हुतभुग्यमरक्षोभूदवृष्टिर्दुभिक्षम् ॥ ३० ॥

आषाढी पूर्णिमाको सन्ध्यासमय पूर्व, ईशान तथा उत्तरदिशाका पवन चले तो सुभिक्ष और बहुत वर्षा होती है । वायव्य पश्चिमका पवन चले तो मध्यम खेती होती है, अग्निकोण, दक्षिण तथा नैऋत्यका होवे तो अवृष्टि और दुभिक्ष होता है ॥ ३० ॥

अथ सत्यजातकम् ।

वृषार्कवेशे वृषकुंभसिंहालिगैः शुभैः स्त्रीमृगतौलिककैः ॥

पापैर्भवेच्छारदधान्यवृद्धिर्गोभानुवेशे च हिमांशुजीवौ ॥ १ ॥

वृषके सूर्यके प्रवेशसमय २ । ११ । ५ । ६ इन राशियोंपर शुभ ग्रह और

कन्या, मकर, तुला तथा कर्कपर पाप ग्रह हों तो शरदृतुके धान्यकी वृद्धि होती है । यदि वृषके सूर्यके प्रवेशमें चंद्रमा तथा बृहस्पति ॥ १ ॥

वीर्यान्वितौ सिंहघटालियातो शुक्रेन्दुजौ मेषनृयुग्मयातौ ॥

स्याच्छारदान्नस्य परं समृद्धिर्गोभानुवेशे त्वबलैः शुभैश्च ॥ २ ॥

बलवान् होकर सिंह, कुंभ तथा वृश्चिकपर हों और शुक्र तथा बुध मेष, मिथुनपर हों तो शरत्कालके अन्नकी परम समृद्धि होती है । वृषके सूर्यके प्रवेशमें शुभ ग्रह निर्बली हों ॥ २ ॥

पापैर्मृगेन्द्रालिवृषे च तुंगे स्याच्छारदान्नस्य परं विनाशः ॥

वृषार्कवेशेऽलिधनुर्वृषस्थैः पापैः शरज्जं परिशुष्यतेऽन्नम् ॥ ३ ॥

और पाप ग्रह सिंह, वृश्चिक तथा वृषराशियोंपर तथा उच्चके हों तो शारदान्नका अत्यन्त नाश होता है । वृषार्कके प्रवेशसमय वृश्चिक, धनु तथा वृषपर पाप ग्रह स्थित हों तो शरत्कालोत्पन्न अन्न सूख जाता है ॥ ३ ॥

वृषार्कवेशे मिथुनालिमेषे पापैः सदीक्षायुतिवर्जितैश्च ॥

संशुष्यतेऽन्नं शरदोऽथ भानोर्वृषस्य वेशे ज्ञभृगू च मीने ॥ ४ ॥

वृषार्कप्रवेशमें मिथुन, वृश्चिक तथा मेषपर पाप ग्रह शुभ ग्रहोंकी दृष्टि और युतिसे वर्जित हों तो शारदीय अन्न सूख जाता है । वृषार्कके प्रवेशकालमें बुध तथा शुक्र मीनपर ॥ ४ ॥

केन्द्रे शशीज्यौ सबलौ सदीक्षायुत्यन्वितौ स्याच्छरदोऽन्नवृद्धिः ॥

अल्यर्कवेशेऽलिमृगेन्द्रकुम्भवृषेषु सौम्यैर्मृगमेषकेन्द्रे ॥ ५ ॥

और केंद्रमें चंद्रमा बृहस्पति बलवान् होकर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो शरदके अन्नकी वृद्धि होती है । यदि वृश्चिकार्कके प्रवेशमें वृश्चिक, सिंह, कुंभ तथा वृषराशियोंपर शुभ ग्रह और मृग, मेष तथा केंद्रमें ॥ ५ ॥

पापैः परं त्रैष्मिकसस्यवृद्धिरल्यर्कवेशे यदि सोमजीवौ ॥

कुंभस्थितौ वा वृषसिंहयातौ पृथग्ज्ञशुक्रौ तुलवृश्चिकस्थौ ॥ ६ ॥

पाप ग्रह हों तो त्रैष्मिकसस्यवृद्धि रल्यर्कवेशे यदि सोमजीवौ कुंभस्थितौ वा वृषसिंहयातौ पृथग्ज्ञशुक्रौ तुलवृश्चिकस्थौ ॥ ६ ॥

स्यात्रैष्मिकान्नस्य परं समृद्धिरल्यर्कवेशे ज्ञभृगू कुमार्याम् ॥

केन्द्रे शशीज्यौ सबलौ सदीक्षायुत्यन्वितौ त्रैष्मिकसस्यवृद्धिः ७

ग्रेष्मिकानकी परम समाद्धि होती है । वृश्चिकार्कके प्रवेशकालमें बुध तथा शुक्र कन्यापर और वेंद्रमें बली चंद्रमा तथा बृहस्पति शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हो तो ग्रेष्मिक खेतीकी वृद्धि होती है ॥ ७ ॥

अल्यर्कवेशे शनिभूमिजौ चेन्नृयुग्मगौ स्थौ भवते हि किंवा ॥

धनुस्तुलावृश्चिककुम्भयातौ तदा भवेद्ग्रेष्मिकसस्यनाशः ॥ ८ ॥

यदि वृश्चिकार्कप्रवेशमें शनि तथा मंगल मिथुन तथा वृषराशिपर अथवा धनु, तुला, वृश्चिक तथा कुम्भपर हो तो ग्रेष्मिक खेतीका नाश होता है ॥ ८ ॥

अल्यर्कवेशे हरिकुंभगौ चेतकुजार्कजौ कुम्भमृगालिगोऽगुः ॥

ग्रीष्माऽन्नशोषः शुभवीक्षणेन नो सर्वशोषः परथाऽन्यथा स्यात् ९

यदि वृश्चिकार्कके प्रवेशकालमें सिंह तथा कुंभपर मंगल तथा शनैश्चर और कुंभ, वृष और वृश्चिकपर राहु हो तो ग्रीष्मान्न सूख जाता है । यदि शुभ ग्रह देखते हों तो सब नहीं सूखता है और इससे अन्य प्रकारसे हो तो अन्यथा फल कहना चाहिये ॥ ९ ॥

अथ प्रतिवर्ष शुभाशुभज्ञानम् ।

मेषार्कवेशे लग्नेशः शुभः शुभयुतेक्षितः ॥

समर्घसुखदो नूनं विलोमे रुग्महर्षदः ॥ १ ॥

मेषके सूर्यके प्रवेशसमय शुभ लग्नेश शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो समर्घ और सुखदायक होता है और यदि इस योगका विलोम हो अर्थात् पाप लग्नेश पापसे युक्त दृष्ट हो तो रोग और महर्षदायक होता है ॥ १ ॥

अथ मृगयाप्रश्ने विचारः ।

कुजबुधौ सबलौ मृगयाकरौ न गदितौ यदि वा पतितान्शगौ ॥

न परथा खलविद्धदिनेऽपि वा न मृगया तनुसप्तमपौ यदा ॥ १ ॥

यदि मंगल तथा बुध बलवान् हों तो शिकार करनेवाले नहीं कहे हैं, अथवा मंगल तथा बुध पाप ग्रहके नवांशमें हो तो शिकार नहीं होती, अन्यथा पाप ग्रहसे विद्धदिनमेंभी शिकार नहीं होती । यदि लग्नेश और सप्तमेश ॥ १ ॥

हतबलौ हि चतुष्टयगौ विपद्भयकरौ सबलौ हि शुभौ तु तौ ॥

उदयसप्तमनाथयुतौ भवेन्न मृगया तनुपे शुभखेचरे ॥ २ ॥

नष्ट बली होकर केंद्रोंमें हो तो विपत् और भय करते हैं और जो दोनों बली हा तो शुभ कहे हैं । यदि लग्नेश सप्तमेश दोनों युक्त हों तो शिकार नहीं होती ।

यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो और सप्तपति बलवान हो तो मृगया नहीं होती ॥ २ ॥

स्मरपतौ सबले न च सा भवेदिह महाबलिनि प्रभयोद्गमः ॥

बुधभृगू जलभे जलचारिणां तदपरत्र भवेत्स्थलचारिणाम् ॥३॥

जो सप्तमेश महाबली हो तो भय प्राप्त होता है । बुध शुक्र जलराशिके हों तो जलचरोंकी और उससे अन्य राशियोंपर हों तो स्थलचरोंकी शिकार करते हैं ॥ ३ ॥

प्रकुरतो मदने खलु यावतां तनुसदां द्युसदां च सतां दृशः ॥

मृत्तिपथोत्सुकतत्समजन्तवो द्विगुणिताः स्वगृहांशगतैर्ग्रहैः ॥४॥

सातवें घरपर जितने लग्नस्थ और दशमस्थ शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो उतनेही जीव सामने आकार मारे जाते हैं । यदि वे ग्रह अपने घरके नवांशमें ॥ ४ ॥

अनृजुतुंगखगौस्त्रितया हताः प्रकथिता मृगयास्विति पण्डितैः ॥

हितदृशा तनुसप्तपमुत्सिले सुसुलभारिदृशा बहुकष्टतः ॥ ५ ॥

अथवा वक्र और उच्चके हों तो शिकारमें तिगुने जीव मारे जाते हैं, यह बात पंडितोंने कही है । यदि मित्रदृष्टिसे लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल हो तो अति सुलभतासे और जो वैरिदृष्टि हो तो कष्टसे शिकार होती है ॥ ५ ॥

द्यूनेश्वरेंगे तनुपे स्मरस्थे नूनं प्रभूताऽथ समंदस्वेद ॥

जायेश्वरे मित्रदृशाऽतिलघ्वी कुजेऽथवा भौमगृहे नभःस्थे ॥ ६ ॥

यदि सप्तमेश लग्नमें और लग्नेश सातवें हो तो निश्चयही बहुत शिकार, यदि सप्तमेश मंद ग्रहके सात हो तो थोड़ी शिकार होती है । मंगल वा मंगलकी राशि दशवें स्थानमें ॥ ६ ॥

जीवज्ञदृष्टे मृगयाऽतिगुर्वी ज्ञेया हि वा ज्ञेज्यभमम्बरे चेत् ॥

गुर्वी यदा सप्तपतिश्रतुर्थे खे चेत्तदा स्वल्पतराऽपि न स्यात् ॥ ७ ॥

बृहस्पति बुधसे दृष्ट हो तो भारी शिकार जाननी चाहिये । अथवा बुध बृहस्पतिकी राशि चौथे घरमें हो तोभी भारी, यदि सप्तमेश चौथे वा दशवें हो तो बहुत हल्कीभी शिकार नहीं होती ॥ ७ ॥

स्मराधिनाथेन निशाकरेण यद्वेत्तसाली भृगुदृष्टभौमः ॥

जले चरक्षे यदि वा सितेन्दू जले चरक्षे मृगया श्रषानाम् ॥ ८ ॥

सप्तमेश अथवा चंद्रमाके साथ इत्तसाल करनेवाला मंगल शुक्रसे दृष्ट जलराशिपर हो, अथवा शुक्र चंद्रमा जलराशिपर हों तो मछलियोंकी शिकार होती है ॥ ८ ॥

बुधशनी मृगकुम्भगतौ स्वभे बुधगृहे यदि वा हिमरोचिषा ॥

मुतसिलं कुरुतस्तनुपेन वा खलु तदा मृगयाऽस्ति पतत्रिजा ॥९॥

यदि बुध, शनि मृग और कुम्भपर और दशवें घरमें बुधकी राशि हो अथवा चंद्रमा वा लशेशके साथ बुध शनि इत्तसाल करते हों तो पक्षियोंकी शिकार होती है ॥ ९ ॥

ताराबलेन मृगया शुभमशुभं वा वदेदथो तारा ॥

सत्यपि विद्धा पापै सिंहादिभ्यो ददाति भयम् ॥ १० ॥

ताराके बलसे मृगयाका शुभ वा अशुभ फल कहे । यदि शुभ ताराभी पाप ग्रहोंसे विद्ध हो तो भय देती है ॥ १० ॥

स्खलनं जनुषि च विपदि प्रहृढं दुःखं तथा भवेन्निघने ॥

अंगविभेदः पतनं प्रत्यरिनाम्न्यां परासु शुभम् ॥ ११ ॥

जन्मतारामें स्खलन, विपद्में बहुत दुःख, मृत्युमें अंगच्छेद, प्रत्यारिमें पतन और अन्य ताराओंमें शुभ फल होता है ॥ ११ ॥

अन्तरा मृगयुभेन्दुभयोर्यावन्त्युद्धनि यदि वापि गृहाणि ॥

पापयुजि निजजातिसमस्तावन्त एव मृतये किल जीवाः ॥१२॥

यदि शिकारी और चंद्रमाकी राशिके बीचमें जितने नक्षत्र वा घर पापग्रहयुक्त हों उन्ही राशि वा नक्षत्रोंकी जाति समान उतनेही जीव मारे जाते हैं ॥ १२ ॥

सौम्ययुजि यदि तानि च तावन्तः पलायनपरा इह जीवाः ॥

यद्वा-तिथिरारपुरोवर्गो दलितः परिभाजितः ॥

इष्टनाडीभिरुच्छिष्टं प्राणिसंख्या स्मृता बुधैः ॥ १३ ॥

यदि वे नक्षत्र वा घर शुभ ग्रहयुक्त हों तो उतनेही जीव भाग जाते हैं, अथवा तिथि, वार, पुरके वर्ण जोडकर वर्ग करे और फिर उसे आधा कर इष्ट घटियोंका भाग देनेसे जो शेष रहे उसीके समान प्राणियोंकी संख्या पंडितोंने कही है ॥ १३ ॥

अथवा वर्त्तमानर्क्षवारौ याततिथिं तथा ॥

एकीकृत्य त्यजेदेकं वर्गितं दलितं भजेत् ॥

त्रिघनेन च शेषाङ्कसं प्राणिवधं वदेत् ॥ १४ ॥

अथवा वर्त्तमान नक्षत्र, वार और गततिथिको जोडकर एक कम करके वर्ग

कर दे उसके आधेको तीनके घन नौसे (९) भाग देनेपर शेषांक समान जीवोंका वध बतावे ॥ १४ ॥

शेषेऽत्र दलिते त्वेकशेषे ह्येकः पलायते ॥

वक्रग्रहेण विद्धे भे त्रिगुणो हि पलायते ॥ १५ ॥

और शेषको आधा करनेपर जो एकही वचे तो एक जीव भाग जाता है । यदि राशि वक्र ग्रहसे विद्ध हो तो त्रिगुने भाग जाते हैं ॥ १५ ॥

अथ राशिजातयः ।

मृगमहिषवानराद्याः कीटकनखवानरप्रमुखाः ॥

कपिसर्पगवयवाद्याः जलचरचक्राण्डजाः क्रमतः ॥ १६ ॥

मृग, महिष, वानरादिक, कीट, नखवाले, वानर आदि और वानर, सर्प, सुरा, गौ आदि और जल, चक्र, अण्डज आदि जातियां भेषके क्रमसे जाननी ॥ १६ ॥

अथ नक्षत्रजातयः ।

हयगजाजभुजंगमपन्नगश्ववृषदंशकमेषविडालकाः ॥

तदनु मूषकमूषकधेनवो महिषरुर्वरिगोमृगभक्षकाः ॥ १७ ॥

मृगमृगौ श्वकपी नकुलद्वयं कपिमृगेन्द्रहयाश्च मृगाधिपः ॥

पशुगजाविति योनिरुदीरिता प्रथमभक्रमतो मृगयोचिता ॥ १८ ॥

घोडा, हाथी, बकरा, सर्प सर्प, कुत्ता, बिलान, मूषक, मूषक, गौ, भैंसा, रुर्वरि (व्याघ्र), गौ (महिष), सिंह, मृग, कुत्ता, वानर, नकुल, नकुल, वानर, सिंह, घोडा, सिंह, गौ, हाथी ये योनियां अश्विन्यादि नक्षत्रोंकी क्रमसे कही हैं, मृगयामें विचारनी उचित है ॥ १७ ॥ १८ ॥

भग्नशृंगौ बुधादित्यौ शृंगहीनो हि चंद्रमाः ॥

तीक्ष्णशृंगः कुजो जीवशुकौ स्तो दीर्घशृंगकौ ॥

शनिराहु वक्रशृंगौ शृंगिणां शृंगनिश्चये ॥ १९ ॥

बुध सूर्य दूटे शींगोवाले, चंद्रमा शृंगहीन, मंगल पैने शींगवाला, बृहस्पति शुक लम्बे शींगोवाले, शनि राहु टेढे शींगोवाले जानने, इसीसे शृंगवाले जीवोंके शृंग निश्चय करनेमें विचार करना चाहिये ॥ १९ ॥

कुत्रांगे घात इति प्रश्ने विचारः ।

लमादिशट्कैः पापै पूर्वाद्धे मदनस्थितैः ॥

पृष्ठे शेषर्क्षगैरुत्तराद्धे घातं वदेत्सुधीः ॥ २० ॥

लग्नादि छः घरोंमें स्थित पाप ग्रह हों तो पूर्वाह्नमें, सातके हों तो पीठपर और यदि शेष घरोंमें हों तो उत्तराह्नमें घाव लगा है ऐसा कहे ॥ २० ॥

सपापनामनक्षत्रचरणस्य क्रमेण हि ॥

प्राक् च पार्श्वे पृष्ठतले प्रहारं प्रवदेत्सुर्धाः ॥ २१ ॥

यदि नामके नक्षत्रका चरण पापयुक्त हो तो उसीके क्रमसे शरीरके ऊपरी अंगमें, करचटमें, पीठपर, नीचे प्रहार लगा है ऐसा पंडितजन कहे ॥ २१ ॥

शत्रुरस्ति न वेति प्रश्ने विचारः ।

रिपुप्रश्ने रिपोर्लगाद्द्वैरकृच्च रिपुस्थितात् ॥

रिपुः कीदृक् च किं जातिः कथमित्यादिकं वदेत् ॥ १ ॥

शत्रु प्रश्न होनेमें छठे घरकी लग्नसे तथा षष्ठस्थ ग्रहसे वैर करनेवाला शत्रु कैसा है, कौन जाती है और किस प्रकारसे वैर करता है इत्यादि फल कथन करे ॥ १ ॥

अथ धातुवादप्रश्ने विचारः ।

लग्नेशो धातुरूपः स्याद्धातुवादी स्मराधिपः ॥

मानुशीतद्युती लाभकर्तारविति चिन्तयेत् ॥ १ ॥

लग्नेश धातुका रूप है, सप्तमेश धातुवादी है और सूर्य चंद्रमा लाभ करनेवाले हैं इस प्रकार इस प्रश्नमें विचार करे ॥ १ ॥

खलो लग्ने शुभः पापेक्षणं नो यदि लग्नपः ॥

तनुं पश्येद्विना पापैः कर्तुः सौर्यं न चान्यथा ॥ २ ॥

यदि पाप ग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो लग्नमें पाप ग्रह शुभ होता है और यदि लग्नेश लग्नको देखता हो, पाप ग्रह न देखते हों तो धातुवाद करनेवालेको सुख होता है और जो अन्यथा हो तो सुख नहीं होता है ॥ २ ॥

तन्वीशोऽन्त्यधनारिस्थो मृतौ वा विखलेक्षणः ॥

यथाक्रमं मृत्युहानिबंधनक्षयकृन्मतः ॥ ३ ॥

पापदृष्टिबर्जित लग्नेश १२।२।६।८ स्थानोंमें हो तो यथाक्रमसे मृत्यु, हानि, बंधन तथा नाश करनेवाला जानना ॥ ३ ॥

कांचनं कुजरवी सितचंद्रौ रूप्यकं बुध गुरु मणियुक्तम् ॥

कांचनं त्वगुशनी खलु लोहं लग्नगौ प्रकुरुतो बलयुक्तौ ॥ ४ ॥

मंगल सूर्य सुवर्ण, शुक्र चंद्रमा चांदी, बुध बृहस्पति मणियुक्त सुवर्ण, राहु शनिशंख लोहको करते हैं, लग्नमें बलयुक्त हों तो ॥ ४ ॥

धातुं वित्ताद्वादसंस्थां च सृत्योर्ब्रूयात्स्त्रयन्त्याभ्यां तयोः संस्थितिं च ॥
चेत्केन्द्रे वा ये शुभाः सोजसः स्युर्धातुज्ञः स्याद्धातुवाचन्यथा नो ॥
चेत्क्षेत्रेन्दुः सौम्यपापैः समेतः शीर्षोत्थर्क्षे वाहितज्ञानलाभः ॥ ५ ॥

दूसरे घरसे धातु, आठवेंसे वादकी स्थिति कहे एवं सातवें और बारहवें घरसे उन दोनोंकी स्थिति कहे । यदि केंद्रमें वा ग्यारहवें बलवान् शुभ ग्रह हों तो धातुवादी, धातुका पहिचाननेवाला है. अन्यथा हो तो धातुको नहीं जानता है । यदि सौम्य पाप ग्रहोंसे युक्त लग्न चंद्रमा शीर्षोदयराशिके हों तो धातुज्ञानका लाभ होता है ॥ ५ ॥

मूकमुष्टिप्रश्ने विचारः ।

धातुमूलं जीव ओजर्क्षगंजे जीवो मूलं धातुरन्यत्र चेति ॥

नदांशौमिः स्यात्क्रमाद्दोर्ध्वदृष्टिः प्रष्टा प्रश्ने स्यात्तदा जीवचिन्ता ॥१॥

विषम राशि (१।३।५।७।९।११) लग्न हो तो नवांशकी तीन बार गिनती करनेसे धातु, मूल, जीव प्रश्न क्रमसे बतावे, जैसे विषम लग्नका १ प्रथम नवांशक हो तो धातु, २ में मूल, ३ में जीव, ४ में धातु, ५ में मूल, ६ में जीव, ७ में धातु, ८ में मूल, ९ में जीवप्रश्न बताना चाहिये, इसी प्रकार अन्यत्र समराशि (२।४।६।८।१०।१२) लग्न हो तो नवांशकी तीन बार गणना करनेसे जीव, मूल, धातु प्रश्न क्रमसे कहे, जैसे समराशिके प्रथम १ नवांशमें जीव, २ में मूल, ३ में धातु, ४ में जीव, ५ में मूल, ६ में धातु, ७ में जीव, ८ में मूल, ९ में धातुचिन्ता कहनी चाहिये। अथवा पूछनेवाला ऊर्ध्वदृष्टि हो तो जीवचिन्ता ॥ १ ॥

मध्यालोकी धातुचिन्ता त्वघोदृक् मूले चिन्ता वाङ्मवच्चन्द्रतोऽपि ॥

मूके मुष्टौ वा बुधांशेशयोर्नि नूनं ब्रूयादेव सत्योक्तमेतत् ॥ २ ॥

समदृष्टि हो तो धातुचिन्ता और अघोदृष्टि हो तो मूलचिन्ता कहनी चाहिये, अथवा लग्नके समान चंद्रमासेभी बतानी चाहिये। अथवा मूक और मुष्टिप्रश्नमें बुधके नवांशपतिकी जो योनि हो सो बतावे यह बात निश्चयही सत्य कही है ॥ २ ॥

धातुः कुजाकौ मूलं च शनीन्दू जीवसंज्ञकौ ॥

जीवशुक्रौ बुधो यत्र चांशे योर्नि ततो वदेत् ॥ ३ ॥

मंगल सूर्य धातु, शनि चंद्रमा मूल, बृहस्पति शुक्र जीवसंज्ञक हैं । बुध जिस नवांशमें हो उससे योनि कहे ॥ ३ ॥

लग्नत्रयंशे यदा धातौ धातुखेटयुतेक्षिते ॥

धातुचिन्ता तदा वाच्या जीवमूलादिकं तथा ॥

द्विपदादिविभागश्च जीवे तत्वांशगात् खगात् ॥ ४ ॥

लग्नका अंश अर्थात् द्रेष्काण धातु हो और धातुग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो धातु-चिन्ता, इसी प्रकार जीव मूल आदि कहे अर्थात् लग्नका नवांश जीवसंज्ञक हो तथा जीवग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो जीवचिन्ता, मूलसंज्ञक हो मूलग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो मूल-चिन्ता कहे । जीवप्रश्न निश्चय हो जानेपर, द्विपद है वा चतुष्पद है वा अपद है इत्यादि विभाग जो है सो तो नवांशस्थ ग्रहसे कहे ॥ ४ ॥

अथ सुगमोपायः ।

रविभौमौ बलयुक्तौ केंद्रे धातुप्रदौ शनीन्दुसुतौ ॥

मूलकरौ शशिशुक्रामरगुरवो जीवकारकाः प्रश्ने ॥ ५ ॥

यदि सूर्य मंगल बलवान् होकर केंद्रमें बैठे हों तो धातु, शनि बुध हों तो मूल, चंद्र शुक्र बृहस्पति हों तो जीवप्रश्नकारक होते हैं ॥ ५ ॥

मेषालिसिंहलग्ने हि कुजार्काभ्यां युतेक्षिते ॥

धातुचिन्ता मृगन्द्वदकन्याकुम्भे युतेक्षिते ॥ ६ ॥

१ । ८ । ५ लग्न मंगल सूर्यसे युक्त दृष्ट हो तो धातुचिन्ता, १० । ३ । ६ । ११ लग्न शनि बुधसे दृष्ट युक्त होतो ॥ ६ ॥

मंदविद्भ्यां मूलचिन्ता कर्कमीनघनुस्तुले ॥

वृषे च भृगुचन्द्रेज्यैर्दृष्टे जीवस्य चिन्तना ॥ ७ ॥

मूलचिन्ता, ४ । १२ । ९ । ७ । २ लग्न शुक्र, चंद्र और बृहस्पतिसे दृष्ट हों तो जीवचिन्ता कहे ॥ ७ ॥

यस्य ग्रहस्य यद्वस्तु तदग्रे तद्युतेक्षिते ॥

धाम्यं धातुं मृतं जीवं शुष्कं मूलं वदेत्तनोः ॥ ८ ॥

जिस ग्रहकी जो वस्तु है सो वतानी चाहिये । यदि उस ग्रहका वर्ग उसी ग्रहसे युक्त दृष्ट होवे तो धाम्य (न पिघलनेवाली) धातु, मरा हुआ जीव, सूखा मूल लग्नसे कहे ॥ ८ ॥

स्ववर्गेषुचरे लग्ने वांशे स्वामियुतेक्षिते ॥

धातुष्वधाम्यं जीवेषु सजीवं मूल आर्द्रकम् ॥

खलैर्निघं शुभैः श्रेष्ठं मिश्रैर्मिश्रं च तद्वदेत् ॥ ९ ॥

जलचरराशिका लग्न अथवा जलचरराशिका नवांश अपने स्वामी ग्रहसे दृष्ट युक्त हो तो धातुओंमें अधाम्य (न पिघलनेवाली) धातु, जीवोंमें सजीव, मूलोंमें

गीली वस्तु है । यदि लग्न अथवा उसका नवांश पाप ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो निन्दित, शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो श्रेष्ठ, मिश्र ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो मीठी झुकी धात्वादि वस्तु कहे ॥ ९ ॥

चेज्जीवचिन्ता द्विपदश्चरेशे स्थिरे चतुष्पादितनौ विपाच्च ॥

चरांशके पुंग्रहदृष्टियुक्ते पुमान् भवेदत्र वधूग्रहेण ॥ १० ॥

यदि जीवचिन्ता हो तो चर नवांशकमें द्विपद, स्थिरमें चतुष्पद, द्विस्वभावमें अपद जीवकी चिन्ता जाननी चाहिये । यदि चर नवांशक पुरुषग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो पुरुष, स्त्रीग्रहसे युक्त हो तो स्त्री ॥ १० ॥

दृष्टान्विते स्त्रीदितयांशके च नपुंसकैर्दृष्टयुते हि खंडः ॥

चेन्मूलचिन्ताऽथ रवेः क्रमेण मूलाणुमूलोद्धृतमूलसंज्ञा ॥ ११ ॥

यदि द्विस्वभाव नवांशक नपुंसक ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो नपुंसक जीव कहना चाहिये । यदि मूलचिन्ता हो तो सूर्यके क्रमसे मूल, अणुमूल उद्धृत मूलका नाम बतावे अर्थात् चर नवांशक सूर्यसे युक्त दृष्ट हो तो मूल, चंद्रमासे युक्त दृष्ट हो तो अणुमूल (सूक्ष्ममूल) और मंगलसे युक्त दृष्ट हो तो उद्धृतमूल (उखड़ा हुआ मूल) बतावे । इसी प्रकार बुधादि ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो मूलादिसंज्ञा कहे ॥ ११ ॥

वेद्धातुचिन्ता शुभवर्गदृष्टियुतेत्यधाम्यः परथास्ति धाम्यः ॥

लग्नग्रहत्र्यंशकतः क्रमेण स्वर्भूमिपातालगतास्ति चिन्ता ॥ १२ ॥

यदि धातुचिन्ता हो तो चर लग्न वा चर नवांश शुभ ग्रहके वर्गमें हो अथवा शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो अधाम्य (न पिघनेवाली) धातु है । लग्न और लग्नस्य ग्रहके द्रेष्काणके क्रमसे स्वर्ग, भूमि तथा पातालकी चिन्ता है ऐसा कहे ॥ १२ ॥

लग्नोदितांशे लवलमपाभ्यां दृष्टे युते खं हितसौम्ययोश्च ॥

दृग्योगतो भूः खलवैरिदृष्ट्याधस्तत्र लोकः खगलोकतश्च ॥ १३ ॥

लग्नका उदित नवांश, नवांशेश और लग्नेशसे युक्त दृष्ट हो तो आकाश और मित्र तथा शुभ ग्रहकी दृष्टिके योगसे पृथ्वी और पाप ग्रहकी वैरि दृष्टिसे पाताललोक बताना चाहिये, अथवा ग्रहके लोकसे चिन्ता कहे ॥ १३ ॥

केचिच्छशांकार्कजराहुभौमैर्धातुं च शुक्रार्कवशेन मूलम् ॥

शुष्कं तदा स्याद्भयोर्बलीयस्त्वादंक्रुरं जातमिति प्रदिष्टम् १४

कोई ज्योतिर्विंदलोग चंद्र शनि राहु मंगलसे धातु, शुक्र सूर्यके वशसे सूखा

मूल वर्णन करते हैं । यदि शुक्र सूर्य दोनों अधिक बली हों तो अंकुर जात है ऐसा बतावे ॥ १४ ॥

द्रव्यबहुत्वे चिन्त्यम् ।

रक्तौ सूर्यकुजौ पीतो गुरुरिन्दुभृगुसितौ ॥

हरितो हि बुधः श्यामः शनिर्लभांशयोरिति ॥ १५ ॥

इसी प्रकार द्रव्यकी बहुतायतमें विचार करना चाहिये लघ और लघके नवांशमें सूर्य मंगल हो तो रक्त, बृहस्पति पीत चंद्रमा शुक्र श्वेत, बुध हरित, शनि श्याम वर्णवाला जानना ॥ १५ ॥

राहुयुक्ते तनौ वांशे वर्णं श्यामिकया वदेत् ॥

वैडूर्यमुक्तापाषाणं ताम्रस्फटिकवद्रवौ ॥ १६ ॥

लघ वा नवांश राहुयुक्त हो तो श्यामवर्ण कहे । सूर्यकी वैडूर्य, मोती, पत्थर, तांबा, स्फटिकवाली वस्तु बतावे ॥ १६ ॥

रूप्यक्षीरकपालेलीमुक्ताजलजवद्विधोः ॥

ताम्रवैडूर्यरत्नाश्मेष्टकाशृंगकशृंगखलाः ॥ १७ ॥

चंद्रमाकी चांदी, दूध, कपाल, छुरी, मोती, कमलवाली चीज कहे और मंगलका तांबा, वैडूर्य, रत्न, पत्थर, ईंट, शींग, शृंगखला ॥ १७ ॥

सीसधाम्यामिभृत्यादिशस्त्रभेदाः कुजे मताः ॥

काचचित्रसुवर्णानि गरुडोद्धारवद्बुधे ॥ १८ ॥

सीसा, धाम्य, अग्निभृत्यादि शस्त्र अर्थात् तोप, बन्दूक आदि शस्त्रभेद माने हैं, बुधको कांच, चित्र, सुवर्ण, हरिन्मणिवाली वस्तु हैं ॥ १८ ॥

गोमेदस्वर्णमणयः पीतधातुश्च पुस्तकम् ॥

सूतशास्त्रादिवार्त्ता च गंधवद्वस्तु वाक्पतेः ॥ १९ ॥

बृहस्पतिकी गोमेद, स्वर्ण, मणि, पीत धातु, पुस्तक, सूत शास्त्रादिकी वार्त्ता और गंधवाली वस्तु हैं ॥ १९ ॥

रौप्यालंकारवैडूर्यस्फटिकाम्बुजमौक्तिकम् ॥

लक्ष्यस्वर्णादिपात्रं च प्रतिमा शुक्शुची भृगोः ॥ २० ॥

शुक्रकी चांदी, गहना, वैडूर्य, स्फटिक, कमल, मोती, निशाना, स्वर्णादि पात्र, प्रतिमा तथा पवित्र और श्वेत वस्तु हैं ॥ २० ॥

नीलाश्रमलोहमहिषीचर्मसीसकचामरम् ॥

दंतशूकरसौवीरमद्यांबुजतिलं शनेः ॥ २१ ॥

शानिकी नीला पत्था, लोह, भैस, चर्म, सीसा धातु, चँवर, दांत शूकर, बेर, मद्य, कमल, तिल ये वस्तु हैं ॥ २१ ॥

कण्टकास्थिविषं चौर्यं राहोर्लभेशदृग्द्युतेः ॥

चंद्रेऽतिनिर्वले कांस्यं रूप्यवर्णसमं यतः ॥ २२ ॥

राहुकी कांटा, हड्डी, विष, चौर्य आदि हैं । निर्वल चंद्रमापर ल्येशकी दृष्टिका योग योनेसे चांदीके वर्णसमान कांस्य कहे ॥ २२ ॥

एवमतिनिर्वलानां बहु मौल्यं वस्तु

हित्वाल्पमौल्यं तत्सवर्णं वस्तु वदेत् ॥

इसी प्रकार अतिनिर्वल ग्रहोंकी बहु मौल्यवाली वस्तु छोड़कर थोड़े मौल्यकी उसके समान वर्णवाली वस्तु कहे ॥

किं धात्वाद्यस्ति विज्ञानमिति यत्तदृकाणतः ॥

विशेषो हेमरत्नादि द्विपदान्नादि भागतः ॥ २३ ॥

क्या धातु आदि वस्तु है इस बातका ज्ञान द्रेष्काणसे विशेष करके होता है कि, सुवर्ण और रत्न आदि है वा द्विपद आदि है वा अन्नादि है इस प्रकार विभागसे समझना चाहिये ॥ २३ ॥

कविसुरवन्द्यौ द्विपदौ तूर्यपदावर्कभूमिजौ ज्ञशनी ॥

पत्रधरौ वी कथितौ राहुहिमांशू सरीसृपावपदौ ॥ २४ ॥

शुक्र बृहस्पति द्विपद, सूर्य मंगल चतुष्पद, बुध शनि पक्षवाले पक्षी, राहु चंद्रमा सर्प कहे हैं ॥ २४ ॥

पुंस्त्रीकृशानुक्षितिवायुवारिचरस्थिरद्व्यंगभृहाश्च मेषात् ॥

मेषो हरिर्गौर्धनुषः परार्द्धं सृगार्द्धमाद्यं चतुरंग्रयः स्युः ॥ २५ ॥

पुरुष, स्त्री और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तत्व, चर, स्थिर, द्विस्वभाव संज्ञा मेषसे आदि लेकर कही है । मेष, सिंह, हृष, धनुषका परार्द्ध, मकरका पूर्वार्द्ध चतुष्पदसंज्ञक है ॥ २५ ॥

कुंभश्च मीनो विपदौ प्रभूतपादौ स्मृतौ वृश्चिककर्कटौ च ॥

तुला च कन्या मिथुनं हयाद्यं नरा मृगान्त्यं पदवर्जितं च ॥ २६ ॥

कुंभ मीन अपद हैं, वृश्चिक कर्क बहुपद, तुला, कन्या, मिथुन, धनुषका पूर्वार्द्ध
नर, मकरका परार्द्ध पदरहित है ॥ २६ ॥

द्विजौ गुरुभृगू भूपौ भूजाकौ शूद्र इन्दुजः ॥

वैश्यश्चन्द्रोऽर्कजो राहुर्दावेतौ म्लेच्छसंज्ञकौ ॥ २७ ॥

बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण, मंगल सूर्य क्षत्री, बुध शूद्र, चंद्रमा वैश्य, शनि राहु
म्लेच्छ जाति हैं ॥ २७ ॥

चतुरस्रौ भौमरवी खण्डः काव्यश्च विदुरू ॥

वर्चुलौ हिमकृत्स्थूलो दीर्घौ राहुदिनेशजौ ॥ २८ ॥

मंगल सूर्य चौकोर, शुक्र खण्ड (टुकड़ा), बुध बृहस्पति वर्तुल (गोल),
चंद्रमा स्थूल (मोटा), राहु शनि दीर्घ (लम्बा) है ॥ २८ ॥

लोहितसितहरिताभाः पाटलपांड्वाभचित्रकृष्णाभाः ॥

हेमभर्पिंगलकर्बुरबभ्रुस्वच्छाः क्रियादितो वर्णाः ॥ २९ ॥

लाल, श्वेत, हरित, पाटल (सफेद मिला लाल), पांडु (सफेद मिला पीला),
चित्र (सब प्रकारका मिला) रंग, काला, पीला, पिंगल (लाल मिला पीला),
कवरा, बभ्रु (न्योलेकासा रंग), मलीन रंग ये मेवादि राशियोंके वर्ण हैं ॥ २९ ॥

शुक्रेन्दू जलचारिणौ बुधगुरू ग्राम्यौ कुजार्कयो ।

राहुश्च प्रथिता अरण्यविवरे प्रीत्याभिसंचारिणः ॥

पूर्वाङ्गे बलिनौ तनौ बुधगुरू मध्याह्नकेऽर्कावनी- ।

सूनू द्वावपराहू इन्दुभृगुजौ सायं हि राहर्कजौ ॥ ३० ॥

शुक्र चंद्र जलचारी, बुध बृहस्पति ग्रामीण, मंगल, सूर्य, शनि और राहु वनकी
झाड़ियोंमें प्रीतिसे विचरनेवाले हैं । लग्नमें बुध बृहस्पति पूर्वाह्नवली, सूर्य मंगल
मध्याह्नवली, चंद्रमा शुक्र अपराह्नवली और राहु शनि सायंवली हैं ॥ ३० ॥

पित्तं दिनकरभौमौ श्लेष्माशुक्रामृतद्युती जगुरू ॥

समधातू शनिराहू वातकरौ कीर्त्तितौ मुनिभिः ॥ ३१ ॥

सूर्य मंगल पित्त, शुक्र चंद्रमा कफ, बुध बृहस्पति समधातु और शनि राहु
वातप्रकृतिवाले हैं ऐसा मुनियोंने कहे हैं ॥ ३१ ॥

कटुकौ दिनकरभौमौ मधुरो जीवस्तथा बुधो मिश्रः ॥

चंद्रभृगू लवणाम्लौ तीक्ष्णौ राहर्कनन्दनौ गदितौ ॥ ३२ ॥

सूर्य मंगल कडुआ, बृहस्पति मीठा, बुध कडुआ मीठा मिला हुआ, चंद्रमा शुक्र लवण खट्टा, राहु शनैश्वर तीखे कहे हैं ॥ ३२ ॥

दिनेशभौमजीवाख्याः पुरुषा अपरे स्त्रियः ॥

बुधसौरीस्मृतौ केषांचिन्मते च नपुंसकौ ॥ ३३ ॥

सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष, अन्य ग्रह स्त्रीसंज्ञक हैं, कुछेक आचार्योंके मतमें बुध शनि नपुंसक कहे हैं ॥ ३३ ॥

तरुणः कुजो हिमसुतश्च शिशुः हिमकृत्कवी सुदृढमध्यनिभौ ॥

शनिसूर्यवाक्पतिभुजंगखगाः स्थविरा मतास्तु नियतं मुनिभिः ३४

मुनियोंने मंगल जवान, बुध बालक, चंद्रमा शुक्र दृढ मध्य अवस्थावाले, शनि, सूर्य, बृहस्पति और राहु बूढ़े माने हैं ॥ ३४ ॥

भृगौ चंद्रे हृदे देववसतौ वाक्पतौ रवौ ॥

चतुष्पदपथे सौम्ये चेष्टकानिचये कुजे ॥ ३५ ॥

दग्धस्थाने शनौ राहौ बाह्यभूमौ चतुर्थके ॥

अमीभिर्नष्टवस्तूर्वी दैवज्ञो हि विमर्शयेत् ॥ ३६ ॥

शुक्र चंद्रमा हृद (जलके कुंड) में, बृहस्पति देवताके निवासस्थानमें, सूर्य चौराहेमें, बुध ईंटोंके ढेरमें, मंगल दग्धस्थानमें, शनि राहु बाह्यभूमिमें (पर्वत वा बाहिर घर खेतोंमें) चौथे घरमें इन ग्रहोंसे दैवज्ञ नष्टवस्तुकी निवासभूमि निश्चय करे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

नृपः सूर्यस्तपस्वीन्दुः कुजो हेमप्रियो बुधः ॥

वणिग्गुरुः कविर्वैश्यः शनिश्च वृषलोऽथवा ॥ ३७ ॥

अन्यजातिश्चासुरौ च निषादधिपती स्मृतौ ॥ ३८ ॥

सूर्य राजा, चंद्रमा तपस्वी, मंगल सुनार, बुध वनियां, बृहस्पति शुक्र वैश्य, शनि शूद्र अथवा अन्यजाति (अन्यज धोबी चमार आदि) और राहु केतु निषाद (भीलोंके स्वामी) कहे हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

धातुनामेन्दुशुक्राभ्यां भूषणं गुरुसूर्ययोः ॥

भाजनं विक्रुजाभ्यां च शस्त्रं शेषेषु कीर्तितम् ॥ ३९ ॥

चंद्रमा शुक्रसे धातु, बृहस्पति सूर्यसे भूषण, बुध मंगलसे पात्र और शेषग्रहोंसे शस्त्र कहा है ॥ ३९ ॥

मूर्द्धभूषणमिन्द्रकौ वाक्पतिः कर्णभूषणम् ॥

भूमीजकाव्ययोर्बाहुभूषणं च तथा बुधे ॥ ४० ॥

हस्तस्य भूषणं राहौ चरणस्य प्रकीर्तितम् ॥ ४१ ॥

चंद्रमा सूर्य शिरोभूषण, वृहस्पति कर्णभूषण, मंगल शुक्र बाहुभूषण, बुध हस्तभूषण और राहु चरणका भूषण कहा है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

बुधेन्दुजीवभृगुभिः सरसं नीरसं परैः ॥

तैरेवभक्षणीयं स्यादभक्ष्यं परथा ग्रहैः ॥ ४२ ॥

बुध, चंद्रमा, वृहस्पति और शुक्र रसयुक्त, अन्य ग्रह नीरस और इन्हों पूर्वोक्त चार ग्रहोंसे भक्ष्य और अन्य ग्रहोंसे अभक्ष्य वस्तु कहे ॥ ४२ ॥

दीर्घवर्तुलयोः कंदमूले तुर्यत्रिकोणयोः ॥

तृणं सगन्धि निर्गन्धि दीर्घवर्तुलयोः क्रमात् ॥ ४३ ॥

चौथे, नौवें और पाचवें दीर्घ और वर्तुलसंज्ञक ग्रह हों हो कंद और मूल, इसी प्रकार सगंध और निर्गन्ध तृण, दीर्घ, वर्तुलके क्रमसे कहे ॥ ४३ ॥

सौम्यैः फललिता वृक्षाः क्रूरैः स्युः फलवर्जिताः ॥

पुंखगैस्तु तरुर्नारीग्रहैरुक्ता लताः क्रमात् ॥ ४४ ॥

शुभ ग्रहोंसे फलदार, क्रूर ग्रहोंसे फलरहित वृक्ष कहे, पुरुषग्रहोंसे वृक्ष, नारी-ग्रहोंसे लता क्रमसे कही है ॥ ४४ ॥

धान्यगोधूमकौलत्थयवा घासोद्भवानि च ॥

धान्यमुद्गाश्च माषाश्च ग्रहाणां सूर्यतः क्रमात् ॥ ४५ ॥

धान्य, गोधूम, कुलत्थ, जौ, घासोत्पन्न अन्न, धान्य, मूंग उदद ये अन्न सूर्यादि ग्रहोंके क्रमसे कहे ॥ ४५ ॥

सूर्ये चंद्रे गुरौ सौम्ये पक्वं शुक्रे शनैश्चरे ॥

अपक्वं च कुजे साम्बु शेषेषु कवलं मतम् ॥ ४६ ॥

सूर्य, चंद्र, वृहस्पति और बुधमें पक्वं, शुक्र और शनैश्चरमें अपक्वं, मंगलमें जल-युक्त और शेष ग्रहोंमें ग्रास कवल माना है ॥ ४६ ॥

भानोः किंशुकशाखाद्याश्चद्रे राजादनीमुखाः ॥

भौमे कटंकिनः सौम्ये शनौ बदरिकादयः ॥ ४७ ॥

सूर्यकी ढाककी शाखादि, चंद्रमाकी ढाक गोंदनी, खिन्नी आदिक, मंगलके काटेवाले वृक्ष, बुध शनिके वेरी आदिक वृक्ष हैं ॥ ४७ ॥

क्षीरिणौ वाक्पतौ शुक्रे रम्भाद्याः शनिसूर्ययोः ॥

शुष्काश्च खण्डिता वृक्षा विज्ञातव्या विवेकिभिः ॥ ४८ ॥

बृहस्पति दूधवाले, शुक्र, कदली आदि, शनि सूर्य खंडित और सूखे वृक्ष विवेकिनोंने कहे हैं ॥ ४८ ॥

वामां चंद्रे रणं भौमे व्यवहारं बुधे गुरौ ॥

स्वजनं योषितं शुक्रे कलिं मंदे विचिन्तयेत् ॥ ४९ ॥

चंद्रमामें स्त्री, मंगलमें युद्ध, बुधमें व्यवहार, बृहस्पतिमें स्वजन, शुक्रमें स्त्री, शनिमें कलिका विचार करे ॥ ४९ ॥

मज्जास्थि भास्करे चित्तमिन्दौ रक्तं कुजे बुधे ॥

चैतन्यशुद्धी वागीशे प्राणाः शुक्रे च शुक्रकम् ॥ ५० ॥

सूर्यमें चर्बी हड्डी, चंद्रमामें चित्त, मंगलमें रक्त, बुधमें जीवशुद्धि, बृहस्पतिमें प्राण, शुक्रमे वीर्य ॥ ५० ॥

शनौ मांसत्वचा रोमवसा अस्थि वदेदगौ ॥

शशिशुक्रौ जलाधारावार्किभौमदिनाधिपाः ॥ ५१ ॥

शनिमें मांस, त्वचा तथा रोम, राहुमें चर्बी हड्डी कहे । चंद्रमा शुक्र जलाधार, शनि, भौम, सूर्य ॥ ५१ ॥

निर्जला ज्ञगुरु स्वल्पजलौ नूनं प्रकीर्तितौ ॥

सौम्यो भूमेर्जलस्येन्दुर्वहेः काव्योऽर्कभूमिजौ ॥

वायोर्मन्दासुरौ व्योम्नो गुरुः स्वाम्यन्तराद्ग्रहिः ॥ ५२ ॥

निर्जल, बुध बृहस्पति स्वल्प जल कहे हैं । बुध भूमिका, चंद्रमा जलका, शुक्र अधिका, सूर्य मंगल वायुका, शनि राहु आकाशका, बृहस्पति भीतरी स्थानसे बाहिरका स्वामी जानना ॥ ५२ ॥

अजगोयुग्मधनुस्तुलसिंहाः शब्दभृतः प्रमदाघटसंज्ञौ ॥

अर्द्धरवावपरे हि विशब्दा गोतुलकर्कवधूघटमीनाः ॥ ५३ ॥

मेष, वृष, मिथुन, धन तुला और सिंह पूर्णशब्दवाले, कन्या, कुंभ अर्द्धशब्द और शेष राशि शब्दरहित हैं । वृष, तुला, कर्क, कन्या, कुंभ, मीन ॥ ५३ ॥

मत्स्ययुताः सजलाश्च तदन्ये स्युर्विजला अथ मूकनियोगे ॥५४॥

और मकर सजल और अन्य राशि निर्जल हैं । मूकप्रश्नों विचारे हैं ॥ ५४ ॥

स्वर्क्षेऽर्के स्वीयचिंतात्र च परगृहतो माततातीयचिन्ता ।

स्वेन्दौ चिन्ता वधूनां त्वपरभ इत पुंसः कुजे जीवचिन्ता ॥

सौम्ये भ्रातृव्यचिन्ता सचिव उ पतिचिन्ता च शुक्रे सपिण्डी- ।

चिन्ता मंदेऽन्यचिंता भवति पितृपितृव्यादिचिन्ता च राहौ ॥५५॥

यदि सूर्य अपनी राशिके हो तो अपनी और अन्य राशिके हो तो माता पितासंबन्धी चिन्ता कहे । यदि चंद्रमा अपनी राशिके हो तो बधूजनोंकी और अन्यराशिका हो तो विदेश गये हुए पुरुषकी चिन्ता कहे । मंगल हो तो जीव-चिन्ता, बुध स्वक्षेत्रमें हो तो चाचाकी चिन्ता, अन्यथा सचिव और स्वामीकी चिन्ता, शुक्र स्वक्षेत्री हो तो सपिण्डकी चिन्ता, शनि स्वक्षेत्री हो तो अन्य जनकी चिन्ता और राहु स्वक्षेत्री हो तो पिता, चाचा तथा ताऊकी चिन्ता होती है ॥ ५५ ॥

चंद्रो मर्त्ये दिवि ज्ञेज्यौ वासिनोऽधः परे ग्रहाः ॥

ज्येष्ठः शुक्रोऽर्क आषाढश्चंद्रः श्रावणमासकः ॥ ५६ ॥

चंद्रमा मर्त्यलोकमें, बुध बृहस्पति आकाशमें, अन्य ग्रह पातालमें रहनेवाले हैं । शुक्र ज्येष्ठ, सूर्य आषाढ चंद्रमा श्रावण ॥ ५६ ॥

कुजो भाद्रपदः सौम्य आश्विनः कार्तिको गुरुः ॥

मार्गपौषौ भृगुर्मदो माघफाल्गुनकावगुः ॥ ५७ ॥

मंगल भाद्रौ, बुध कार, बृहस्पति कार्तिक, शुक्र अगहन पौष, शनि माघ फाल्गुन और राहु चैत्र वैशाख मास कहा है ॥ ५७ ॥

चैत्रवैशाखकौ मासाश्चैत्राद्या मेषतः क्रमात् ॥

मेषालितुलकुम्भैश्च कर्केण प्राङ्निवासभूः ॥ ५८ ॥

यहां मेषसे लेकर चैत्रादि महीने क्रमसे जानने । मेष, वृश्चिक, तुला, कुंभ तथा कर्कसे पूर्वमें रहनेका स्थान ॥ ५८ ॥

वृषेण पश्चिमे सिंहमृगयोरुत्तरे भवेत् ॥

गुरुसौम्यग्रहैर्दक्ष एवं शय्यासनेष्वपि ॥ ५९ ॥

वृषसे पश्चिममें, सिंह, मकरसे उत्तरमें, बृहस्पति तथा बुधकी राशियोंसे

अर्थात् धनु, मीन, कन्या तथा मिथुनसे दक्षिणमें रहनेका निवास कहे । इसी प्रकार शर्या और आसनमेंभी विचारे ॥ ५९ ॥

रविसितकुजागुमंदाः शशिवुधजीवाः पुराक्रमात्पतयः ॥

अजगोमिथुनकुलीरास्त्रिः परिवर्त्तेन पूर्वतः पतयः ॥ ६० ॥

सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध और वृहस्पति क्रमसे पूर्वादि दिशाओंके स्वामी है । मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि तीन बार गिननेसे पूर्वादि दिशाओंके स्वामी हैं ॥ ६० ॥

अजगोमिथुनकुलीरा ह्यमकरौ रात्रिपाः परे दिनपाः ॥

रविराशेः क्रियतो वा क्रमतोऽन्धो बधिरमूकपंगू च ॥ ६१ ॥

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर रात्रिके स्वामी, अन्य राशि दिनके स्वामी हैं । सूर्यकी राशिसे वा मेषसे क्रमकरके अंध, बधिर, मूक और पंगू हैं ॥ ६१ ॥

वहेः कुजार्कावुपरिस्थितौ ज्ञो मध्ये भुवः खे सकले गुरुश्च ॥

अधः सितेन्दू पयसो निरुक्तौ तिर्यक् शनिः केतुतमोयुगं च ॥ ६२ ॥

मंगल सूर्य अग्निके ऊपर रहनेवाले, बुध पृथ्वीके मध्यमें, वृहस्पति समस्त आकाशमें, शुक्र चंद्रमा जलके नीचे और शनि, केतु और राहु तिरछे रहनेवाले हैं ॥ ६२ ॥

मीनक्रियवृषकुम्भा हस्वा मध्या युग्ममृगाश्च कुलीराः ॥

शेषा दीर्घा अथ झषयुग्मालीन्दुगृहाण्यतिसंततिवन्ति ॥ ६३ ॥

मीन, मेष, वृष और कुंभ ऋस्व, मिथुन, मकर और कर्क मध्य और शेष राशि दीर्घ हैं । मीन, मिथुन, वृश्चिक और कर्क अतिसंतानवाले ॥ ६३ ॥

वृषमृगहयकलशाः समसंताना अपरे लघुसंततिभाजः ॥

यो मिथुनाश्वनवांशविभागः सन्ततिहीनतरः खलदृष्टः ॥ ६४ ॥

वृष, मकर, धनु और कुंभ समसंतानवाले और अन्य राशि लघुसंतानवाले हैं । मिथुन तथा धनुका जो नवांश पाप ग्रहसे दृष्ट हो तो संतानहीन कहा है ॥ ६४ ॥

मेषो हरिर्धनुश्चेति पित्तोष्णाः पूर्वदिग्भवाः ॥

शनिः स्वामी सदा चैषां जीवो रात्रौ दिवा रविः ॥ ६५ ॥

मेष, सिंह और धनु पित्तप्रकृतिवाले, गरम है और पूर्वदिशामें रहनेवाले हैं और सदैव इनका स्वामी शनि है, वृहस्पति रात्रिमें और सूर्य दिनमें स्वामी है ॥ ६५ ॥

अथ राशिसंज्ञाचक्रम् ।

मेघ.	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुंभ	मीन	राशिनाम.
पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुषस्त्रीसंज्ञा.
अग्नि	पृथ्वी	वायु	जल	अग्नि	पृथ्वी	वायु	जल	अग्नि	पृथ्वी	वायु	जल	तत्त्वसंज्ञा.
चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चरस्थिरद्विस्वभावसंज्ञा.
चतुःपद	चतुःपद	द्विपदनर	वहुपद	चतुःपद	द्विपदनर	द्विपदनर	वहुपद	पूर्णाङ्गनर परार्द्धचतु	पू. चतुष्पा- देवार्द्धनर	अपद	अपद	चतुष्पदद्विसंज्ञा.
लाल	सेफेद	हरा	सफेदलाल	सेफेद पीला.	सब प्रका- रका	काला	पीला	लाल पीला	कथरा	न्योलैकास्	मलीन	रंगसंज्ञा.
आधिक शब्द	अधिक शब्द	अधिक शब्द	शब्दरहित	अधिक शब्द	अर्द्धशब्द	पूर्णशब्द	शब्दरहित	पूर्णशब्द	शब्दरहित	अर्द्धशब्द	शब्दरहित	शब्दसंज्ञा.
निर्जल	सजल	निर्जल	सजल	निर्जल	सजल	सजल	निर्जल	निर्जल	सजल	सजल	सजल	सजलनिर्जलसंज्ञा.
चैत्र	वैशाख	उज्ज्वल	आषाढ	श्रावण	भादो	कार	कार्तिक	अगहन	पौष	माघ	फाल्गुन	माससंज्ञा.
पूर्व	पश्चिम	दक्षिण	पूर्व	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पूर्व	दक्षिण	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	घरका द्वार अथवा शब्दा- आसन विचारमें दिशाज्ञान.
पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्वादि दिशाओंकी स्वाभिसंज्ञा.
रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	दिन	दिन	दिन	दिन	रात्रि	रात्रि	दिन	दिन	रात्रिदिननामिसंज्ञा.

अथ राशिसंज्ञाचक्रम् ।

मेघ.	दृष.	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	दृशिक	धनु	मकर	कुंभ	मीन	राशिसंज्ञा.
अथ	वधिर	मूक	पगू	अथ	वधिर	मूक	पगू	अथ	वधिर	मूक	पगू	अथदिशंज्ञा.
न्हस्व	न्हस्व	मध्यम	मध्यम	दीर्घ	दीर्घ	दीर्घ	दीर्घ	दीर्घ	मध्यम	न्हस्व	न्हस्व	दस्तादिसंज्ञा.
अल्पस- तान	समसतान	अतिसतान	अतिसतान	अल्पस- तान	अल्पस- तान	अल्पस- तान	अतिस- तान	रामसतान	समसतान	समसतान	अतिसतान	अल्पसतानादिसंज्ञा.
पित्तप्रकृति	वातप्रकृति	वातप्रकृति	वातप्रकृति	पित्तप्रकृति	वातप्रकृति	वातप्रकृति	शीतप्रकृति	'मत्तप्रकृति	वातप्रकृति	वातप्रकृति	वात प्र- कृति	पित्तादिप्रकृतिवशा
उष्ण	उष्ण वी- तल	उष्ण	शीतल	उष्ण	उष्ण वी- तल	उष्ण	शीतल	उष्ण	उष्ण वी- तल	उष्ण	शीतल	उष्णादिसंज्ञा.
सम	रुखा	चिकना	चिकना	सम	रुखा	चिकना	चिकना	सम	रुखा	चिकना	चिकना	रुखादिसंज्ञा.
पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	पश्चिम	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्वादिदिशास्थानीयसंज्ञा
शनि	मंगल	बृहस्पति	बृहस्पति	शनि	मंगल	बृहस्पति	चरमा	शनि	मंगल	बृहस्पति	चरमा	नित्यस्वामिनो ग्रहाः.
बृहस्पति	चन्द्र	बुध	बुध	बृहस्पति	मंगल	बुध	चरमा	बृहस्पति	चन्द्र	बुध	मंगल	राशौ स्वामिनो ग्रहाः.
सूर्य	शुक्र	शनि	शुक्र	सूर्य	शुक्र	शनि	शुक्र	सूर्य	शुक्र	शनि	शुक्र	दिने स्वामिनो ग्रहाः

सू.	चं.	मं.	बु.	वृ.	शु.	श.	रा.	ग्रहनाम.
धातु	मूल	धातु	मूल	जीव.	जीव	मूल		साधारणधा- त्वादिसंज्ञा
धातु	जीव	धातु	मूल	जीव	जीव	मूल		कैदस्थवली- धात्वा दिसंज्ञा
रक्त	श्वेत	रक्त	हरित	पीत	श्वेत	श्याम		वर्णसंज्ञा
वैदूर्य, मोती, पत्थर आदि	चादी, दूध, आदि	तांबा, वैदूर्य, रत्न आदि	कौंच चित्र आदि	गोमेद, स्व- र्ण आदि	चादी गहना आदि	नीला, प- त्थर आदि	कांटा, अ- स्थि आदि	वस्तुसंज्ञा
चतुष्पद	सर्प	चतुष्पद	पक्षी	द्विपद	द्विपद	पक्षी	सर्प	चतुष्पदादि- संज्ञा
क्षत्री	वैश्य	क्षत्री	शूद्र	ब्राह्मण	ब्राह्मण	म्लेच्छ	म्लेच्छ	क्षत्रियादिसंज्ञा
चौकोर	स्थूल	चौकोर	गोलाकार	गोलाकार	खण्ड	दीर्घ	दीर्घ	चतुरस्रादि- संज्ञा
वनचर	जलचर	वनचर	ग्रामचर	ग्रामचर	जलचर	वनचर	वनचर	वनचरादिसंज्ञा
मध्याह्न वली	अपराह्न- वली	मध्याह्न- वली	पूर्वाह्नवली	पूर्वाह्न वली	अपराह्न- वली	सायंवली	सायंवली	कालवाक्यसंज्ञा
पित्तप्र.	कफप्र.	पित्तप्र.	प्रमधातुप्र.	समधातुप्र.	कफप्र.	वातप्र.	वातप्र.	पित्तादिसंज्ञा
कटु	लवणाम्ल	कटु	कटुमिष्ट	मिष्ट	लवणाम्ल	तीक्ष्ण	तीक्ष्ण	कटुकादिसंज्ञा
पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री. अन्य मतेन पुंसक	पुरुष	स्त्री	स्त्री, नपुंस- कभी	स्त्री	पुरुषादिसंज्ञा
वृद्ध	मध्यमायुः	युवा	शिशु.	वृद्ध.	मध्यमायुः	वृद्ध	वृद्ध	वृद्धादिसंज्ञा
चौराहा	जलाशय	दग्धस्थान	ईदंकाठेर.	दिवस्थान	जलाशय	बाह्यभूमि	बाह्यभूमि	नष्टवस्तुनि- वासस्थान.
गजा	तपस्वी	सुनार	बनिया	वैश्य	वैश्य	शूद्र वा अन्य	निषाद	जातिसंज्ञा
भूषण	धातु	पात्र	पात्र	भूषण	धातु	शस्त्र	शस्त्र	भूषणादिसंज्ञा
शिरोभूषण	शिरोभूषण	बाहुभूषण	हस्तभूषण	कर्णभूषण	बाहुभूषण	चरणभूषण	चरणभूषण	अंगभूषणसंज्ञा
नीरस	सरस	नीरस	सरस	सरस	सरस	नीरस	नीरस	सरसादिसंज्ञा
अभक्ष्य	भक्ष्य	अभक्ष्य	भक्ष्य	भक्ष्य	भक्ष्य	अभक्ष्य	अभक्ष्य	भक्ष्यादिसंज्ञा

ग्रहसंज्ञाचक्रम् ।

सु.	चं	मं	बु.	बृ.	शु.	श.	रा.	ग्रहनाम.
फलरहित	फलयुक्त	फलरहित	फलयुक्त	फलयुक्त	फलयुक्त	फलरहित	फलरहित	फलवद्वृक्षसंज्ञा
वृक्ष	लता	वृक्ष	लता	वृक्ष	लता	लता	लता	वृक्षादिसंज्ञा
धान्य	गोधूम	कुलथ	जौ	घासज	धान्य	भूग	उडद	अन्नसंज्ञा
पक्क	पक्क	जलयुक्त	पक्क	पक्क	अपक्क	अपक्क	कवल	पक्कादिसंज्ञा
सूखपलाश शाख आदि	खित्री आदि	काटेवाले वृक्ष	बेरी आ- दिक	दूधवाले	कदली	बेरी आदि क वृक्ष	बेरी अख- ण्डित सूखे	वृक्षनामसंज्ञा
युद्ध	ली	युद्ध	व्यवहार	स्वजन	स्त्री	कलि	कलि	युद्धादिसंज्ञा
मन्ना हड्डा	चित्त	रक्त	जीवशुद्धि	प्राण	वीर्य	मास त्वचा रोम	चर्बी, हड्डी	मन्नादिसंज्ञा
निर्जल	जलाधार	निर्जल	स्वल्प जल	स्वल्पजल	जलाधार	निर्जल	निर्जल	निर्जलादिसंज्ञा
वायु	जल	वायु	भूमि	बाह्यस्थान	अग्नि	आकाश	आकाश	स्थानाधि- पत्य.
स्वकीय चिन्ता	वधूजनों की चिन्ता	नीवर्बिता	वाचा ता ऊनी चि	पतिचिन्ता	सपिण्डकी चिन्ता	अन्यजन- की चिन्ता	पिता आ- दिकी चि	स्वदेशीय हो- नेसे चिन्तावि
पाताल	मर्त्यलोक	पाताल	आकाश	आकाश	पाताल	पाताल	पाताल	लोकसंज्ञा
आषाढ	आवण	भादौ	कार	कार्तिक अ गहन पौष	ज्येष्ठ	माघ फा- ल्गुन	चैत्र, वै- शाख	माससंज्ञा
पूर्व	वायव्य	दक्षिण	उत्तर	ईशान	आग्नेकोण	पश्चिम	नैऋत्य	दिशाधिपत्य.
अग्निपर रहनेवाला	जलके नी- चे रह	अग्निपर रहनेवाला	भूमिके म- ध्यमें रह-	आकाशमें रहनेवाला	जलके नीचे रहनेवाला	तिरछे रह- नेवाले	तिरछे रह- नेवाले	निवासस्थान

कन्यावृषभृगा याम्या रूक्षोष्णशीतवातुलाः ॥

कुजः स्वामी सदा चैषां चंद्रः सितो दिवा ॥ ६६ ॥

कन्या, वृष और मकर दक्षिणमें रहनेवाले, रूखे, गरम, शीतल और वातप्रकृ-
तिवाले हैं, इनका स्वामी सदैव मंगळ है और रात्रिमें चंद्रमा तथा दिनमें शुक्र स्वामी
है ॥ ६६ ॥

कुंभयुग्मतुलासंज्ञा स्निग्धोष्णा वातुलास्तथा ॥

एषां स्वामी सदा जीवो रात्रौ सौम्यो दिने शनिः ॥ ६७ ॥

मिथुन, कुंभ और तुला चिकने और गरम तथा वातप्रकृतिवाले हैं, इनका स्वामी सदैव बृहस्पति, रात्रिमें बुध और दिनमें शनि है ये पश्चिममें रहनेवाले हैं ॥ ६७ ॥

मीनालिकर्कटाः स्निग्धाः शीता उत्तरसम्भवाः ॥

दिने शुक्रः कुजो रात्रौ शशी नित्यं च तत्पतिः ॥ ६८ ॥

मीन, वृश्चिक और कर्क चिकने और शीतल, उत्तर दिशामें रहनेवाले हैं, दिनमें शुक्र और रात्रिमें मंगल और सदैव चंद्रमा इनका स्वामी है ॥ ६८ ॥

सप्तवर्गे तु लग्नस्य शुभवर्गो यदा भवेत् ॥

चिन्तितार्थे शुभं वाच्यं ग्रहयोगेक्षणं विना ॥

परथा त्वशुभं मिश्रो वर्गश्चेत्समता फले ॥ ६९ ॥

यदि लग्नके सप्त वर्गमें शुभ ग्रहका वर्ग हो चिन्तित अर्थमें शुभ कहना चाहिये, परन्तु किसी ग्रहका योग तथा दृष्टि न होवे तो, अन्यथा अशुभ ग्रहका वर्ग हो तो अशुभ, मिश्र ग्रहोंका हो तो फलमें समता बतावे ॥ ६९ ॥

यद्वा—चेच्छुक्रचंद्रशनयोऽभ्युनि जातीफलं तथा ॥

धातुश्च मृत्तिका चाथ बुधमंदारराहवः ॥ ७० ॥

अथवा यदि शुक्र, चंद्रमा और शनि चौथे घरमें हों तो जायफल, धातु, मृत्तिका कहे और बुध, शनि और राहु ॥ ७० ॥

लाभे च नवमे सेतं फलं स्यादथ वाक्पतिः ॥

तृतीये च धने चांद्रिर्मुष्टौ पद्यं वरं वदेत् ॥ ७१ ॥

ग्यारहवें नौवें हों तो सेतफल और बृहस्पति तीसरे, बुध दूसरे हो तो मुष्टिमें रेशमीन वस्त्र कहे ॥ ७१ ॥

भौमो विद्रुमकृत्केन्द्रे ताम्रकृद्वाहिमासुरौ ॥

केन्द्रे शंखादिदौ केन्द्रे सौम्यो लवणकारकः ॥ ७२ ॥

मंगल केंद्रमें हो तो मूंगा वा तांबा, चंद्रमा राहु केंद्रमें हों तो शंखादि, बुध केंद्रमें हो तो लवण ॥ ७२ ॥

कर्के शुक्रो यदा केंद्रे रुक्मभुद्रां तदा वदेत् ॥

गुरुर्दशनवस्थाने सप्तमे वा समागतः ॥ ७३ ॥

कर्कका शुक्र केंद्रमें हो तो चांदीका रुपया, बृहस्पति नौवें दशवें तथा सातवें हो तो ॥ ७३ ॥

सुवर्ण रत्नसंयुक्तं वस्त्रं चैव सुवर्णकम् ॥

भौमे शुक्रे त्रिकोणे च मृत्तिका मुष्टिगा भवेत् ॥ ७४ ॥

रत्नयुक्त सुवर्ण और सुवर्णकवस्त्र, मंगल शुक्र त्रिकोण (९ । ९) में हों तो मुष्टिमें मृत्तिका है ऐसा कहे ॥ ७४ ॥

कर्मस्थाने गुरुर्नूनमाभ्रादिफलकारकः ॥

निशापतिः शुक्रदृष्टः केन्द्रे क्षाराम्लवत्फलम् ॥ ७५ ॥

दशवें स्थानमें बृहस्पति हो तो आभ्रादिफल, शुक्रदृष्ट चंद्रमा केंद्रमें हो तो खारा खट्टा फल है ॥ ७५ ॥

रविः केन्द्रे बुधो भाग्ये पंचमे भूमिजः फलम् ॥

मिष्टं यदा रिपौ चंद्रः पिप्पलीफलमत्र चेत् ॥ ७६ ॥

सूर्य केंद्रमें, बुध नौवें, मंगल पांचवें हो तो मीठा फल है, यदि चंद्रमा छठे हो तो पिप्पली फल है ॥ ७६ ॥

शुक्रयुक्तश्चंद्रमा स्यादेलाफलमथो रिपौ ॥

मंदश्च नवमे भौमो रक्तकृष्णं च वर्तुलम् ॥ ७७ ॥

यदि छठे घरमें शुक्रयुक्त चंद्रमा हो तो इलायचीफल और जो शनि छठे मंगल नौवें हो तो लाल काले वर्णकी गोलाकार कोई वस्तु है ॥ ७७ ॥

श्यामास्तिला मसूराद्या यदा लाभे भृगोः सुतः ॥

गोधूमान्नं यवश्चैव यदा गुणपदे रविः ॥ ७८ ॥

अथवा श्याम तिल मसूरादि है ऐसा कथन करे । यदि ग्यारहवें शुक्र हो तो गेहूं जौ और यदि तीसरे घरमें सूर्य हो तो ॥ ७८ ॥

अर्कपत्रं यदा केन्द्रे राहुः शस्त्रायसी स्मृते ॥

केन्द्रे शनिः श्यामपुष्पं यदा वित्केन्द्रगस्तदा ॥ ७९ ॥

अर्कपत्र और केंद्रमें राहु हो तो शस्त्र छेद, केंद्रमें शनि हो तो श्यामपुष्प यदि बुध केंद्रमें हो तो कमल ॥ ७९ ॥

पद्मं यदा राहुचंद्रशुक्राः केन्द्रे हि दाडिमम् ॥

शनिराहुबुधाः केन्द्रे फलमेरण्डजं यदा ॥ ८० ॥

राहु, चंद्रमा और शुक्र केंद्रमें हों तो दाहिम, शनि, राहु और बुध केंद्रमें हों तो परंडफल ॥ ८० ॥

बुधेक्षितो गुहः केन्द्रे मालतीपुष्पमादिशेत् ॥

चंद्रो भौमबुधद्रष्टा धनस्थानं निरीक्षति ॥ ८१ ॥

बुधद्रष्टा राहु केंद्रमें हो तो मालतीपुष्प, मंगल और बुधका देखनेवाला चंद्रमा धनस्थानको देखता हो तो ॥ ८१ ॥

रक्तपीतं तदा वस्त्रं यदा राह्वारकेतवः ॥

तनुं पश्यन्ति धूम्रं च रक्तं वस्त्रं च विद्ममम् ॥ ८२ ॥

लाल पीला वस्त्र और गृह, मंगल केतु लयको देखते हों तो धूम्र रक्तवस्त्र और मूंगा ॥ ८२ ॥

बुधात्पञ्चमं यत्रिकोणं च पश्येद्भृगुश्चापि चंद्रो रिपौ तत्फलं स्यात् ॥

त्रिकोणे हिमांशुश्च केन्द्रे महीजस्तदा मृत्तिका रक्तगुंजाफलं वा ॥ ८३ ॥

और बुधसे पांचवें त्रिकोणको शुक्र देखता हो और चंद्रमा छठे हो तो पूर्वोक्त धूम्ररक्त वस्त्र मूंगा कहे । त्रिकोणमें चंद्रमा और केंद्रमें मंगल हो तो मृत्तिका, लाल बोटली वा फल है ऐसा जाने ॥ ८३ ॥

अथ चिन्ताप्रश्ने विचारः ।

रवौ स्वभे भूपतिराज्यचिन्ता विधौ जलक्षेत्रनिखातचिन्ता ॥

कुजेऽरिभूपालभयस्य चिन्ता बुधे कृषिक्षेत्रखलायुधानाम् ॥ ८४ ॥

सूर्य अपनी राक्षिके हो तो राजाके राज्यकी चिन्ता है, चंद्रमा स्वसेत्री हो तो क्षेत्र खोदनेकी चिन्ता, मंगल हो तो शत्रु राजाके भयकी चिन्ता, बुध हो तो खेती क्षेत्र, खल और आयुधोंकी चिन्ता ॥ ८४ ॥

चिन्ता गुरौ धर्मसुहृन्प्राणां भृगौ स्वभे वाऽखिलसौम्यचिन्ता ॥

शनौ नृपागारविवादचिन्ता भवेदथो लग्नगते दिनेशे ॥ ८५ ॥

बृहस्पति हो तो धर्म, मित्र राजाकी चिन्ता, शुक्र हो तो सकल शुभचिन्ता, शनि हो तो राजद्वारमें विवादकी चिन्ता है ऐसा कहे ॥ ८५ ॥

पाखंडिकूटानृतमंत्रचिन्ता धने भवेत्कार्यबलस्य चिन्ता ॥

त्रये चतुर्थे च विवादचिन्ता सुते सुतानां रिपुगोऽध्वनश्च ॥ ८६ ॥

यदि लग्नमें सूर्य हो तो पाखण्डिजनके कपट झूठ तथा मंत्रकी चिन्ता है ।

सूर्य दूसरे घरमें हो तो कार्यबलकी चिंता, तीसरे चौथे हो तो विवाहकी चिंता, पांचवें हो तो पुत्रोंकी, छठे हो तो मार्गके ॥ ८६ ॥

कार्यस्य चिंता मदनैऽगनाया मृतौ च नावः सुकृते हि चिन्ता ॥

विदेशसंस्थस्य नृपे नृपार्थकार्यस्य लाभे द्रविणस्य रिःफे ॥८७॥

कार्यकी, सातवें हो तो स्त्रीकी, आठवें हो तो नौकाकी, नौवें हो तो विदेशस्य जनकी चिंता, दशवें हो तो राजाके अर्थकार्यकी, ग्यारहवें हो तो धनलाभकी बारहवें ॥ ८७ ॥

मार्गारिचिंताऽथ तनौ हिमांशौ क्षेत्रार्थभोज्यस्य भवेद्धने च ॥

वित्तप्रवासस्य तथा तृतीये वृष्टेश्चतुर्थे च गृहाम्बयोश्च ॥ ८८ ॥

हो तो मार्गकी और शत्रुकी चिन्ता है ऐसा कहे । यदि लग्नमें चंद्रमा हो तो क्षेत्रकी, अर्थकी और भोज्यवस्तुकी, दूसरे हो तो धनकी तथा परदेशकी चिन्ता, तीसरे हो तो वर्षाकी तथा चौथे हो तो घरकी और माताकी ॥ ८८ ॥

सुते सुतानां च रिपौ गदानां मदे युवत्या निधने मृतेश्च ॥

भोज्यस्य वा धर्मगते च पुण्याध्वगप्रयाणस्य स्वभे हि चिन्ता ॥८९॥

पांचवें हो तो पुत्रोंकी, छठे हो तो रोगोंकी, सातवें हो तो जवान स्त्रीकी, आठवें हो तो मृत्युकी तथा भोज्य वस्तुकी, नौवें हो तो पुण्यकी तथा पथिककी यात्राकी, दशवें हो तो ॥ ८९ ॥

क्षेत्रस्य धूर्त्तस्य च लाभयाते चिन्ता हि वासः शुचिवस्तुनोश्च ॥

व्यये हतासेश्च तनौ च भौमे भीवादयोः स्याच्च धने गतासे ॥९०॥

क्षेत्रकी तथा धूर्त्त मनुष्यकी, ग्यारहवें हो तो वस्त्रकी और पवित्र वस्तुकी चिंता, बारहवें हो तो चौरी गई वस्तुकी प्राप्तिकी चिन्ता है ऐसा कहे । यदि लग्नमें मंगल हो तो भयकी तथा वादकी, दूसरे मंगल हो तो गन वस्तुकी प्राप्तिकी ॥ ९० ॥

दुश्चिक्वगे भ्रातृसुहृत्कलेश्च तुर्ये सुहृद्वैरिपशुप्रपादेः ॥

पुत्रे सरोषानुनयस्य षष्ठे चिंता च वन्ह्यायसरूप्यहेम्नाम् ॥९१॥

तीसरे हो तो भाईकी, मित्रकी तथा लडाईकी, चौथे हो तो मित्रकी, वैरिकी, पशुकी तथा प्याऊ आदिकी, पांचवें हो तो क्रोधसहित समझानेकी, छठे हो तो अधिकी, रोहकी, चांदीकी तथा सेनेकी ॥ ९१ ॥

द्यूने विनष्टार्थतुरंगदासीचिन्ता मृतौ मंदिरमंदुरादेः ॥

धर्मैऽध्वनः स्याद्दशमे च वादिप्रवादिनां लाभगते च चिन्ता ॥९२॥

सातवें हो तो विनष्ट द्रव्यकी, घोडेकी तथा दासीकी, आठवें हो तो मकानका और छुडसाल आदिकी, नौवें हो तो मार्गकी, दशवें हो तो वादि प्रतिवादीकी, ग्यारहवें हो तो ॥ ९२ ॥

विश्वासबुद्ध्या रिपुपातचिन्ता व्यवस्थिते वैरिणस्य चिन्ता ॥

बुधे तनौ शास्त्रसुखादिकानां चिन्ता धने वस्त्रधनात्मजानाम् ९३

विश्वास बुद्धिसे शत्रुके मारनेकी, बारहवें हो तो वैरीसे युद्ध करनेकी चिन्ता है । बुध लग्नमें हो तो शास्त्र और सुखादिकी चिन्ता, दूसरे हो तो वस्त्र, धन तथा पुत्रकी ॥ ९३ ॥

तृतीयगे स्वसृसहोदराणां सुखेऽम्बुपानां कृषिवाटिकानाम् ॥

सुते सुतानां च रिपौ हि गुप्तनार्यश्च कार्यस्य मर्दङ्गनायाः ॥ ९४

तीसरे हो तो बहिन भाइयोंकी, चौथे हो तो जल पीनेवालोंकी, खेतीकी तथा बाटिकाकी, पांचवें हो तो पुत्रोंकी, छठे हो तो गुप्त स्त्रियोंके कार्यकी, सातवें हो तो स्त्रीकी ॥ ९४ ॥

विहंगमस्यापि मृतौ नृपाज्ञाहतादिकानां नवमे च चिन्ता ॥

पतत्रिणां कर्मणि शास्त्रसौख्यकथानकानां च बुधे भवे च ॥ ९५ ॥

तथा पक्षीकी, आठवें हो तो राजाकी आज्ञा हरनेवालोंकी, नौवें हो तो पक्षियोंकी, दशवें हो तो शास्त्रकी, सौख्यकी तथा कथाकी, ग्यारहवें हो तो ॥ ९५ ॥

निजार्थकार्यस्य च संशयानां पाखण्डविद्रोहिसुखस्य चान्त्ये ॥

गुरौ तनौ व्याकुलताविनाशिसौख्यस्य कोशेकुशलार्थकानाम् ९६

अपने अर्थकार्यकी, बारहवें हो तो संशयकी, पाखंडी और विद्रोही मनुष्यके सुखकी चिन्ता है ऐसा बतावे । यदि बृहस्पति लग्नमें हो तो व्याकुलताका विनाश करनेवाले सौख्यकी । दूसरे घरमें बृहस्पति हो तो कुशलकी तथा द्रव्यकी चिन्ता ॥ ९६ ॥

तृतीयगे स्वसृकुलान्वितानां सुखे विवाहस्य कुलोद्भवां च ॥

सुते सुतोद्वाहरतेश्च षष्ठे वधूतुरंग्यादिकदोहदस्य ॥ ९७ ॥

तीसरे हो तो बहिनके कुलसे मिले हुए मनुष्योंकी, चौथे हो तो कुलके मनुष्योंके विवाहकी, पांचवें हो तो पुत्रके विवाहश्रीतिकी, छठे हो तो वधू और घोड़ी आदिके गर्भकी ॥ ९७ ॥

स्मरस्थिते स्याद्दुहितार्थसिद्धयै मृत्यौ तथा स्यात्कृपणस्य पुंसः ॥

धर्मेऽन्यदेशस्य धनध्वजानां स्वस्थे सुहृद्विग्रहसौख्यतश्च ॥ ९८ ॥

सातवें बृहस्पति हो तो पुत्रीके अर्थसिद्धिकी, आठवें हो तो कृपण पुरुषकी, नौवें हो तो परदेशकी, धन तथा ध्वजोंकी, दशवें हो तो मित्रकी छटाईकी, सुखकी ॥९८॥

लाभे स्थिरत्वादिसुखस्य रिःफे पशोश्च चिन्ता तनुगे भृगौ च ॥

नृत्येष्ठीगीतादिसुखस्य कोशे रक्ताम्बरस्वस्य तृतीयसंस्थे ॥९९॥

ग्यारहवें हो तो स्थिरतादिके सुखकी, बारहवें हो तो पशुकी चिन्ता है ऐसा कहे । जो शुक्र लग्नमें हो तो नृत्यकी, इष्टकी तथा गीतादिके सुखकी चिन्ता, दूसरे घरमें हो तो बाल बच्चोंकी तथा धनकी, तीसरे हो तो ॥ ९९ ॥

स्वदारगर्भस्य सुखे विवाहसौख्यस्य सूनौ हितवाहनानाम् ॥

षष्ठे प्रसूतेर्मदने वधूटीमेलाय सुस्नेहसुखाय चिन्ता ॥ १०० ॥

अपनी स्त्रीके गर्भकी, चौथे हो तो विवाहके सुखकी, पांचवें हो तो मित्र और बाहनोंकी, छठे हो तो प्रसूतिकी, सातवें हो तो वधूटीके मिलनेकी, प्रेम और सुखके किये चिन्ता है ॥ १०० ॥

मृतौ परस्त्रीजनिताऽथ भाग्ये सुप्तस्य खे कर्मण औपयाते ॥

शुके च नारीझकटस्य चिन्ता व्यये स्थितिस्वर्गतवस्तुचिन्ता १०१

आठवें हो तो परस्त्रीकृत चिन्ता, नौवें हो तो सोये हुए पुरुषकी, दशवें हो तो कर्मकी, ग्यारहवें हो तो नारीके झकटकी चिन्ता, बारहवें हो तो स्थितिकी और स्वर्गमें गई वस्तुकी चिन्ता है ऐसा जाने ॥ १०१ ॥

शनौ तनुस्थे गददारचिन्ता धने भवेत्स्वात्मजपाठचिन्ता ॥

तृतीयगे भ्रातृविनाशार्चिता सुखे स्त्रियाःस्तन्यविवृद्धिचिन्ता १०२

शनि लग्नमें हो तो रोग और स्त्रीकी चिन्ता है, दूसरे हो तो पुत्रके पाठकी, तीसरे हो तो भाईके विनाशकी, चौथे हो तो स्त्रीके दूध बढ़नेकी चिन्ता ॥ १०२ ॥

सूनौ च मर्त्यद्वयकार्यचिन्ता चिन्ता रिपौ प्राक्तनजारिकायाः ॥

द्यूने च वध्वा झकटस्य मृत्यौ गतार्थदासी मृतवस्तुनां च ॥ १०३ ॥

पांचवें हो तो दो मनुष्योंके कार्यकी, छठे हो तो पहिली वैरिणी स्त्रीकी, सातवें हो तो वधूके झगड (झगडे) की, आठवें हो तो गये धनकी, दासीकी तथा मृत वस्तुओंकी ॥ १०३ ॥

भाग्ये शनौ निन्दितदुर्मतीनां दशास्थितेऽस्या झकटस्य भीतेः ॥

आये शनौकुत्सितकार्यचिन्तारिःफे शनौ वैरिगणस्यचिन्ता १०४

नौवें शनि हो तो निन्दित और दुर्मति मनुष्योंकी, दशवें हो तो झकटके भयकी, ग्यारहवें हो तो कुत्सित कार्यकी और बारहवें हो तो वैरियोंकी चिन्ता है ऐसा कथन करै ॥ १०४ ॥

शुक्रेत्तसाले च बुधेत्तसाले जीवेत्तसाले हिमगौ प्रकर्षात् ॥

सूर्येत्तसाले मदने विशेषात्स्त्रीणां विवाहस्य भवेच्च चिन्ता ॥१०५॥

शुक्रके इत्तसालमें, बुधके इत्तसालमें तथा बृहस्पतिके इत्तसालमें यदि चंद्रमा हो तो अधिकतासे स्त्रियोंके विवाहकी चिन्ता है, एवं सातवें घरमें सूर्यके इत्तसालमें चंद्रमा हो तोभी विशेषकरके स्त्रियोंके विवाहकी चिन्ता है ऐसा जाने ॥ १०५ ॥

—यद्रन्दुनन्दांशतः फल्गुम् ।

यदा चंद्रो मेषभागे कनकं गुरुशुक्रयोः ॥

एकेन दृष्टोऽसौ रत्नं वृषांशे चेन्निशापतिः ॥ १ ॥

यदि चंद्रमा मेषके नवांशमें हो तो सुवर्ण और जो बृहस्पति अथवा शुक्र इन दोनोंमें किसी एकसे दृष्ट हो तो रत्न कहे । यदि चंद्रमा ॥ १ ॥

पुष्टशुक्रेक्षिते भूषामयोऽसौ वक्रिणो दृशा ॥

अतीचारिभृगोश्च स्वं जीर्णं मिथुनकर्कयोः ॥ २ ॥

वृषके नवांशमें पुष्ट शुक्रसे दृष्ट हो तो भूषणयुक्त रत्न है और जो वृषनवांशस्थ चंद्रमा वक्रो ग्रहकी अथवा अतीचारिशुक्रकी दृष्टिसे दृष्ट हो तो पुराना धन है । यदि चंद्रमा मिथुन कर्कके ॥ २ ॥

नवांशगः शशी वारिजानि सिंहांशगः शशी ॥

सूर्यदृष्टो हेमरूप्ये कन्यांशेन्दुरवीक्षितः ॥ ३ ॥

नवांशमें हो तो जलोत्पन्न वस्तु कमल आदि हैं । यदि चंद्रमा सिंहके नवांशमें सूर्यसे दृष्ट हो तो सुवर्ण और चांदी है । यदि कन्याके नवांशमें चंद्रमा सूर्यसे अदृष्ट हो तो ॥ ३ ॥

रूप्यं सौम्येक्षितश्चायं कांस्यं सौम्येक्षणं विना ॥

मुद्रां शुक्रेक्षितो वस्त्रं कुद्दालं शनिवीक्षितः ॥ ४ ॥

चांदी और बुधसे दृष्ट हो तो कांस्य और बुधसे अदृष्ट हो तो मुद्रा, शुक्रसे हो तो वस्त्र, शनिसे दृष्ट हो तो कुद्दाल (कचनार) है ॥ ४ ॥

तुलांशे चंद्रमाः शुक्रदृष्टश्चेद्बंधवाससी ॥

अशुक्रवीक्षितो जीर्णं वासो वृश्चिकभागगः ॥ ५ ॥

यदि चंद्रमा तुलाके नवांशमें शुक्रसे दृष्ट हो तो गंध और वस्त्र, यदि शुक्रसे अदृष्ट हो तो जीर्ण वस्त्र रहे । यदि चंद्रमा वृश्चिकके नवांशमें ॥ ५ ॥

शुक्रदृष्टो विधुर्लोहं स्वर्णरूप्ये कुजेक्षितः ॥

धनुर्लवे विधुर्जीवदृष्टो रत्नं मृगांशके ॥ ६ ॥

शुक्रसे दृष्ट हो तो लोह, मंगलसे दृष्ट हो तो सुवर्ण और चांदी है । यदि धनके नवांशमें चंद्रमा बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो रत्न, मकरके नवांशमें चंद्रमा ॥ ६ ॥

जीवदृष्टः शशी चाल्पभास्करं मंदवीक्षितः ॥

काचादिकल्पितं रत्नं जातिं चंद्रांशतो वदेत् ॥ ७ ॥

बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो थोड़ी चमकवाला रत्न है, शनिसे दृष्ट हो तो काचादिसे बना हुआ रत्न है ऐसा कहे । इस प्रकार चंद्रमाके नवांशसे जाति कहे ॥ ७ ॥

अथ तात्कालेन्दुः ।

इष्टा नक्षत्रघटिकाः सूर्योदयगतेष्टगाः ॥

पञ्चत्रिंशोत्तरशतेनासा राश्यादिको विधुः ॥ १ ॥

सूर्योदयसे गत इष्टपर्यन्त वर्तमान नक्षत्रकी घडियोंमें अर्थात् गतर्क्षमें १३५ का भाग देनेसे जो लब्ध मिले वहही राश्यादिक चंद्रमा जाने ॥ १ ॥

गतनक्षत्रसंख्यांकान् षष्ट्या संगुण्य संभजेत् ॥

पञ्चत्रिंशोत्तरशतेनासो राश्यादिको विधुः ॥

द्वयोर्योगे स्पष्टचंद्रस्तात्कालीनोऽभिजायते ॥ २ ॥

गत नक्षत्रके संख्यांकको साठसे गुणा करके १३५ का भाग देनेसे राश्यादिक चंद्रमा जाने इन दोनोंका योग करनेपर तात्कालिक चंद्रमा स्पष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

यद्वा-षष्टिघ्नं गतभं द्विघ्नं नंदभक्तं लवादि यत् ॥

उदितक्षेष्टनाडीभिर्द्विगुणाभिस्तथा कृतम् ॥

त्रिंशद्भक्तं हि राश्यादि चंद्रस्तात्कालिको भवेत् ॥ ३ ॥

अथवा गतनक्षत्रको ६० गुणा करके दूना करे नौ (९) का भाग देकर जो अंशादिक लब्ध मिले उनको अलग लिख दे और फिर उदित नक्षत्रकी इष्टपर्यन्त घडियोंको अर्थात् गतर्क्षको दूना करके नौ (९) का भाग देकर जो लब्ध अंश मिले उनको पूर्व लिखित पंक्तिमें जोड़कर अंशोंमें तीसका भाग देनेसे राश्यादि तात्कालिक चंद्रमा स्पष्ट होता है ॥ ३ ॥

जीवज्ञशशिभिर्जीवं धातुं पातार्किभूसुतैः ॥ ४ ॥

वृहस्पति, बुध तथा चंद्रमासे जीव, राहु, शनि तथा मंगलसे धातु ॥ ४ ॥

मूलमादित्यशुक्राभ्यां मिश्रैर्मिश्रं विनिर्दिशेत् ॥

तत्कालचंद्रं नंदांशचक्रे पश्यति यो बली ॥ ५ ॥

सूर्य और शुक्रसे मूल, मिश्र ग्रहोंसे मिश्र फल कहे । तत्काल चंद्रमाके नवांश-
चक्रमें चंद्रमाको जो कोई बलवान् ग्रह देखता हो तो उसी ग्रहका द्रव्य जाने ॥ ५ ॥

तद्रव्यं स्यादलिष्ठाश्चेद्बहवो द्रव्यभूरिता ॥

मंदजीवेक्षिते चंद्रे सजीवं जीवमादिशेत् ॥ ६ ॥

यदि बहुतसे बलवान् ग्रह देखते हों तो बहुतसा द्रव्य उन ग्रहोंके अनुसार ब-
तावे । यदि शनि वृहस्पतिसे दृष्ट चंद्रमा हो तो सजीव जीव कहे ॥ ६ ॥

बुधेक्षिते च निर्जीवं जीवं भौमशनीक्षिते ॥

स्वर्णादि धाम्यं धातुं च केवलागुनिरीक्षिते ॥ ७ ॥

बुधसे दृष्ट हो तो निर्जीव जीव, मंगल, शनिसे दृष्ट हो तो सुवर्णादि धाम्य-
धातु और केवल राहुसे दृष्ट हो तो ॥ ७ ॥

रत्नाद्यधाम्यं सूर्येण दृष्टे शुष्कं च मूलकम् ॥

आर्द्रं शुक्रेक्षिते मूलं मिश्रैर्मिश्रफलं वदेत् ॥ ८ ॥

रत्नादि अधाम्य धातु, सूर्यसे दृष्ट हो तो सूखा हुआ मूल, शुक्रसे दृष्ट हो तो
गीला मूल और जो मिश्र ग्रहोंसे दृष्ट हो तो मिश्र फल कहे ॥ ८ ॥

तात्कालिकदिनचंद्रः स्त्रीतुल्यमिथुनांशके तदा द्विपदम् ॥

कुंभधनुर्नवमांशे ब्रूयाद्द्वै पादवर्जितं जीवम् ॥ ९ ॥

यदि तात्कालिक दिनका चंद्रमा कन्या, तुला तथा मिथुनके नवांशमें हो तो
द्विपद, कुंभ तथा धनुके नवांशमें हो तो पादवर्जित जीव ॥ ९ ॥

कर्कशेषालिनवांशे बहुपदजीवं सदा वदेत्कुशलः ॥

मेघमकरवृषसिंहेष्वत्र विशेषं परं ब्रूमः ॥ १० ॥

कर्क, मीन तथा वृश्चिकके नवांशमें हो तो बहुपदजीव कहे । अब मेघ, मकर,
वृष तथा सिंहमें कुछ अधिक विशेष है तिसको कहते हैं ॥ १० ॥

चतुर्द्धा द्विपदा देवनरवायसराक्षसाः ॥

भ्रमन्नयेण मेषादिचंद्रे तात्कालिके मताः ॥ ११ ॥

चार प्रकारके द्विपद हैं देव, नर, वायस और राक्षस, तात्कालिक मेषादि चंद्र-
मामें तीन वार गिननेसे जानने चाहिये ॥ ११ ॥

चतुष्पदादयश्चान्ये द्विधा स्थलजलोद्भवाः ॥

ते च राशेः स्वभावेन तात्कालेन्दोः परिस्फुटाः ॥ १२ ॥

जैसे मेषका तात्कालिक चंद्रमा मेषकेही नवांशमें हो तो देव, वृषके नवांशमें
हो तो नर, मिथुनके नवांशमें हो तो वायस, कर्ककेमें हो तो राक्षस, सिंहकेमें हो तो
देव इसी प्रकार कन्यादिके नवांशमें समझना चाहिये और तथैव वृषादिकमेंभी जाने ।
अन्य चतुष्पदादिक जीव दो प्रकारके हैं स्थलचारी और जलचारी । सो तात्कालिक
चंद्रमाकी राशिके स्वभावसे जाने जाते हैं ॥ १२ ॥

स्वर्णं रूप्यं तथा ताम्रं वंगं नागारलोहकम् ॥

नागं कास्यं च विज्ञेयं नंदांशस्य क्रमेण वै ॥ १३ ॥

सुवर्ण, चांदी, तांबा, वंग, शीशा, पीतल, लोह, शीशा, कांस्य ये धातु नवां-
शके क्रमसे जानने ॥ १३ ॥

गुल्मवलीलताकंदा मेषाद्येन्दोर्भ्रमत्रयात् ॥

पत्रं पुष्पं फलं मूलं त्वचा त्रिंशांशकाद्विधोः ॥ १४ ॥

गुल्म, बल्ली, लता, कन्द ये मेषादि चंद्रमाकी तीन आवृत्ति करनेसे क्रमपूर्वक
समझने । पत्र, पुष्प, फल, मूल, त्वचा ये चंद्रमाके त्रिंशांशके क्रमानुसार कहे ॥ १४ ॥

यातिविप्राधिकारिस्त्रीष्टान्त्यदस्यव ईरिताः ॥

सूर्याद्यर्क्षगते चंद्रे चिंतितः पुरुषो भवेत् ॥ १५ ॥

याति, विप, अधिकारी, स्त्री, इष्टपित्र, अन्त्यज, चौर ये सूर्यादि ग्रहोंकी राशि-
पर चंद्रमाके होनेसे क्रमानुसार समझने । परन्तु इनमें चिन्तित पुरुष है ऐसा
कथन करे ॥ १५ ॥

सूर्याद्यर्क्षे वदेच्चंद्रे कुष्ठं चिह्नं च दद्रु च ॥

मसकं तिलकं स्फोटघातं चिन्तितचौरयोः ॥ १६ ॥

सूर्यादि ग्रहोंकी राशिपर चंद्रमाके होनेसे चिन्तित पुरुष और चौरके शरीरमें
क्रमसे कुष्ठ, चिह्न, दद्रु, मसक, तिलक, स्फोट और घात बतावे ॥ १६ ॥

गौरोऽतिगौरः श्यामश्च श्यामो वानरसन्निभः ॥

त्रिंशांशकाद्भाव्यवर्णो नृणां व्युत्क्रमतस्त्वितः ॥ १७ ॥

गौर, अतिगौर, श्याम, वानरसमान श्याम इस प्रकार द्रव्यका वर्ण त्रिंशत्शसे क्रमपूर्वक कहे । परन्तु मनुष्योंका वर्ण इसके लौटनेसे कहे । जैसे वानरसमान श्याम, श्याम, अतिगौर, गौर इति ॥ १७ ॥

बालो युवा तथा वृद्धो द्रेष्काणस्य वशान्मताः ॥

सप्ततित्रिचतुःसूर्याः पंचाशद्रदवत्सराः ॥ १८ ॥

बाल, युवा, वृद्ध द्रेष्काणवशसे समझने । ७० । ३ । ४ । १२ । ५० । ३२ ये वर्ष सूर्यादि ग्रहोंकी अवस्थाके कहे हैं ॥ १८ ॥

सूर्यादीनां च वयसो वार्धक्यं बहु भास्करेः ॥

राजा भानुस्तपस्वीन्दुः स्वर्णकारः कुजो बुधः ॥ १९ ॥

(द्विजो गुरुर्वणिक् शुक्रो वैश्यः शूद्रः शनैश्वरः ॥

राहुर्निषाद इत्येते सर्वकार्येषु संमताः ॥ २० ॥

परन्तु शनैश्वरकी अतिवृद्धावस्था है, सूर्य राजा, चंद्रमा तपस्वी, मंगल सुनार, बुध ब्राह्मण, वृहस्पति वणिक, शुक्र वैश्य, शनि शूद्र, राहु निषाद सब कार्योंमें माने हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

भूपराशीमण्डलेशकुमारसचिवाभिधाः ॥

नेतृपत्यभिधाः सूर्यान्नवांशेशाद्विधोर्वदेत् ॥ २१ ॥

राजा, राणी, मण्डलेश, कुमार, मंत्री, नेता, पति ये चंद्रमाके नवांशसे सूर्यादि ग्रहोंसे कहे ॥ २१ ॥

वर्गेशादत्र भूमाने मूर्द्धा हस्तो निवर्तनम् ॥

अर्द्धक्रोशस्तथा क्रोशो द्विक्रोशो योजनं भवेत् ॥ २२ ॥

और इसी प्रश्नमें पृथ्वीका प्रमाण जाननेके लिये सूर्यादिक वर्गेशग्रहसे क्रमानुसार मूर्द्धा, हाथ, गज, अर्द्धकोश, कोश, दो कोश, योजन होते हैं ॥ २२ ॥

नाड्यहःपक्षमासर्तुपणमासाश्च समाः क्रमात् ॥

वर्गाक्षरगते चंद्रे वाच्यं चैवान्तराग्रहात् ॥ २३ ॥

घडी, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, पणमास और वर्ष इन वर्गके अक्षरपर चंद्रमा होनेसे मध्यमें जो सूर्यादि ग्रह हो उससे क्रमानुसार कहे ॥ २३ ॥

अथ तात्कालिकर्षचरणानयनम् ।

ग्रहलिप्ताः खखाष्टासा गतर्क्ष यदि चैव ताः ॥

शतद्वयहता याताश्ररणाहस्रभादितः ॥ २४ ॥

ग्रहकी लिप्ता (कलाओं) में ८०० का भाग देनेसे गतनक्षत्रसंख्या और उन्ही कलाओंमें २०० का भाग देनेसे जो लब्ध मिले सो अश्विनीसे लेकर गत चरण होते हैं, परन्तु ग्रहकी (राशि, अश, कला) सबकी कला करनी चाहिये ॥ २४ ॥

सप्तविंशतिभिर्निघ्ना उदितर्क्षेष्टनाडिकाः ॥

षष्ठ्याप्ता गतभैर्युक्ता दिने तत्कालभं गतम् ॥ २५ ॥

उदित नक्षत्रकी इष्ट घडी अर्थात् गतर्क्षको २७ गुणा करके ६० का भाग देनेपर जो लब्ध मिले उसमें गत नक्षत्रको जोड़ देवे तो तात्कालिक गत राशि होगी परन्तु याद रहे कि लब्धमें गत नक्षत्र जोड़नेसे जो २७ से अधिक हो तो सत्ताईस घटा देवे तो तात्कालिक गत राशि होगी ॥ २५ ॥

तत्कालचंद्रराशोर्दिकस्थाने च तदनन्तरम् ॥

तत्कालचंद्रभाद्रयाद्धृतनष्टपदं सुधीः ॥ २६ ॥

तात्कालिक चंद्रमाकी राशिकी दिशा और स्थान विचारे तदनन्तर चंद्रमाकी राशिसे हृत नष्ट वस्तुका स्थान बुद्धिमान् पंडित कहे ॥ २६ ॥

पुष्यार्द्राश्रुतिरोहिणीशतधनिष्ठाश्चोत्तराणां त्रयं ।

स्याद्धर्वास्यगणो नलान्तकमधारक्षोविशाखाहयः ॥

पूर्वाणां त्रितयं त्वधोमुखगणो ज्येष्ठादितिस्वातय- ।

श्रित्राहस्तहयाश्च मित्रविधुरेवत्यः समास्यो गणः ॥ २७ ॥

पुष्य, आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा ये ऊर्ध्वमुख नक्षत्र हैं, कृत्तिका, भरणी, मघा, मूल, विशाखा, आश्लेषा, तीनों पूर्वा ये अधोमुख नक्षत्र हैं; ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, चित्रा, इस्त, अश्विनी, अनुराधा, मृगशिर, रेवती ये समानमुख नक्षत्र हैं ॥ २७ ॥

ऊर्ध्ववर्क्षगे चंद्रे घृतमूर्ध्वमधोमुखे ॥

भे बिलादौ घरायां हि माध्यर्क्षे च तिरोधृतम् ॥

नक्षत्रयोनिता योनिं पश्वादीनां वदेद्बुधः ॥ २८ ॥

यादि चंद्रमा ऊर्ध्वमुख नक्षत्रपर हो तो ऊपर किसी स्थानमें, अधामुखपर हो तो बिल आदि नीचे स्थानमें पृथ्वीमें, समानमुखवाले नक्षत्रपर हो तो तिरछे स्थानमें हृत नष्ट वस्तु धरी है और नक्षत्रकी योनिसे पश्वादीकोंकी योनि कहे ॥ २८ ॥

अथ नवांशस्पष्टसाधनम् ।

खेटांशंस्त्रिभिराहत्य दशभिश्च विभाजयेत् ॥

ततो भयातशेषेण भादिर्नदांशक स्फुटः ॥ २९ ॥

ग्रहके अंशोंको ३ गुणा करके १० का भाग देनेसे जो लब्ध मिले उसमें भयात घटा देनेसे जो शेष रहे वह राशि, पूर्वमें दशका भाग देनेसे जो शेष रहे वह अंश जानना, यहही राश्यादि नवांश स्फुट हो जाता है ॥ २९ ॥

तत्कालराशिनक्षत्रे द्रेष्काणे च नवांशके ॥

दृष्ट्वा स्फुटतरं चंद्रं ततोऽवस्थां निरीक्षयेत् ॥ ३० ॥

तत्कालकी राशि और नक्षत्रमें, द्रेष्काणमें, नवांशमें चंद्रमा अतिस्पष्ट देखकर अवस्थाको देखे ॥ ३० ॥

विभचंद्रलवा द्विघ्नाः पंचभक्ताः फलं गताः ॥

अवस्थाभोग्यकायाश्च फलं ब्रूयान्निरन्तरम् ॥ ३१ ॥

राशिरहित चंद्रमाके अंशोंको दूना करके ५ का भाग दे जो मिले वही चंद्रमाकी गत अवस्था होती है, उन्हें छोड़कर वर्तमान अवस्थाका फल कहे ॥ ३१ ॥

प्रवासनाशौ मरणं जयश्च हास्यारतिः क्रीडितसुप्तभुक्ताः ॥

ज्वरप्रकंपस्थितयः क्रियादिचंद्रक्रमात्स्युः प्रथमा अवस्थाः ३२

प्रवास, नाश, मरण, जय, हास्य, रति, क्रीडित, सुप्त, भुक्त, ज्वर, प्रकंप, स्थिति ये अवस्था मेषादि चंद्रमाके क्रमसे पहिली पहिली हैं, जैसे मेषके चंद्रमाकी प्रथमावस्था प्रवास, वृषके चंद्रमाकी प्रथमावस्था नाश, मिथुनके चंद्रमाकी प्रथमा मरण, दूसरी जय इत्यादि समझ लेनी चाहिये ॥ ३२ ॥

यथावस्था विधौ राशौ तथा धिष्ण्यनवांशके ॥

आद्यपंचनवेशानां द्रेष्काणो निजराशितः ॥ ३३ ॥

जिस प्रकारसे चंद्रमाकी अवस्था राशिमें कही है उसी प्रकारसे नक्षत्रमें, नवांशमें तथा द्रेष्काणमें जाननी उचित है । अपनी राशिसे प्रथम, पंचम तथा नवम राशिके अधिपति ग्रहका द्रेष्काण क्रमसे होता है जैसे मेष राशिके प्रथम १० अंशोंका अधिप मंगल, उससे आगे दश अंशोंका अधिप सूर्य और उससे आगे १० अंशोंका अधिप बृहस्पति है, एवं वृषादि राशियोंमेंभी जानना ॥ ३३ ॥

अवस्था द्वादशा प्रोक्ताः स्वनामफलदा विधोः ॥

यथोत्तरबलावस्था राशिद्रेष्काणभागजाः ॥ ३४ ॥

चंद्रमाकी १२ अवस्था अपने नामके अनुसार फल देनेवाली कही है और राशि, द्रेष्काण और नवांश इनकी अवस्था यथोत्तर बलवती हैं अर्थात् राशिकी अवस्थासे द्रेष्काणावस्था बलवती है और द्रेष्काणावस्थासे नवांशावस्था बलवती है ॥ ३४ ॥

गमांगमकृता चिन्ता प्रवासी पृच्छकोऽथवा ॥

धनोद्देशेन वा चिन्ता प्रवासस्येति लक्षणम् ॥ ३५ ॥

जाने आनेकी चिन्ता है वा प्रवासी है वा पृच्छक है वा धनोद्देशसे चिन्ता है यह लक्षण प्रवासावस्थाका है ॥ ३५ ॥

बंधनं भूपतो भीतिवैरिक्रोधो गतो हतम् ॥

उद्वेगश्च तथा रौद्रं नाशफलमितीरितम् ॥ ३६ ॥

बंधन, राजासे भय, वैरीका क्रोध, जाना, हानि, उद्वेग, भयानक फल ये नाशावस्थाके लक्षण हैं ॥ ३६ ॥

मारणं मरणं क्रूरकर्म यात्रा मृतौ फलम् ॥

स्वस्य च स्वजनस्यापि जयस्याशा जयाफलम् ॥ ३७ ॥

मारना, मरना, क्रूर कर्म, यात्रा मरणावस्थाका फल है और अपनी वा पराई जयाशा करनी जयावस्थाका फल है ॥ ३७ ॥

स्वेभ्यः प्रीतिर्धनाकांक्षा स्त्रीगर्भो हास्यतः फलम् ॥

स्त्रिया वा मित्रतश्चिन्ता लाभालाभं यथाविधि ॥ ३८ ॥

अपने जनोंके लिये प्रसन्नता, धनकी आकांक्षा, स्त्रीगर्भ इत्यादि हास्यावस्थाका फल है । स्त्री वा मित्रसे चिन्ता, लाभ, यथाविधि अलाभ ॥ ३८ ॥

परम्पराकुलत्वं च रताविति फलं वदेत् ॥

सुतमित्रादिमांगल्यं चित्तोत्साहः सुखं तथा ॥ ३९ ॥

परम्परासे व्याकुलता होनी यह रत्यवस्थामें फल कहे । सुत मित्रादिका मंगल, कर्म, चित्तोत्साह, सुख ॥ ३९ ॥

लाभालाभस्य चिन्ता स्यादिति क्रीडागते विधौ ॥

स्वस्य च स्वजनस्यापि लाभशा सुप्तिते विधौ ॥ ४० ॥

लाभालाभकी चिन्ता यह क्रीडावस्थागत चंद्रमाका फल है । अपनी वा अपने जनकी लाभशा होनी यह सुप्तावस्थागत चंद्रमाका फल है ॥ ४० ॥

परोपसर्पणे चिन्ता लाभालाभौ ततः शुभम् ॥

कष्टं वापि वदेद्भुक्तावस्थायां यदि चंद्रमाः ॥ ४१ ॥

परायके समीप जानेकी चिंता, लाभ, अलाभ, वहांसे शुभ वा कष्ट ये मुक्तावस्थागत चंद्रमाका फल करे ॥ ४१ ॥

सुतस्त्रीद्रव्यतश्चिन्ता ज्ञेयश्चिन्ता ज्वराफलम् ॥

क्रूरकर्मभयं शत्रोर्दुःखचिन्ता प्रकम्पिते ॥

संगमे सुतमित्राणां द्रव्ये चिन्ताफलं स्थितौ ॥ ४२ ॥

पुत्र, स्त्री, द्रव्यसे चिन्ता होनी अथवा अन्य चिन्ता होनी यह ज्वरावस्थाका फल है । क्रूर कर्म, शत्रुसे भय, दुःख चिन्ता यह प्रकम्पितावस्थाका फल है । सुत मित्रके मिलनेमें वा द्रव्यके मिलनेमें चिन्ता होनी यहा स्थित्यवस्थाका फल है ॥ ४२ ॥

किंकरोतीति प्रश्ने विचारः ।

मकरराशिः पुमान् तस्य ज्वरावस्था पूर्वास्ति तत्र

चंद्रस्तृतीयावस्थायां ततो ज्वरावस्थातः तृतीया-

स्थितिरतः स्थितः इति ज्ञेयम् ॥

मकरराशि पुरुष है, उसकी प्रथमा ज्वरावस्था है, वहांसे चंद्रमा तीसरी अवरथा-में है, पीसरी अवस्थाका नाम स्थिति है इसीसे वह पुरुष स्थित है ऐसा जानना ॥

चौर्याय यामीति प्रश्ने विचारः

पापेऽङ्गे सौम्यदृष्टिर्वा चौर्यवादाग्रहात्सुखम् ॥

तदान्यथा भयं हानिर्बंधनं वा समादिशेत् ॥ १ ॥

लग्नमें पाप ग्रह हो वा शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो चोरी, वाद, आग्रह तथा कडाईसे सुख होता है और इससे अन्यथा हो तो भय, हानि वा बंधन कहे ॥ १ ॥

लग्नेशो वीक्षते लग्नं पापयोगेक्षणं विना ॥

तत्र चौर्यादिसंसिद्धिः परथा परथा भवेत् ॥ २ ॥

पापयोगेक्षणरहित लग्नको लग्नेश देखता हो चोरी, आदिकी संमिद्धि होती है, यदि इस प्रकारसे न हो असिद्धि होती है ॥ २ ॥

घने रिपौ व्यये छिद्रे लग्नेशः सदृशा विना ॥

हानिं भीतिं तथा बंधं मृतिं च क्रमतो वदेत् ॥ ३ ॥

२ । ६ । १२ । ८ इन घरोंमें लग्नेश शुभ ग्रहकी दृष्टिरहित स्थित हो तो क्रमसे हानि, भय, बंधन और मृत्यु कहे ॥ ३ ॥

किमाप्यामिति प्रश्ने विचारः ।

कुंजाकौ तनुगौ चौर्ये स्वर्णं रूप्यं सितोडुपौ ॥

सरलं हेम सौम्येज्यौ लौहं च शनिदानवौ ॥ ४ ॥

यदि मंगल सूर्य लग्नमें हो तो सुवर्ण, शुक्र चंद्रमा हों तो चांदी, बुध वृहस्पति हों तो रत्नसहित सुवर्ण, शनि राहु हों तो लोह मिलेगा ऐसा कहे ॥ ४ ॥

उभौ तनौ तनौ सौख्यं चौर्ये न शुभयोगतः ॥

चौर्यं स्यात्पापदृष्ट्या हि चौर्यसिद्धिर्न जायते ॥ ५ ॥

यदि ज्ञानि राहु दोनों लग्नमें हो तो चौर्य करनेमें शरीरविषै सुखकी प्राप्ति होती है और लग्नमें शुभ ग्रहका योग होनेसे अथवा पाप ग्रहकी दृष्टि होनेसे चौर्यकी सिद्धि नहीं होती है ॥ ५ ॥

चौर्यधनचौरयोः स्थानादित्यभप्रश्ने विचारः ।

अष्टेश्वरे सप्तममृत्युयाते प्रष्टुर्न लाभो द्रविणस्य चौरात् ॥

मृतीश्वरद्रव्यपतीत्तसाले नष्टं हतं वस्तु हि लभ्यमेव ॥ १ ॥

अष्टमेश्वर ग्रह सातवें वा आठवें हो तो पृछनेवालेको चौरसे धनका लाभ नहीं होता, अष्टमेश और धनेशका इत्तसाल हो तो नष्ट और हत वस्तुका लाभ हो जाता है ॥ १ ॥

वित्तलभेशयोः कर्माधीशयोश्च सुदृष्टितः ॥

राजा गृण्हाति तद्रव्यं चौरं बध्वा बलेन हि ॥ २ ॥

धनेश और अष्टमेशपर दशमेश और चतुर्थेशकी शुभ दृष्टि होनेसे राजा चौरको जवर्दस्तीसे बांधकर उस धनको छीन लेता है ॥ २ ॥

धनेशे भानुलुप्तांशौ चौरौ लभ्यो न तद्धनम् ॥

किञ्चित्स मुदिते द्रव्यनाथे लभ्यधनं लघु ॥ ३ ॥

धनेश सूर्यके साथ अस्त हो तो चौर मिल जाता है, परन्तु धन नहीं मिलता, यदि द्रव्येश किञ्चित् उदयको प्राप्त हो तो थोडा धन मिलता है ॥ ३ ॥

कर्माष्टेशोत्तसालेन राजा चौरस्य पक्षकृत् ॥

क्रूरत्तसाले हिमगौ नूनं चौरौ न चान्यथा ॥ ४ ॥

दशमेश और अष्टमेशका इत्तसाल होनेसे राजा चौरका पक्ष करनेवाला होता है । यदि चंद्रमा क्रूर ग्रहके इत्तसालमें हो तो निश्चयही चौर होता है, अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥

अलमेशदृष्टं धनं वीदयं चेत्खलाभेऽपि न स्यादवाप्तिः कदाचित् ॥

तपोभ्रातृनाथेत्तसाले धनेशेऽन्यदेशे धनं चौरितं वा प्रनष्टम् ॥५॥

दूसरा घर वा लग्न लघेशसे अदृष्ट हो तो धनलाभ होनेपरभी प्राप्ति कदाचित् नहीं हो । नवमेश वा तृतीयेशके इत्तसालमें धनेश हो तो चौरि किया वा प्रनष्ट धन विदेशमें चला गया है ऐसा कहे ॥ ५ ॥

तपोभ्रातृसंस्थग्रहेत्तसाले धनेशेऽथवा धर्मदुश्चिक्ययाते ॥

विदेशे गतं तद्धनं वावलमे चरक्षे हिमांशौ तु यातोऽन्यदेशे ॥६॥

नवमस्थ वा तृतीयस्थ ग्रहके साथ धनेशका इत्तसाल हो अथवा धनेश नौवें वा तीसरे घरमें स्थित हो तो वह धन विदेशमें चला गया, अथवा लग्नमें चर राशिका चंद्रमा हो तोभी अन्य देशमें चला गया ॥ ६ ॥

वपुःसप्तनाथेत्तसाले तनौ चेद्गृहे स्यात्सचौरोऽथ केंद्रेऽस्तनाथे ॥

पुरीमध्यगोऽथो तनौ चन्द्रभान्वोर्द्वयोर्वीक्षणात्तस्करः स्वीय एव ७

लघेश और सप्तमेशका इत्तसाल लग्नमें हो तो चौर घरमें है और जो सप्तमेश केंद्रमें हो तो पुरीके मध्यमें है, अथवा लग्नपर सूर्य चंद्रमा दोनोंकी दृष्टि होनेसे अपनाही जन चोर है ॥ ७ ॥

तनौ चेद्रवेर्वा विधोर्वीक्षणेन बलिष्ठस्य चौरः समीपस्थितः स्यात् ॥

यदा भानुपुत्रे स्मरेशे हिमांशोर्भवेद्दीक्षणं दम्भपाखण्डरूपी ॥८॥

लग्नपर सूर्य वा चंद्रमाकी दृष्टि होनेसे चौर किसी बलिष्ठ पुरुषके समीप ठहरा हुआ है, यदि सप्तमेश शनैश्वरपर चंद्रमाकी दृष्टि होवे तो छल कपट पाखण्डरूपी चोर है ॥ ८ ॥

नष्टं यस्य स मूर्तीशो नष्टात्मा चेन्दुभास्करौ ॥

जायेशश्चौररूपः स्यादेभ्यः कुर्याद्विनिश्चयम् ॥ ९ ॥

जिसका धन नष्ट हो गया है वह जन लघेश है और जो वस्तु नष्ट हो गई है सो सूर्य चंद्रमा है और सप्तमेश चौररूप है सो इन सबसे निश्चय करे ॥ ९ ॥

लमेशो मदने लमे वक्री जायेश्वरस्तदा ॥

पुरस्थमपि यद्वस्तु हतं नैवाप्यते कदा ॥ १० ॥

लघेश सातवें घरमें और वक्री सप्तमेश लग्नमें हो तो जो वस्तु चौरि गई है सो पुरमेंही रखी है किन्तु किसी प्रकारसे मिलेगी नहीं ॥ १० ॥

लग्नेशः संखलः पश्येज्जायेशं धनपो बली ॥

भानुचंद्रौ बलिष्ठौ चेत्तदा प्रत्यक्षचौरितम् ॥ ११ ॥

यदि पापग्रहसहित लग्नेश सप्तमेशको देखता हो, धनेश बलवान् हो तथा सूर्य चंद्रमाभी बलिष्ठ हों तो वह धन प्रत्यक्ष चुराया है ॥ ११ ॥

सलग्ननाथः क्षीणेन्दुर्बली जायेश्वरोऽपि वा ॥

लग्नेशादुर्बलश्रंद्रोऽङ्गेशयुक् स्वपुरो हतम् ॥ १२ ॥

यदि क्षीण चंद्रमा लग्नेशसे युक्त हो, सप्तमेश बलवान् हो, चंद्रमा लग्नेशसे दुर्बल होकर लग्नेशके साथमें हो तो सामने चुराया है ॥ १२ ॥

जायेशो भास्करान्मृत्यौ प्रत्यक्षं तद्धृतं धनम् ॥

लग्नेशः सप्तमं नैव वीक्षते बलवान् विधुः ॥ १३ ॥

सप्तमेश सूर्यसे आठवें घरमें हो तो वह धन सामने चौरा किया गया है । लग्नेश सातवें घरको नहीं देखता हो, पापयुक्त चंद्रमा बलवान् हो तो ॥ १३ ॥

सपापश्च तदा चौरैः प्रत्यक्षं चोरितं धनम् ॥

सप्तेशोऽस्तं गते यद्वा केंद्रे चौरौ मृतो भवेत् ॥ १४ ॥

चौरोंने वह धन प्रत्यक्ष चुराया है । सप्तमेश अस्तका हो वा केंद्रमें हो तो चौर मर गया ऐसा कहे ॥ १४ ॥

चंद्रमेशो विधुं पश्यन्नष्टद्रव्यासिद्धो भवेत् ॥

सप्तमे यदि पापः स्याद्द्रव्यश्रौरो नृपाज्ञया ॥ १५ ॥

चंद्रमाकी राशिका पति चंद्रमाको देखता हो तो नष्ट द्रव्यकी प्राप्ति करता है । यदि सातवें घरमें पाप ग्रह हो तो राजाकी आज्ञासे चौर मारा जायगा ऐसा कहे ॥ १५ ॥

सप्तमे यदि शुभो न हतासिश्चेद्बली हिमगुरुर्द्रुतमासिः ॥

चेत्कृशो द्रुतमवातिकरश्चेदस्तगस्तनुपतिर्न हतासिः ॥ १६ ॥

सातवें घरमें यदि शुभ ग्रह हो तो चौरा गये धनकी प्राप्ति नहीं होती । यदि बलवान् चंद्रमा हो तो शीघ्रही प्राप्ति होती है । यदि चंद्रमा क्षीण हो तोभी शीघ्र प्राप्ति होती है । यदि लग्नेश सातवें हो तो हत वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १६ ॥

लग्नेशो लग्नगो लग्नजायानायकयोर्युतिः ॥

सूर्येन्दू स्वगृहांशे चेत्तदा चौरः स्ववेश्मनि ॥ १७ ॥

लग्नेश लग्नमें हो अथवा लग्नेश सप्तमेशका योग हो, सूर्य और चंद्रमा अपने घरके नवांशमें हों तो चौर अपने मकानमें है ॥ १७ ॥

सप्तमेशो यदा तुंगे स्वामी चौरोऽथवाम्बिका ॥

स्वांशत्रिंशांशकत्र्यंशे स चेत्स्वीयो हरः स्मृतः ॥ १८ ॥

सप्तमेश यदि उच्चका हो तो स्वामी अथवा माता चोर है । यदि वहही सप्तमेश अपने नवांश वा त्रिंशांश वा द्रेष्काणमें हो तो अपनाही चोर है ऐसा बतावे ॥ १८ ॥

सप्तमेशोऽगार्थरिःफेऽर्कः पिता दस्युः स चेद्विधुः ॥

माता च भूमिजो भ्राता विचेन्मित्रं गुरुर्यदा ॥ १९ ॥

यदि सप्तमेश तथा सूर्य लग्न, द्वितीय वा वारहवें घरमें हो तो पिता चोर है । यदि सप्तमेश चंद्रमा हो तो माता, मंगल हो तो भ्राता, बुध हो तो मित्र, बृहस्पति हो तो ॥ १९ ॥

पुत्रो वा लौल्यतो वास्तुप्रधानो चौर्यकृद्यदा ॥

भृगुश्चेत्स्त्री यदा मंदो दासी च स्वगृहे भवेत् ॥ २० ॥

पुत्र अथवा चंचलतासे घरका मुखिया चोर है । यदि शुक्र सप्तमेश हो तो स्त्री, शनैश्वर हो तो अपने घरकी दासी चौर है ऐसा कहे ॥ २० ॥

लग्नेन्दू चेच्छनिः पश्येच्चौरः पाखण्डरूपधृक् ॥

गांधर्वस्तु भृगुश्चौरो विशेषोऽयमुदाहृतः ॥ २१ ॥

यदि लग्न चंद्रमाको शनैश्वर देखता हो तो पाखण्डरूपधारी चौर है और जो शुक्र देखता हो तो गानेवाला जन चौर है इतना विशेष कहा है ॥ २१ ॥

तदा वध्वा हृतं द्रव्यं जायेशो यदि सप्तमे ॥

सरे भानौ भृगौ वापि पिता चौरौ गुरौ गृहेद् ॥ २२ ॥

यदि सप्तमेश सातवें घरमें हो तो वधूने द्रव्य चुराया है और जो सातवें सूर्य वा शुक्र हो तो पिता चोर है, बृहस्पति हो तो घरका मालिक चौर है ॥ २२ ॥

मंदो दासी बुधे स्वीयः कुजो पुत्रोऽथवानुजः ॥

सप्तमे न ग्रहश्चेत्स्यात्तनौ पूर्णविधौ परः ॥ २३ ॥

शनि हो तो दासी, बुध हो तो आपही, मंगल हो तो पुत्र अथवा छोटा भाई चौर जानना, यदि सातवें घरमें कोई ग्रह न हो और लग्नमें पूर्ण चंद्रमा हो तो पर-पुरुष चोर है ऐसा जाने ॥ २३ ॥

मेघे तनौ द्विजश्रौरो वृषे क्षत्री नृयुग्मके ॥

वैश्यः कर्के च शूद्रश्च सिंहे नीचः स्त्रियां वधूः ॥ २४ ॥

जो मेघ लग्न हो तो ब्राह्मण, वृष हो तो क्षत्री, मिथुन हो तो वैश्य, कर्क हो तो शूद्र, सिंह हो तो नीच, कन्या हो तो वधू ॥ २४ ॥

तुलायां पुत्रमित्रानुजाताश्चालौ हि सेवकः ॥

चापे भ्रातास्त्रियो वापि मत्स्ये वारांगना घटे ॥ २५ ॥

तुला हो तो पुत्र वा मित्र वा छोटा भाई, वृश्चिक हो तो सेवक, धनु हो तो भ्राता, मकर हो तो स्त्री, कुंभ हो तो वारांगना ॥ २५ ॥

मूषको मीनभे भूमिस्त्वङ्गे क्षीणोऽस्ति तल्लवे ॥

चौरस्य कर्ममृत्तिपादाकारं स्मरपाद्भेद ॥ २६ ॥

मीन हो तो मूषक, यदि लग्न और लग्नका नवांश निर्वल हो तो भूमि चौर है ऐसा कहे । अष्टमेशसे चौरका कर्म और सप्तमेशसे चौरका आकार कहे ॥ २६ ॥

एकद्वारं स्थिरे चंद्रे यत्र चौरोऽस्ति तद्दिशि ॥

लग्नतश्चंद्रमा यत्र तत्र चौरगृहं वदेत् ॥ २७ ॥

यदि चंद्रमा स्थिर राशिका हो तो चौर जिस दिशामें रहता है उस दिशामें उसके घरका एक दरवाजा है और लग्नसे चंद्रमा जिस दिशामें हो उसी तर्फ चौरका घर कहे ॥ २७ ॥

एकद्वारं स्थिरे चंद्रे द्वयंगे द्वारद्वयं भवेत् ॥

लग्नं प्राचीखभं याम्या सुखं सौम्याऽगना परा ॥ २८ ॥

जो स्थिर राशिका चंद्रमा हो घरका एक द्वार, द्विस्वभाव राशिका हो तो दो द्वार चौरके घरके होते हैं । लग्न तो पूर्वदिशा, दशवां घर दक्षिण, चौथा उत्तर और सातवां पश्चिम दिशा है ॥ २८ ॥

चरोऽम्बुनि चलं वस्तु स्थिरे भूमौ द्विदेहके ॥

तिर्यक् मञ्चादिके वोचैः चंद्रे दृष्ट्यानुमानतः ॥ २९ ॥

यदि चर राशिका चंद्रमा हो तो जलमें चलनेवाली वस्तु, स्थिर राशिका हो तो पृथ्वीमें चलनेवाली, द्विस्वभाव राशिका हो तो तिर्यक् स्थानमें वस्तुको कहे, अथवा उच्चका चंद्रमा हो तो किसी उच्च मंचानपर रखी हुई बतावे, अथवा दृष्टिके अनुमानसे कथन करे जैसे पूछनेवाला ऊपरको दृष्टि करके प्रश्न करे तो ऊंची जगह,

नचिको दृष्टि करके पूछे तो नीची जगह भूमि आदि और जो समान दृष्टि करके पूछे तो मकानके बीचमें रक्खी है ॥ २९ ॥

यदा चौरग्रहो राशिं विहाय च परं व्रजेत् ॥

तदैव स्वपुराद्याति मार्गं ब्रूयादिहांशकात् ॥ ३० ॥

यदि चौरका ग्रह राशिको छोडकर दूसरीपर जब जाता है तबही चौर अपने पुरसे निकल जाता है और उसके मार्गको नवांशसे कहे ॥ ३० ॥

लग्नेशो वक्रगो भूत्वा यदा राशिं समुत्सृजेत् ॥

तदा नूनं समायाति चौर्यकृत्स्वपुरं प्रति ॥ ३१ ॥

लग्नेश वक्री होकर जिस समय राशिको त्यागता है, उसी समय चोर अपने पुरको चला आता है ॥ ३१ ॥

मंदे सप्तमगे चौरौ रुद्धो वा पीडितो भवेत् ॥

स्थिरे तत्र चिरं रोगी तत्राष्टेशे मृतिर्भवेत् ॥ ३२ ॥

यदि शनि सातवें हो तो चौर घिरा हुआ वा पीडित है और जो सातवें घरमें स्थिर राशि हो तो बहुत काळसे बीमार है । यदि वहां सातवें घरमें अष्टमेश हो तो चोर मर गया है ऐसा कहे ॥ ३२ ॥

यदा सप्तपतिः सिंहे चौर एको यदा झषे ॥

मिथुने च तदा चौरा बहवोऽथ स्थिरर्क्षगे ॥ ३३ ॥

यदि सप्तमेश सिंहराशिपर हो तो चोर एक और मीन वा मिथुनपर हो तो चोर बहुत हैं । स्वल्पसंतानवाली स्थिर राशिपर ॥ ३३ ॥

खल्पापत्ये भवेदेको द्वयंशे चौरा बहुप्रजे ॥

चरे ग्रामान्तरं यातः स्थिरे देशे द्विदेहभे ॥ ३४ ॥

सप्तमेश हो तो चोर एक और बहुसंतानवाली द्विस्वभाव राशिपर हो तो चोर बहुत हैं । यदि चर राशिपर सप्तमेश हो तो ग्रामान्तरको चला गया, जो स्थिर राशिपर हो तो देशमें है और द्विस्वभाव राशिपर हो तो ॥ ३४ ॥

मार्गे चौरौऽथ सप्तेशे स्त्रीखेटे सप्तमस्थिते ॥

स्त्रीग्रहैर्वीक्षिते स्त्री स्याद्बुधभृग्वोर्हि गुर्विणी ॥ ३५ ॥

मार्गमें चोर है ऐसा कहे । यदि सप्तमेश स्त्रीग्रह सातवें घरमें स्थित हो और स्त्रीग्रहोंसे दृष्ट हो तो स्त्री चोर है और जो बुध शुक्र हों तो गर्भवती स्त्री है ॥ ३५ ॥

यदि गुरुरधिपुत्री चेच्छनिर्वृद्धनारी यदि समुदितमंदोऽती
व वृद्धा कुजश्चेत् ॥ वयसि भवति मध्या चेद्भिधुर्लग्नयातो
न भवति हि विशेषोऽयं फलार्हः कदाचित् ॥ ३६ ॥

बृहस्पति हो तो बडी पुत्री, शनि हो तो वृद्ध स्त्री और यदि शनि उदित हो तो अतिवृद्ध स्त्री, मंगल हो तो मध्यमावस्थावाली स्त्री है ऐसा कहे । परन्तु जो चंद्रमा लग्नमें हो तो यह विशेष कथन फलके योग्य कदापि नहीं होता अर्थात् इस कथनके द्वारा फल कहना नहीं चाहिये ॥ ३६ ॥

अथ तनुनवभागान्मूकवद्वस्तुसंज्ञां तनुतनुपबलीयो वर्ण-
तांगाधिनाथे अबलिनि सुषिरत्वं सद्बलेऽन्तर्बलित्वं जितग-
तकरनीचेऽश्मानता वस्तुनः स्यात् ॥ ३७ ॥

अब अन्य बात कहते हैं कि लग्नके नवांशसे मूकप्रश्नके समान वस्तुकी संज्ञाको कहे और लग्न तथा लग्नशमें जो बली हो उससे वस्तुका रंग और यदि लग्नशे निर्वल हो तो वस्तुकी सुषिरता (छिद्र आदि) और यदि लग्नशे पूर्ण बलवान हो तो भीतरसे वस्तु गेस वा सारवाली है । यदि लग्नशे किसी ग्रहसे पराजित वा अस्तंगत वा नीचका हो तो वस्तुकी कठोरता रहे ॥ ३७ ॥

तनुनवांशमतो लघुमध्यदीर्घसदृशं च ततोऽगलवेशिनः ॥

नियमतोस्तमितिश्च तनोर्दकाणत उ चौर्यकरोऽथ तनोर्भूतः ॥

भवति चौरकदेशदिशोंगपाद्भवयोमितिजातिगुणाः स्मृताः ३८

लग्नके नवांशकी राशिसे वस्तुका लघु, मध्य, दीर्घ, समानपन कहे और लग्नके नवांशपतिके नियमसे वस्तुकी कोणसंख्या और लग्नके द्रेष्काणसे चोर, लग्नकी राशिसे चोरके देशकी दिशा और लग्नशसे चौरकी अवस्था, जाति तथा गुण कहे ॥ ३८ ॥

मेषस्य पूर्वत्रिलवेऽरुणाक्षो ना रौद्रशस्त्री द्वितये वधूश्च ॥

कुम्भोदरी दीर्घमुखी च रक्तवस्त्रा तृतीये कपिलश्च दण्डी ॥ ३९ ॥

मेषके प्रथम द्रेष्काणमें भयानक शस्त्रधारी लाल नेत्रोंवाला पुरुष है । दूसरे द्रेष्काणमें घडे समान पेटवाली, दीर्घमुखी, काल वस्त्रोंवाली स्त्री है । तीसरे द्रेष्काणमें कपिलवर्ण, दण्डधारी ॥ ३९ ॥

रक्तांबरो नाऽथ वृषस्य पूर्वे वधूर्द्वितीये पशुवन्नरोऽन्त्ये ॥

बृहत्तनुर्ना मिथुनस्य पूर्वे रजस्वला भूषणकार्यदक्षा ॥ ४० ॥

लाल बत्नोंवाला पुरुष है । वृषके प्रथम द्रेष्काणमें स्त्री, २ में पशुसमान नर, ३ में बड़े शरीरवाला पुरुष है । मिथुनके १ में रजस्वला, भूषण और कार्यके वनानेमें चतुर ॥ ४० ॥

अनुप्रजालज्जितरूपिणी च द्वितीय उद्यानगतो धनुष्मान् ॥

नरस्तृतीये सुमतिः सुरत्नी धन्वी नरो कर्कटकस्य पूर्वे ॥४१॥

पछि लगी हुई संतानवाली, लज्जावती, रूपवाली स्त्री है, २ में वगचिमें रहने-वाला धनुर्धारी पुरुष है, ३ में सुन्दर बुद्धिवाला पण्डित, अच्छे रत्नोंवाला धनुर्धारी पुरुष है । कर्कके १ में ॥ ४१ ॥

मातंगकायः पुरुषश्च कोलाननो द्वितीये रुदती हि नारी ॥

सुकर्कशा वै त्रितये प्लवस्थः सपीवृतो ना चिपिटास्यभूषी ॥४२॥

हाथीके तुल्य शरीरवाला, सूकरसमान मुखवाला पुरुष है, २ में रोती हुई, कर्कशा स्त्री है, २ में नौकामें बैठा हुआ, सपोंसे धिरा हुआ, आभूषण पहिने हुए, चिपटे मुखवाला पुरुष है ॥ ४२ ॥

सिंहस्य पूर्वे हरिगृद्धपूर्वग्राही द्विके धन्विनताग्रनासः ॥

तृतीयके त्वक्षमुखश्च दण्डी कूर्ची च वक्रांगरुहः कुमार्याः ॥४३॥

सिंहके १ में सिंह, वानर, गीध आदिका पकढनेवाला पुरुष है, २ में धनुर्धारी और जिसकी नासिकाका अग्रभाग नीचेको नवा हुआ है ऐसा पुरुष है, ३ में रीछ-समान मुखवाला, दंडधारी, ऊंची कुर्चवाला, घुंघराले केशोंवाला पुरुष है । कन्याके ४३

पुरान्त्ययोः स्त्री विवरे सरोभा श्यामो धनुष्मान् धृतलेखको ना ॥

तुलस्य पूर्वे नव आपणस्थस्तुलाभृदन्तक्षुधितस्तृषार्त्तः ॥ ४४ ॥

१ और ३ में स्त्री, २ में रोमोंवाला, धनुर्धारी, लिखनेवाला पुरुष है । तुलाके १ में नवीन अवस्थावाला, बाजारमें रहनेवाला, तराजू धारण करनेवाला है, २ में भूख प्याससे पीडित पुरुष है ॥ ४४ ॥

तृतीयके किन्नररवच्च रौद्रो वनेचरो ना युधभृत्सुरत्नः ॥

अलौ पुरा भूषणवस्त्रहीना मनोरमा सर्पनिबद्धपादा ॥ ४५ ॥

३ में किन्नरके समान शरीरवाला, भयानक, वनमें विचरनेवाला, आयुध धारण करनेवाला, सुन्दर रत्न पहिनेवाला पुरुष है । वृश्चिकके १ में भूषण वस्त्रोंसे हीन, पावोंमें सर्प लपटे हुए सुन्दर स्त्री है ॥ ४५ ॥

द्वितीयके कच्छपकुम्भकाया सर्पावृता स्त्री त्रितये हृदार्थी ॥

श्वकोलपादश्रिपिटाननोना हयस्य पूर्वे च धनुर्धरो ना ॥ ४६ ॥

२ में कच्छपके कुंभसमान शरीरवाली, सर्पोंसे घिरी हुई स्त्री है, ३ में जलके कुंडका चाहनेवाला, कुत्ता शूकरके समान पैरवाला, चिपटे मुखवाला पुरुष है । धनुके १ में धनुषधारी पुरुष है ॥ ४६ ॥

द्वितीयके रत्नधरा मनोज्ञा हेमाभवर्णा त्रितये च कूर्ची ॥

दण्डी च पट्टांबरचर्मधारी मत्स्यस्य पूर्वे मकराभट्टः ॥ ४७ ॥

२ में रत्न पहिने हुए सुवर्णके रंगके समान वर्णवाली सुन्दर स्त्री है, ३ में लम्बी, ऊंची, ढाढी मूछोंवाला, दण्ड लिये हुए, रेशमीन वस्त्र और चर्मको धारण किये हुए पुरुष है । मकरके १ में घडियालके समान दीखता हुआ ॥ ४७ ॥

रोमान्वितो रौद्रमुखो द्वितीये श्यामा सुरूपारुणवस्त्रभृत्स्त्री ॥

तृतीयके कंबलतूणचापी दीर्घाननो ना कलशस्य पूर्वे ॥ ४८ ॥

रोमोंसे युक्त, भयानक मुख पुरुष है, २ में श्याम शरीरवाली, सुरूपा, लाल वस्त्र पहिने हुए स्त्री है, ३ में कंबल, तरकस, धनुष धारण किये हुए, दीर्घ मुखवाला पुरुष है । कुम्भके १ में ॥ ४८ ॥

गृह्णाननः कंबलभृद्वितीये स्त्री रक्तवस्त्रा त्रितयेऽतिकृष्णः ॥

सरोमकर्णस्तु झषस्य पूर्वे नौस्थो नरो मौक्तिकशंखरत्नी ॥

मध्येऽथ गौरा रमणी तृतीये नम्रोऽहिभृन्नेति दृकाणरूपम् ॥ ४९ ॥

गांधिसमान मुख, कंबल धारण किये पुरुष है, २ में लाल वस्त्रोंवाली स्त्री है ३ में अत्यन्त काला, कानोंपर रोमोंवाला पुरुष है । मीनके १ में नौकामें बैठा, मोती, शंख, रत्न हाथमें लिये हुए पुरुष है, २ में गौरांगी स्त्री है, ३ में नंगा, सर्प धारण किये पुरुष है । ये द्रेष्काणोंके रूप कहे हैं ॥ ४९ ॥

अजेऽजभूमौ गवि गोकुलादौ युग्मे श्मशाने इणगीतभूम्योः ॥

कर्केऽम्बुपार्श्वे च हरौ वने च स्त्रियां प्लवे तौलिनि पण्यदेशे ॥ ५० ॥

मेषमें बकरेके रहनेकी जगह, वृषमें गौओंके रहनेकी भूमि, मिथुनमें श्मशान, मृगोंकी और गानेकी भूमि, कर्कमें जलके समीप, सिंहमें वन, कन्यामें नौका, तुलामें वाजार ॥ ५० ॥

अलौ विलान्तश्च हयेऽश्वगेहे मृगेऽम्बुभूधीवरपूर्वदेशे ॥

घटे कुलालादिगृहे घटाम्बुपार्श्वे च मीनेऽम्बुजलाशयादौ ॥५१॥

वृश्चिकमें जलके भीतर, धनुमें घुडशाल, मकरमें जलसमीप अथवा धीवरादिका घर, कुंभमें कुम्हार आदिका घर अथवा घडे और जलके समीप, मीनमें जल वा जलाशयादिकमें ॥ ५१ ॥

यद्वा स्त्रियां क्षेत्रभूमौ नृभे नानागृहे भुवि ॥

चतुष्पदेऽश्वशालादौ जलक्षेऽभः स्थले भवेत् ॥ ५२ ॥

अथवा स्त्रीभंजक राशियोंमें खेत आदिकी भूमि और पुरुषसंज्ञक राशियोंमें अनेक प्रकारके घर और भूमि, चतुष्पादसंज्ञक राशियोंमें अश्वशालादि, जलचर राशियोंमें जल, स्थल विषै चोरादिका स्थान कहे ॥ ५२ ॥

रवौ सुखे स्वशय्यायां चंद्रेऽम्भसि च भूसुते ॥

गोपुस्तयोः पदे सौम्ये चित्रशाल्यां गुरौ वने ॥ ५३ ॥

यदि सूर्य चौथे घरमें हो तो अपनी शय्यापर, चंद्रमा हो तो जलमें, मंगल हो तो गौ और कारीगरके मकानमें, बुध हो तो चित्रशालामें, बृहस्पति हो तो वनमें ॥ ५३ ॥

देवालये वा शुक्रे स्त्रीशय्यायां रविन्दने ॥

प्रान्ते तमोमये स्थाने गेहे ज्ञाते वदेदिति ॥ ५४ ॥

वा देवालयमें, शुक्र हो तो स्त्रीकी सेजपर, शनि हो तो अन्धकारमय घरके कोनेमें, यह फल घरके जान लेनेपर कहना चाहिये ॥ ५४ ॥

प्रथमांशे विधौ मेषे घटितं स्वर्णरूप्यवत् ॥

तत्रेज्यशुक्रदृष्टिश्चेद्रत्नमापणगं वदेत् ॥ ५५ ॥

यदि मेषका चंद्रमा मेषके प्रथम नवांशमें हो तो सोने चांदीकी बनी हुई वस्तु है और जो उस चंद्रमापर शुक्र बृहस्पतिकी दृष्टि हो तो वाजारका रत्न है ऐसा कहे ॥ ५५ ॥

वर्गोत्तमे वृषे चंद्रलंकारं भौमवीक्षिते ॥

अयोऽतीचाखदृष्टे जीर्णं मिथुनगे विधौ ॥ ५६ ॥

वृषका चंद्रमा वर्गोत्तम नवांशमें हो तो अलंकार, मंगल देखता हो तो लोहा और यदि अतीचारी ग्रहसे दृष्ट हो तो जीर्ण वस्तु है, मिथुनका चंद्रमा वर्गोत्तम नवांशमें हो तो ॥ ५६ ॥

वर्गोत्तमेषुजं वस्तु कर्के वर्गोत्तमे विधौ ॥

सुवर्णमेवं सिंहेन्दौ रौप्यं स्वर्णं रवीक्षिते ॥ ५७ ॥

जलसे पैदा हुई वस्तु, कर्कका चंद्रमा वर्गोत्तम नवांशमें हो तो सुवर्ण और सिंह चंद्रमाका वर्गोत्तम नवांशमें हो तो चांदी, सूर्य देखता हो तो सुवर्ण ॥ ५७ ॥

कन्येन्दौ कांस्यलोहादि पाषाणं बुधवीक्षिते ॥

केवलस्य भृगोर्दृष्ट्या वस्त्रं चंद्रे तुलास्थिते ॥ ५८ ॥

कन्याके चंद्रमा हो तो कांस्य लोहादि, बुध देखता हो तो पत्थर, केवल शुक्र देखता हो तो वस्त्र और तुलाके चंद्रमा हो तो ॥ ५८ ॥

तौल्यं वस्तु भृगोर्दृष्ट्या वदेद्वा गन्धवाससी ॥

वृश्चिके कुजदृष्ट्या हि स्वर्णं रौप्यं धनुर्धरे ॥ ५९ ॥

जीवेक्षिते भवेद्रत्नं मृगेन्दौ स्वल्पभास्करम् ॥

जीवेक्षिते सुवर्णाद्यं कुंभे मुद्रा रवीक्षिते ॥ ६० ॥

तोलनेके योग्य वस्तु, शुक्र देखता हो तो गंध और वस्त्र, वृश्चिकके चंद्रमा हो और मंगल देखता हो तो सोना, चांदी है ऐसा कहे । धनके चंद्रमा बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो रत्न, मकरके हो तो थोडा चमकदार रत्न और बृहस्पति देखता हो तो सुवर्णादिक, कुंभके चंद्रमा सूर्यसे दृष्ट हो तो मुद्रा ॥ ५९ ॥ ६० ॥

मीने काचादिवज्जीववीक्षिते मौक्तिकं हतम् ॥

लग्ने सूर्येक्षिते घसे चेन्दुदृष्टे हतं निशि ॥

द्वादशेन्दौ हतं भुक्तं निर्बले शेषमल्पकम् ॥ ६१ ॥

मीनके हो तो काचादिवाली वस्तु, बृहस्पति देखता हो तो मोती चौरी गया है ऐसा कहे । यदि लग्न सूर्यसे दृष्ट हो तो दिनमें, चंद्रमासे दृष्ट हो तो रात्रिमें चौरी हुई कहे । वारहवां चंद्रमा हो तो चौरी गई वस्तु खर्चमें अर गई और जो निर्बल चंद्रमा हो तो थोडीसी बाकी रही कहे ॥ ६१ ॥

अथ नामबन्धः ।

द्व्यक्षरं तनुगते चरभांशे त्र्यक्षरं स्थिरलवेऽस्ति च नाम ॥

नामयुग्ममुभयाङ्गलवे पंचत्रिवर्णमु दलक्रमतो वा ॥ १ ॥

यदि लग्नमें चर राशिका नवांश हो तो नामके दो अक्षर और स्थिर राशिका

नवांश हो तो तीन अक्षर, द्विस्वभाव राशिका नवांश हो तो नामके युग्म अक्षर, अथवा दलके क्रमसे नामके पांच और तीन वर्ण कहे अर्थात् लग्नका पूर्वदल हो तो पांच और परदल हो तो तीन वर्ण जानने ॥ १ ॥

द्विस्वभावलवे शुभदृष्टे स्यादृकाणागतिरेव यदेश ॥

तां ब्रवीमि विशदां बुधतुष्ट्यै सज्जनाः शृणुत नामविधाने ॥२॥

यदि द्विस्वभाव राशिका नवांश शुभ ग्रहसे दृष्ट हो और द्रेष्काणकी गतिही इष्ट हो तो नामविधानमें उस द्रेष्काणकी चालको पढितोकी प्रसन्नताके लिये स्पष्ट कहता हूँ, हे सज्जनपुरुषों! तुम सुनो ॥ २ ॥

ओजर्क्षे तनुगे त्रिपंचकनगा वर्णा दृकाणक्रमात् ।

युग्मे द्यब्धिरसाश्च तेऽपि बलिसदृशा ब्रजेयुश्च यम् ॥

तत्रोजे विषमाः समाश्च समभे यद्वा स्ववर्णान्विते ।

लग्ने स्वेशदृशैकवर्ण इति नाम्नो मात्रिकान्यो भवेत् ॥ ३ ॥

यदि विषम लग्न हो तो द्रेष्काणके क्रमसे तीन, पांच, सात वर्ण और सम लग्न हो तो द्रेष्काणक्रमसे २ । ४ । ६ वर्ण नाममें जानने चाहिये । यदि उक्त द्रेष्काण बली शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो उक्त वर्ण बहुलताको प्राप्त होता है; तहाँ विषम राशि हो तो विषम और सम राशि हो तो सम वर्ण बहुत होते है । अथवा अपने वर्गसे युक्त लग्नपर लग्नेशकी दृष्टि होनेसे मात्रा है अन्तमें जिसके ऐसा नामका एक अक्षर है ॥ ३ ॥

अवर्गेशो भानुः कुजभृगुबुधेज्यार्कतनयाः कचादीनामी-

शाः परलवमुखक्षान्तमु पतिः ॥ विधुर्लशाम्बुस्त्रीदशनव-

लवाद्यक्षरयुतेः क्रमाद्वर्णानाम्नोऽक्षरबहुलतायां पुनरिति ॥ ४ ॥

अवर्गका ईश सूर्य और कवर्ग चवर्गादिका स्वामी मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति तथा शनैश्चर क्रमसे हैं और यरलवसे लेकर क्षकारपर्यन्त अर्थात् यरलवशषसह इनका पति चंद्रमा है । लग्न, चतुर्थ; सप्तम, दशम इन घरोंके नवांशोंके आद्यक्षर क्रमसे जोडनेसे नामके वर्ण होते हैं और जो नामके बहुत अक्षर हों तो फिरभी यहही नवांशोंके वर्ण होते हैं ॥ ४ ॥

नवांशवर्णाः ।

एतद्वर्णोपपत्तिः प्रस्तारतो वा रज्जुवेधतो द्रष्टव्या

नवांशाक्षराग्नेऽकाः वर्गाक्षरसंख्यासूत्रकाः ॥

इन वर्णोंकी उपपत्ति प्रस्तारसे वा रज्जुबेधसे देखनी चाहिये और निम्न लिखित चक्रमें नवांशाक्षरोंके आगे जो अङ्क हैं सो वर्णाक्षरोंकी संख्याके सूचक हैं ॥

मेष	वृष	मि.	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चि.	धनु	मकर	कुंभ	मीन	राशिनाम
क १	प १	झ ४	छ ३	ख २	फ २	ज ५	ष २	ग ३	व ३	च १	य १	प्रथमनवा- शाक्षरा
च १	फ २	घ ४	इ ३	छ २	ब ३	ड ५	उ ५	ज ३	भ ४	क १	ऐ ८	द्वितीयनवा- शाक्षरा
ट १	थ २	द ३	ट १	ठ २	द ३	ष ४	ठ २	ड ३	घ ४	न ५	ड ३	तृतीयनवा- शाक्षरा.
य १	ग ३	व ३	च १	ब ३	घ ४	भ ४	छ २	स ३	ड ५	म ५	ज ३	चतुर्थनवा- शाक्षरा
झ १	ज ३	भ ४	क १	झ ४	झ ४	म ५	ख २	ऊ ६	ज ५	प १	ग ३	पंचमनवा- शाक्षराः
ठ २	ड ३	घ ४	न ५	ड ३	ड ४	न ५	त १	ड ४	ण ५	त १	थ २	षष्ठनवाशा- क्षरा
छ २	र २	ड ५	म ५	ज ३	श १	क १	प १	झ ४	ह ४	ख २	फ २	सप्तमनवा- शाक्षराः
ख २	आ २	ज ५	प १	ग ३	उ ५	च १	फ २	घ ४	ए ७	छ २	व ३	अष्टमनवा- शाक्षरा
त २	ढ ४	ण ५	त १	थ २	ण ५	ट १	थ २	द ३	ट १	ठ २	द ३	नवमनवा- शाक्षराः

नवांशवर्णाः ।

नामानि चाग्न्यम्बुकुमारविष्णुशक्रेन्द्रपत्नीचतुराननानाम् ॥

तुल्यानि भानुक्रमतो विचिन्त्य द्वित्रयादिवर्णैर्धटयेत्सुबुद्धया ॥५॥

सूर्यके क्रमसे अग्नि, जल, कुमार, विष्णु, इंद्र, इन्द्राणी, ब्रह्मा इनके तुल्य नाम विचार कर दो तीन आदि वर्णोंकरके सदबुद्धिसे नामघटना करे ॥ ५ ॥

अथ विशेषः ।

केद्रांशराशौ हि खलस्तदंशवर्णं हरेत्तत्र बली शुभश्चेत् ॥

दृष्टः शुभैः स्वांशसमानवर्णं ददाति वेदक्षरदः स्वभोच्चैः ॥

स्वभाक्षरं द्विः प्रकारोति चोज ओजाक्षरं तत्र समे समं च ॥ ६ ॥

यदि केद्रकी नवांश राशिमें पाप ग्रह हो तो उस नवांशके वर्णको हर लेता है और जो केद्रांशराशिमें शुभ ग्रह शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो अपने नवांशके तुल्य वर्णको देता है यदि अक्षरका देनेवाला ग्रह अपनी उच्च राशिका हो तो अपने

राशिके अक्षरको द्वित्व करता है । यदि विषम राशि हो तो विषम और सम राशि हो तो समाक्षरको द्वित्व करता है ॥ ६ ॥

पश्यत्स्थितः केंद्रलवात्मजेषु स्वोच्चे स्वभे वाक्षरदो द्विरुक्तः ॥

संयोगमादौ बहुलेषु विन्ध्यात्कूटेषु संयोगपरं वदन्ति ॥ ७ ॥

यदि अक्षरदाता ग्रह अपनी उच्च राशि वा स्वराशिका होकर केंद्रके पांच नवांशोंको देखता हो वा उनके मध्यमें स्थित हो तो दो अक्षर देता है । बहुतसे अक्षर हों तो आदिमें संयोग और थोड़े हों तो अन्तमें संयोगको जाने ॥ ७ ॥

अथ मात्रानिश्चयः ।

केंद्रत्रिकोणेषु शुभो बलीयान् शीर्षोदये शीर्षगतास्ति मात्रा ॥

पृष्ठोदये चेत्तलवर्तिनी स्यात्पार्श्वानुगा चोभयोदयराशिभागे ॥ ८ ॥

बलवान् शुभ ग्रह केंद्र वा त्रिकोणमें पृष्ठोदय राशिका हो तो अक्षरके शिरपर मात्रा है और पृष्ठोदय राशिका हो तो नीचे मात्रा है और उभयोदय राशिका हो तो अक्षरके पार्श्वमें मात्रा है ऐसा जाने ॥ ८ ॥

शीर्षोदयमात्राः ए ओ अं पृष्ठोदयमात्राः उ ऊ

उभयोदयमात्राः अ इ इमा लघवः पृतत्सवर्णा दीर्घाः ॥

शीर्षोदयमात्रा एओअं, पृष्ठोदयमात्रा उ ऊ और उभयोदयमात्रा अ इ है और ये लघु हैं, इनकां सवर्ण मात्रा दीर्घ जाननी चाहिये ॥

ओजे दृकाणे विषमाः समे च समाः स्युरिष्टो यदि दीर्घराशौ ॥

दीर्घान्यथान्या च खलास्त्रिकोणे मात्राहरा भांशपतौ बलोने ॥९॥

विषम द्रेष्काण हो तो विषम, सम द्रेष्काण हो तो सम मात्रा होती हैं, यदि इष्ट दीर्घ राशिका हो तो दीर्घ, ह्रस्वका हो तो ह्रस्व मात्रा हैं । यदि पाप ग्रह त्रिकोणमें हों तो मात्राका हरण करते हैं और जो राशि नवांशेश निर्वर्णी होकर नवांशमें हो तो ॥ ९ ॥

अंशे हि मात्रा निधनं तु नो चेदृष्टः स्वभोच्चादि तदंशपेन ॥

मात्राक्षरं नश्यति हीनवीर्ये क्षेत्रे च स्वस्यांशपतौ च सत्यम् ॥१०॥

मात्राका नाशक होता है । यदि अपने उच्चादिपति वा नवांशपति ग्रहसे दृष्ट हो तो मात्राका नाशक नहीं होता, अन्यथा नाश कहा है । यदि नवांशपति हीनवीर्य होकर अपने क्षेत्रमें हो तो अं ॥ १० ॥

अयंबुचारी सबलो दशस्थोऽनुस्वारदः सप्तमगो विसर्गम् ॥

ददाति केचिद्भलिकेंद्रराशेर्मात्रा वदन्येव तदीशभाद्रा ॥

मृगादयः षट् लघवः परे च दीर्घाः प्रयोज्याः किल नामबन्धौ ११

और बली होकर चौथे घरमें हो तो ए, दशवें हो तो अनुस्वार, सातवें हो तो विसर्ग देता है और कोई ज्योतिर्वित्पण्डित बली केंद्रकी राशिसे अथवा उसके स्वामी ग्रहसे मात्राका वर्णन करते हैं । मकरसे लेकर छः राशि हों तो लघु, शेषसे दीर्घ मात्रा नामबन्धमें जोड़नी चाहिये ॥ ११ ॥

चौरमोक्षप्रश्ने विचारः ।

स्थिरक्षेऽल्पभुक्तौ शनौ गुप्तिगः स्याच्चिरं तस्करोऽथाष्टमे
भौमशन्योः ॥ गृहे भौमयुक्तेक्षिते तस्य मृत्युः कुजार्कीत्तसाले
स सन्ताड्यतेऽलम् ॥ १ ॥

यदि स्थिर राशिगत शनैश्चरके थोड़े अंश गये हों तो चोर बहुत काल रख-वालीमें अर्थात् हवालातमें रहता है, यदि आठवें घरमें मंगल शनैश्चरकी राशि मंगलसे युक्त वा दृष्ट हो तो उस चौरकी मृत्यु होती है और मंगल शनैश्चरका इत्तसाल हो तो वह चौर ताडना पाता है ॥ १ ॥

मृतीशस्य दृष्ट्या स सन्ताड्यमानो मृतिं धाति गुह्यास्पदे वस्तुचौरः ॥
स्वभेत्तसाले स्वपतीत्तसाले मदे दशेशेन शुभैश्च दृष्टे ॥

दशेशसूर्येण निरीक्षिते वा राजा स्वयं मुंचति तस्करं वै ॥ २ ॥

जो अष्टमेशकी दृष्टि हो तो ताडना करनेसे हवालातमें मर जाता है, सातवें घरमें अपने राशि वा अपने स्वामीका इत्तसाल योग दशमेश और शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो अथवा दशमेश सूर्यसे दृष्ट हो तो राजा स्वयंही चौरको छोड़ देता है ॥ २ ॥

विस्मृतिप्रश्ने विचारः ।

विस्मृतौ यत् तृतीयं भं वस्तुस्थानं सुखस्थितः ॥

ग्राहकश्च तयोर्दाता शीघ्रं प्राग्वदतः फलम् ॥ १ ॥

विस्मृति हो जानेमें जो तीसरा है सो वस्तुस्थान है, चौथे घरमें स्थित ग्रह उसका लेनेवाला है, वस्तुस्थान और ग्राहक दोनोंका दाता ग्रह जो होवे उसे शीघ्रही पहिलेकी समान जानकर फल कहे ॥ १ ॥

वस्तु स्थानांशुतुल्यं स्याल्लाभस्थानं तथावता ॥

विस्मृतेस्तावता लाभो दिनात्मसमयेन वै ॥ २ ॥

वस्तुस्थानके नवांशके तुल्य वस्तु मिलनेका स्थान और विस्मृत वस्तुका लाभभी नवांशके तुल्य दिनोंमें कहे ॥ २ ॥

अमुकं कार्यं कर्तुं यामि न वेति प्रश्ने विचारः ।

केन्द्रे शुभैलग्नपचंद्रसौम्येत्तसालतः सद्गमनं न चान्यथा ॥ १ ॥

केन्द्रमें शुभ ग्रहोंके साथ लग्नेश, चंद्रमा और शुभ ग्रहका इत्तसाल होनेसे जाना अच्छा है, अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

नष्टधनप्रश्ने विचारः ।

तनुपतौ स्मरगे स्मरपे तनौ गतधनं समुपैति च सप्तमे ॥

मदनलग्नपयोरपि मुत्सिले गतधनासिरथो तनुसप्तपौ ॥ १ ॥

लग्नेश सातवें और सप्तमेश लग्नेशमें हो तो गत धन मिल जाता है और सातवें घरमें सप्तमेश लग्नेशका इत्तसाल हो तो गत धनकी प्राप्ति होती है । यदि लग्नेश और सप्तमेश ॥ १ ॥

वपुषि मुत्सिलं कुरुतो यदा धनहरः प्रददाति धनं स्वयम् ॥

यदि तनौ तरणिर्मदने विधुर्न गतलब्धिरथांगदशेशयोः ॥ २ ॥

लग्नेमें इत्तसाल करते हों तो धनका हरलेनेवाला स्वयंही धन दे देता है । यदि लग्नेमें सूर्य और सातवें चंद्रमा हो तो गत धनकी प्राप्ति नहीं होती । लग्नेश दश-मेशका ॥ २ ॥

मुत्सिले धनहृद्विपलायतेऽथ मदपे यदि वा हिमदीधितौ ॥

तरणिलुप्तकरे न लभेद्धनं यदि चतुष्टयगो रमणीपतिः ॥ ३ ॥

इत्तसाल हो तो धनका हरनेवाला चौर भाग जाता है । यदि सप्तमेश अथवा चंद्रमा सूर्यके साथमें अंतरगत हो तो धन नहीं मिलता । यदि सप्तमेश केन्द्रमें हो तो ॥ ३ ॥

तडु हरः पुर एव यदा स्मरेत्कृततपस्त्रितयेश्वरमुत्सिलः ॥

क च गतो यदि वांगमदेशयोर्नच परस्परदृग्गदि लग्नपः ॥ ४ ॥

धनका हरनेवाला पुरमेंही है । यदि सप्तमेश अस्तंगत तृतीयेश्वरके साथ इत्त-साल करता हो तो कहीं चला गया है अथवा लग्नेश सप्तमेशकी परस्पर दृष्टि न हो और लग्नेश ॥ ४ ॥

गतबलो धनहृद्वयविहलो नृपकुले प्रददाति धनं तदा ॥

यदि वर्षुमदनेश्वरमुत्सिलं नृपकुलादुपलभ्यमितं धनम् ॥ ५ ॥

बलहीन होतो धनका हरनेवाला भयसे व्याकुल होकर राजकुलमें धन देता है ।
यदि लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल हो तो राजकुलसे थोडासा धन मिलता है ॥ ५ ॥

त्रिखपसप्तममुत्तसिले धनं परपदे गमनादुपलभ्यते ॥

यदि विधुः शुभमुत्तसिली तनौ दशमभेऽप्यथवा गतलाभदः ॥६॥

तृतीयेश दशमेशका सातवें घरमें इत्तसाल हो तो पराये स्थानमें जानेसे धन मिलता है । यदि चंद्रमा शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करनेवाला होकर लग्न वा दशवें घरमें हो तो गत धनका लाभ करता है ॥ ६ ॥

चेद्वाङ्गराणमुत्तसिलं तदाऽल्पा वासिस्तथार्काद्दुदिते च चंद्रे ॥

सद्योगदृग्भ्यां बुधचंद्रयोश्च मिथो गतासिः परथा नहि स्यात् ॥७

और जो लग्नेशके साथ चंद्रमाका इत्तसाल हो तो अल्प धनकी प्राप्ति होती है और सूर्यसे उदित चंद्रमापर शुभ ग्रहका योग और दृष्टि होनेसे और बुध चंद्रमाकी परस्पर दृष्टि होनेसे गत धनकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती ॥ ७ ॥

सुस्नेहदृष्ट्या शुभभानुदृष्टे लग्ने हिमांशौ हि गतार्थलाभः ॥

सूर्येत्तसाले हिमगौ तनुस्थे स्वस्थेऽथवा तूर्यदृशार्कदृष्टे ॥ ८ ॥

यदि लग्न और चंद्रमा शुभ ग्रह तथा सूर्यकी मित्रदृष्टिसे देखे गये हों तो गत धनका लाभ होता है । यदि लग्नस्थ वा दशमस्थ चंद्रमा सूर्यके इत्तसालमें हो अथवा चतुर्थ दृष्टिसे सूर्यसे देखा हो तो ॥ ८ ॥

चंद्रे न लाभस्तु भवेच्चिरेण स्वल्पार्थलाभो बहुकष्टतो वा ॥

सौम्यैर्बलाब्धौस्त्रिवपुःखधर्मपुत्राप्तिकोशेषु गतैः खलैश्च ॥ ९ ॥

गत धनका लाभ नहीं होता और यदि मिलेभी तो थोडा धन बहुत कष्टसे मिले । बलवान् शुभ ग्रह ३ । १ । १० । ९ । ५ । ११ । २ इन घरोंमें हों और पापग्रह ॥ ९ ॥

केन्द्रत्रिकोणाष्टमलाभवर्जं नष्टस्य लाभो नियतं प्रदिष्टः ॥

केन्द्रे त्रिकोणेषु शुभैः खलग्नमदेषु पापैहृतनष्टलाभः ॥ १० ॥

१ । ४ । ७ । १० । ९ । ५ । ८ । ११ इन घरोंको छोडकर अन्य घरोंमें हों तो नष्ट धनका लाभ निश्चयही होता है । केन्द्र तथा त्रिकोणमें शुभ, दशम, लग्न और सप्तममें पाप ग्रह हों तो हृत और नष्ट धनका आधा लाभ होता है ॥ १० ॥

अर्द्धस्ततः स्याद्यदि वित्तकेन्द्रत्रिकोणपापाः खलवीक्षिताश्च ॥

असौम्यदृष्टा गतवित्तनाशं कुर्वन्ति चान्यस्वविनाशनंच ॥११॥

यदि २ । १ । ४ । ७ । १० । ५ । ९ इन घरोंमें पाप ग्रह पाप ग्रहोंसे दृष्ट हों और शुभ ग्रहोंसे अदृष्ट हों तो गत धन तथा अन्य धनका विनाश करते हैं ॥ ११ ॥

शीर्षोदये सौम्ययुतेऽथ पूर्णे चंद्रे तनौ सौम्ययुतेक्षिते च ॥

नष्टार्थलाभो द्रुतमेव वाच्यो यद्वा शुभे लाभगृहे बलाब्धे ॥१२॥

शुभ ग्रहसे युक्त पूर्ण चंद्रमा शीर्षोदय राशिका हो और लग्न शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो नष्ट द्रव्यका लाभ शीघ्रही कहना चाहिये, अथवा ग्यारहवें घरमें शुभ ग्रह बलवान् हो तोभी नष्ट द्रव्यका लाभ शीघ्र होता है ॥ १२ ॥

पतितधनप्रश्ने विचारः ।

धनाधिपश्चेत्तनुपेत्तसाली वेन्द्रित्तसाली पतितार्थलाभः ॥

यद्वैकगा लग्नधनेशचंद्रा यद्वा तनुद्रव्यगतेत्तसाले ॥ १ ॥

यदि धनेश लग्नेश वा चंद्रमाके साथ इत्तसाल करता हो तो पतित धनका लाभ होता है, अथवा लग्नेश, धनेश और चंद्रमा एक घरमें हों, अथवा लग्न वा दूसरे घरमें इत्तसाल करते हों ॥ १ ॥

यद्दार्कचंद्रौ तनुमीक्षमाणौ गतार्थलाभो हितदृग्विशेषात् ॥

तुर्यादधःस्थे तरणौ विधौ वा न लभ्यते संपतितं च नष्टम् ॥ २ ॥

अथवा सूर्य चंद्रमा लग्नको देखते हों तो गत द्रव्यका लाभ होता है और जो मित्रदृष्टि हो तो विशेष करके गत धनका लाभ होता है । चौथे घरसे नीचेके स्थानोंमें सूर्य वा चंद्रमा हो तो पतित और नष्ट धन नहीं मिलता है ॥ २ ॥

धनभ्रान्तिप्रश्ने विचारः ।

तुर्येशे यदि वा चंद्रे तुर्यस्थे वाम्बुवीक्षके ॥

धनं तत्रैव वास्तेशे स्वे वा बन्धौ धनं बहु ॥ १ ॥

चतुर्थेश वा चंद्रमा चौथे घरमें स्थित हों वा उसको देखते हों तो धन उसी स्थानमें है जहां रक्खा था, अथवा सप्तमेश दूसरे वा चौथे घरमें हो तो बहुत धन है ॥ १ ॥

क्रूरेऽम्बुगे धनं तत्र स्थितमप्याप्यते नतु ॥

भौमे सप्ताष्टमे यद्वा तनौ राहौ रवौ मृतौ ॥ २ ॥

यदि क्रूर ग्रह चौथे घरमें हों तो धन वहीं रक्खा है परन्तु मिलेगा नहीं । मंगल सातवें आठवें अथवा राहु लग्नमें, सूर्य आठवें हों तो ॥ २ ॥

न लभ्यते तदा वित्तं यदा सप्ताष्टदिकस्वगौ ॥

चंद्रजीवौ तदावासिर्लघ्वेशो धूनगस्तनौ ॥

धूनेशश्च तदा भ्रान्तेर्धनलाभो भवेद्ध्रुवम् ॥ ३ ॥

धन नहीं मिलेगा और जो ७ । ८ । १० । २ इन घरोंमें चंद्रमा और वृहस्पति हों तो धन मिलेगा । लग्नेश सातवें, सप्तमेश लग्नमें हों तो भूले हुए धनका लाभ निश्चय होगा ऐसा कहे ॥ ३ ॥

नष्टभृत्यप्रश्ने विचारः ।

शुभेक्षितं लग्नमदेशमुत्सिलं गतस्य दासस्य तदाप्तिरीतिता ॥

वपुःपतौ सप्तमर्गेश्वीक्षके विनष्टदासाप्तिरथास्तपे तनौ ॥ १ ॥

लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो गया हुआ नौकर आ जाता है । सातवें घरमें स्थित लग्नेश लग्नको देखता हो तो विनष्ट नौकर मिल जाता है ॥१॥

स्वयं समायाति तनौ तु मुत्सिले स्मरांगपत्योरथवाङ्गपेन्दुतः ॥

जनः प्रनष्टः स्वयमेति भूपतेर्भयादथार्काशुगतेन सप्तपे ॥ २ ॥

यदि सप्तमेश लग्नमें हो तो नौकर आपही आ जाता है और लग्नमें सप्तमेश लग्नेशका इत्तसाल हो, अथवा लग्नेश चंद्रमाका इत्तसास हो तो प्रनष्ट जन राजाके भयसे स्वयंही आ जाता है और जो सप्तमेश सूर्यके साथ अस्त हो तो नहीं आता है ॥ २ ॥

क्रूरेक्षितेऽगस्मरपेत्तसाले नेवैति सूर्येण च वक्रिणा वा ॥

खलेन वा शीतगुमुत्तसीलं प्रलभ्यते नो स्थिरगैश्च सौम्यैः ॥३॥

यदि लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल क्रूर ग्रहसे दृष्ट हो तो नहीं आता है अथवा सूर्य वा वक्री वा पाप ग्रहके साथ चंद्रमाका इत्तसाल हो और शुभ ग्रह स्थिर राशिके हों तोभी नौकर नहीं मिलता है ॥ ३ ॥

विभागप्रश्ने विचारः ।

लग्नेन्दू चरभे न निर्वहति भागश्च स्थिरर्क्षे तयो- ।

नूनं निर्वहति द्विदेहभगतौ विश्वासतो वासितः ॥

क्रूरे क्रूरनिरीक्षिते तनुगते श्रेष्ठो ह्यलीकांशद- ।

श्रैवं लग्नगते परः परविभागार्थो यदेन्द्रम्बुपौ ॥ १ ॥

लग्न चंद्रमा चर राशिके हों तो भाग (हिस्सा) निर्वाह नहीं करता और जो स्थिर राशिके हों तो निश्चयही निर्वाह करता है और द्विस्वभाव राशिके हों तो विश्वाससे

प्राप्ति होनेपर हिस्सा निर्वाह करनेवाला होता है । यदि लग्नमें क्रूर ग्रह क्रूर ग्रहसे दृष्ट हो तो सेठ कपटपूर्वक हिस्सा देता है अर्थात् सच्चा हिस्सा नहीं देता, इसी प्रकार सातवें घरमें क्रूर ग्रह क्रूर ग्रहसे दृष्ट हो तो अन्य पुरुष किसी दूसरेके हिस्सेका धन पाता है, अथवा चंद्रमा और चतुर्थेश ॥ १ ॥

कृत्वा मुत्तसिलं शुभेन सततं निर्वाहदौ चेच्छुभः ।

खस्थो भूरिधनायपापखचरोऽल्पप्राप्तये चेच्छुभाः ॥

केद्रायार्थगता बलेन सहिता लाभार्थदाः पापिनः ।

केन्द्रायाष्टधनेषु चेद्व्यवहृतौ कुर्वन्ति हानिं पराम् ॥ २ ॥

शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करते हों तो निर्वाह करते हैं, यदि शुभ ग्रह दशमस्थ हों तो बहुत धन और पाप ग्रह हों तो थोड़ा धन देता है । यदि शुभ ग्रह ? । ४ । ७ । १० । ११ । २ इन घरोंमें बलवान् हों तो लाभ देते हैं और पाप ग्रह ? । ४ । ७ । १० । ८ । २ इन घरोंमें हों तो व्यवहारमें परम हानि करते हैं ॥ २ ॥

कुत्र गत इति प्रश्ने विचारः ।

तनुराशिवशाद्वाच्या नष्टदिग्वा तनुस्थितात् ॥ ३ ॥

लग्नकी राशिसे वा लग्नस्थ ग्रहसे नष्ट वस्तु वा नष्ट भृत्यादिकी दिशा कहनी चाहिये ॥ ३ ॥

क्रयविक्रयप्रश्ने विचारः ।

केता लग्नपतिर्लाभपतिर्विक्रयकारकः ॥

तनौ बलिनि संग्राह्यं विक्रेतव्यं तथा भवेत् ॥ १ ॥

लग्नेश खरीदनेवाला और एकादशेश वेचनेवाला कहा है, लग्न बलवान् हो तो खरीदना, बेचना अच्छा होता है ॥ १ ॥

यदि लग्नसप्तमपमुत्तसिलं स्वयमेव साटिस्थ मित्रदृशा ॥

यदि लग्नसप्तपतिनक्रयुतिः परतो यदांगमदपौ हि हितौ ॥ २ ॥

यदि लग्नेश सप्तमेशका इत्तसाल हो तो आपही खरीद बेच करना अच्छा होता है और जो मित्रदृष्टिसे दोनोंका इत्तसाल हो तथा लग्नेश सप्तमेश मकरराशिगत हों तो अन्यपुरुषद्वारा खरीद बेच शुभ होता है । यदि लग्नेश सप्तमेश दोनों आपसमें मित्र हों तो ॥ २ ॥

प्रियसाटिरेव यदि मित्रपतिस्तनुपश्च मित्रदृशि तौ यदि तौ ॥

तद्दु विक्रियप्रियसुसाटितार्थदैवं सुखस्मरपती क्रयीष्टतः ॥ ३ ॥

मित्रके साथ खरीद बेच शुभ होती है । यदि पञ्चमेश और सप्तमेश मित्रदृष्टिसे युक्त हो तो बेचनेमें मित्रके साथ साझा धनदायक होता है इसी प्रकार चतुर्थेश सप्तमेश मित्रदृष्टिसे युक्त हों तो खरीदनेवाले मित्रसे साझा सुखदायक होता है ॥३॥

नियतं हि साटिरथ लग्नपतौ मदने क्रयी नियतवस्तुयाचकः ॥ यदि सप्तपो वपुषि विक्रयी यदा तनुगः शुभः स्वमृतवाग्धि विक्रयी ॥४॥

यदि लग्नेश सातवें हो तो खरीदनेवाला नियत वस्तुको मांगता है और जो सप्तमेश लग्नमें हो तो बेचनेवाला नियत वस्तुको याचना करता है और जो लग्नमें शुभ ग्रह हो तो बेचनेवाला अमृतसमान मीठा बोलनेवाला है ॥ ४ ॥

मदने शुभः स्वमृतवाक् क्रयी भवेद्यदि यत्र चंद्रखगयोश्च मुत्सिलम् ॥ क्रयमाचरेत्खलु तदैव यदा मुत्सरिफं सद्दु तयोश्च विक्रयम् ॥ ५ ॥

यदि सातवें घरमें शुभ ग्रह हो तो खरीदनेवाला मीठी वाणीवाला है । यदि जब कभी चंद्रमा और ग्रहका इत्तसाल हो तो उसी कालमें खरीद करे और जब उन दोनोंका हशराफ योग हो तो बेचे ॥ ५ ॥

यैनेवेन्दोः खेचरेणेशराफः स स्यात् खेटो भानुरग्निप्रविष्टः ॥

दत्त्वाऽन्यस्मै वस्तु हित्वा पणं तद्विक्रेता वै याति दैवात्प्रणाशम् ६

जिस ग्रहके साथ चंद्रमाका इशराफ योग हो वह ग्रह सूर्यके साथ अस्तगत हो तो अन्यके वास्ते वस्तु दे वाजारको छोडकर उस वस्तुका बेचनेवाला दैवसे नाशको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

समर्घमहर्घप्रश्ने विचारः ।

यावद्धसं स्वोच्चमित्रर्क्षसंस्थः सौम्योऽङ्गे तावन्ममासाः समर्घम् ॥

पापैश्चैवं स्यान्महर्घो ह्यथेशे लग्ने यदा विग्रहैऽगाधिपस्य ॥

वीर्यं पूर्णं चाऽन्यथा तत्स्थवीर्यं तस्माद्दीर्याच्चिन्तयोच्चिन्तनीयम् १

स्वोच्च मित्रराशिस्थ शुभ ग्रह जितने दिन लग्नमें रहता है उतने महीनोंतक समर्घ रहता है और इस प्रकार पाप ग्रह होनेसे महर्घ रहता है । लग्नमें वा लग्नेशमें अथवा लग्नेशके घरमें पूर्ण बल हो अथवा उसका बल अन्यथा हो तो उसी बलसे विचारणीय वस्तुका विचार करे ॥ १ ॥

पूर्णांमेन्दुर्यत्र सदृष्टयुक्तस्तस्मिन्मासे नूनमुग्रं समर्घम् ॥

पापैरेवं युक्तदृष्टो महर्घं मिश्रैर्मिश्रं स्यात्फलं तत्र मासे ॥ २ ॥

जिस महीनेकी पूर्णपासी, अमावास्याका चंद्रमा शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो उसी महीनेमें निश्चयही उग्र समर्घ होता है। और जो पाप ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो महर्घ और मिश्र ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो उस मासमें मिश्र फल होता है ॥ २ ॥

अथ बलवति लग्ने स्वेशसन्दृष्टयुक्तेऽपि च स शुभचतुःकेन्द्रेषु सर्व समर्घम् ॥ तदनु विबललग्ने केन्द्रपापैर्महर्घं सकलमथ-
रिपुक्षेत्रे वपुष्युग्रदृष्टः ॥ खलखचर उ यावद्भासरं स्याद्ददे-
त्तद्दिनपरिमितितस्तावद्धि सर्व महर्घम् ॥ ३ ॥

यदि बलवान् लग्न अपने स्वामीसे दृष्ट वा युक्त हो और चारों केंद्रोंमें शुभ ग्रह हो तो सर्व वस्तुका समर्घ होता है, तदनन्तर लग्न निर्बल हो, केंद्रोंमें पाप ग्रह हो तो जब वस्तुका महर्घ होता है और पाप ग्रह पाप ग्रहसे दृष्ट छटे वा लग्नमें जितने दिनतक रहे, उतनेही दिन सघ वस्तुका महर्घ होता है ॥ ३ ॥

वर्षाप्रश्ने विचारः ।

नृयुग्मभानोः क्रमणे नृयुग्मकन्याश्वमीनेषु शुभैः सुवृष्टिः ॥

किंवात्र गोकर्कगतौ सितज्ञौ चंद्रे झषे देवगुरौ स्त्रियां च ॥ १ ॥

मिथुनके सूर्यकी संक्रान्तिमें मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन राशियोंपर शुभ ग्रह हों तो अच्छी वर्षा होती है। अथवा इसी संक्रान्तिमें शुक्र बुध कर्कके, चंद्र मीनके, बृहस्पति कन्याके हों ॥ १ ॥

विलोमतो वापि भवेत्सुवृष्टिर्यदात्र भौमार्कजसैहिकेयाः ॥

नृयुग्मकन्याझषचापसंस्थास्तदाल्पवृष्टिश्च भवेन्महर्घम् ॥ २ ॥

अथवा विलोमसे हों अर्थात् कन्याके शुक्र बुध, चंद्रमा मीनके, बृहस्पति कर्कके हों तो सुवृष्टि होती है। अथवा उसी संक्रान्तिमें मंगल शनि और राहु मिथुन कन्या, मीन तथा धनुराशिपर हों तो अल्प वर्षा और महर्घ होता है ॥ २ ॥

यदात्र गोकर्कगतौ च भौममंदौ द्विदेहे दितिजोऽल्पवृष्टिः ॥

अन्नं प्रियं वात्र सितेन्दुजातौ नृयुग्ममेषापगतौ धनस्थौ ॥

शीतांशुजीवौ च खलास्तुलालिसिंहेषु वृष्टिश्च भवेत्समर्घम् ॥३॥

यदि मिथुनसंक्रान्तिमें वृष कर्कके मंगल, शनैश्चर, द्विस्वभाव राशिपर शुक्र हो तो अल्प वर्षा और अन्न प्रिय हो और यदि शुक्र बुध मिथुन मेषके हों चंद्रमा बृहस्पति दूसरे घरमें हों पाप ग्रह तुला, वृश्चिक तथा सिंहके हों तो वृष्टि और समर्घ होता है ॥३॥

अथ विशेषयोगाः ।

पूर्णे हिमांशौ शुभदृष्टयुक्ते केंद्रे जलक्षे द्रुतमेव वृष्टिः ॥ ४ ॥

पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रहसे दृष्ट वा युक्त होकर केंद्रमें जलराशिका हो तो शीघ्रही दृष्टि होती है ॥ ४ ॥

तद्वद्गुश्रन्द्रमसस्त्रिकोणे तनोर्हि वा याति तदैव वर्षा ॥

सौम्या जलक्षे धनके च संस्थाः पक्षे सिते चोदयगेऽम्बुमेन्दौ ५

इसी प्रकार चंद्रमासे वा लग्नसे त्रिकोणमें जब शुक्र जाता है उसी समय वर्षा होती है, शुभ ग्रह जलराशिपर दूसरे घरमें हों और शुक्र पक्षमें लग्नगत जलराशिका चंद्रमा हो तो वर्षा होती है ॥ ५ ॥

वृष्टिर्भवेद्वा रविशतितरश्मी स्मरे सुखे वापि मृतौ सिताकीं ॥

तथा तनोर्द्वित्रिगतौ प्रवृष्टिर्यद्वोदयास्ते सिनजीवयोश्च ॥ ६ ॥

अथवा सूर्य चंद्रमा सातवें, चौथे अथवा आठवें हों और शुक्र शनि लग्नसे दूसरे तीसरे घरमें हो तो बहुत वर्षा होती है । अथवा शुक्र बृहस्पतिका उदय अस्त हो ॥ ६ ॥

जलक्षंगैः सर्वशुभैः प्रवृष्टिर्यदा चतुर्थे शुभगाः प्रवृष्टिः ॥

खलाश्च दुर्भिक्षभयं यदारसूर्येन्दवोऽङ्गे विजले बलाढ्याः ॥७॥

सब शुभ ग्रह जलराशिके हों तो अच्छी वर्षा होती है । यदि चौथे घरमें शुभ ग्रह हों तो बहुत वर्षा होती है और पाप ग्रह हों तो दुर्भिक्षका भय होता है । यदि मंगल सूर्य तथा चंद्रमा जलराशिवर्जित लग्नमें बलवान् हो तो ॥ ७ ॥

दुर्भिक्षपीडे तु शनेर्नवाम्बुकोशे सुदृष्टो विधुरम्बुदः स्यात् ॥

यदीन्द्रवाद्यादि परिस्पृशंस्तु जलेषु तिष्ठत् सलिलोद्यतश्च ॥८॥

दुर्भिक्ष और पीडा होती है । यदि शनिसे नौवें, चौथे तथा दूसरे घरमें चंद्रमा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो जलदायक होता है । यदि इंद्रके वाजेको छूता हुआ जलमें खड़ा हुआ जल लेनेको उद्यत होता हुआ ॥ ८ ॥

जलस्य पृच्छा प्रवदेज्जलस्य प्रवर्षणं वा यदि शक्रचापम् ॥

पीताभ्रसंध्याश्च नवाश्च मेघाः स्निग्धाम्बुवृष्टिः परिघस्तथैव ॥९॥

पुरुष जलका प्रश्न करे तो जलकी वर्षा होगी ऐसा कहे । अथवा यदि इंद्रधनुष पल्ले, बादलोंवाली संध्या तथा नवीन मेघ हों तो जलकी अच्छी वर्षा होती है, इसी प्रकार परिघ ॥ ९ ॥

प्राचीप्रतीच्युत्तररुद्रकाष्ठाविद्युद्भृतं वर्षणदा नितान्तम् ॥

सौदामिनी वायुभवा च वृष्ट्यै शेषोत्थविद्युद्यदि वृष्टिहर्त्री ॥१०॥

और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशान दिशामें विजली होवे तो शीघ्रही वर्षा होती है । तथैव वायव्यदिशाकी विजलीभी वर्षाके लिये कही है और शेष दिशाओंमें विजली चमके तो वर्षाको हर लेती है ॥ १० ॥

स्निग्धा घना जलधरा दिवि पौषशुक्लाद्यस्यां तिथौ निशि
दिने प्रभवन्ति यावत् ॥ तस्यां तिथौ भुवि भवेन्नभसः सि-
ताद्वै वृष्टिः पयोदसमयेऽम्बुदवृन्दतुल्या ॥ ११ ॥

पौषके शुक्लपक्षसे लेकर जिस तिथिकी रात्रिमें वा दिनमें चिकने और घने बादल आकाशमें हो तो श्रावणके शुद्ध पक्षसे लेकर उसी तिथिमें वर्षाऋतुमें पौषके बादलोंसमान वर्षा होती है ॥ ११ ॥

कार्तिकैकादशी मेघवीक्षाषाढे हि वृष्टिदा ॥

मार्गाष्टम्यां यदा विद्युद्दीक्षा श्रावणवृष्टिदा ॥ १२ ॥

यदि कार्तिककी एकादशीको बादल दीखे तो आषाढमें वर्षा करते हैं और मार्गशीर्षकी अष्टमीको जो विजली हो तो श्रावणमें वर्षा होती है ॥ १२ ॥

पौषकृष्णदशम्यां च वृष्टिर्भाद्रप्रवृष्टिदा ॥

वृष्टिश्चेन्माघसप्तम्यां ज्येष्ठे मूले न वर्षति ॥

नक्षत्रवारिवाहस्य तदान्नैः पूर्यते मही ॥ १३ ॥

पौष कृष्ण दशमीको वर्षा हो तो भाद्रपदमें वर्षा होती है । यदि माघकी सप्तमीको वर्षा हो और ज्येष्ठमें मूलनक्षत्रके दिन वर्षा न हो तो मेघके नक्षत्रोंमें पृथ्वी अन्नसे पूरित हो जाती है ॥ १३ ॥

नभःप्राक्पक्षपञ्चम्यां वृष्टिर्बहन्नधान्यदा ॥

आषाढपूर्णा पूर्वायुक्समर्घायोत्तरायुता ॥ १४ ॥

श्रावणके प्रथम पक्षकी पंचमीके दिन वर्षा हो तो बहुत जल अन्न देनेवाली कही है । आषाढकी पूर्णमासी पूर्वाषाढायुक्त हो तो मसर्घ, उत्तराषाढायुक्त हो तो ॥ १४ ॥

साश्वपीडाकरी रोगदैव सा यदि मूलयुक् ॥

महाडाभिंक्षदा ज्येष्ठे कृष्णे प्रतिपदार्कयुक् ॥ १५ ॥

अश्वीढा और रोग करनेवाली, मूलयुक्त हो तो दुर्भिक्ष देनेवाली कही है ।
ज्येष्ठकी कृष्ण प्रतिपदा रविवारकी हो तो ॥ १५ ॥

महावातस्तरुध्वंसी भौमयुक्तातिविग्रहः ॥

सौम्यान्विता च दुर्भिक्षमुच्चैर्वृष्टिक्षयस्तथा ॥ १६ ॥

वृक्षोंका नाश करनेवाला महाप्रचंड पवन चलता है । मंगलकी हो तो अति वि-
ग्रह, बुधकी हो तो महादुर्भिक्ष, वर्षाक्षय ॥ १६ ॥

शनियुग्दुर्लभं वारि शेषवारयुता शुभम् ॥

धनधान्यसुतोत्पत्तिर्गेहे गेहे महोत्सवाः ॥ १७ ॥

शनिकी हो तो जलकी दुर्लभता, शेष वारकी हो तो शुभ फल, धन, धान्य,
संतानोत्पत्ति तथा घर घर महोत्सव होते हैं ॥ १७ ॥

पौषसंक्रमणे वारो रवेश्चेद्धान्यमल्पकम् ॥

द्विघ्नं भौमस्य तुर्यघ्नं शनेस्त्रिघ्नं ज्ञशुक्रयोः ॥ १८ ॥

पौषकी संक्रान्तिके दिन रविवार हो तो धान्यका मूल्य दूना, मंगल हो तो
चौगुना, शनि हो तो तिगुना, बुध वा शुक्र हो तो ॥ १८ ॥

पादोनं शेषयोरर्द्धं वदेन्मीनार्कसंक्रमे ॥

रवेर्वारस्तदा वातः कुजस्य पशुपीडनम् ॥ १९ ॥

चौथाई कम और शेष वार हों तो आधा मूल्य हो जाता है । मीनकी संक्रां-
तिको रविवार हो तो पवन अधिक चलता है, मंगल हो तो पशुपीडा ॥ १९ ॥

शनेर्दुर्भिक्षता ज्ञस्य महामारीसमुद्भवः ॥

संक्रमे शुभवारश्चेच्छुभदोऽन्यो हि कष्टदः ॥ २० ॥

शनि हो तो दुर्भिक्ष, बुध हो तो महामारी, संक्रान्तिके दिन शुभ वार हो तो
शुभ फल और अशुभ वार हो तो कष्टदायक होता है ॥ २० ॥

शुभावंबरे सर्वदा वृष्टिदौ चेच्छुभानां त्रयं दीर्घवृष्ट्यै नितान्तम् ॥

चरेऽङ्गे यदा सर्वलेटास्तदा सार्द्धं घसाज्जलं स्यादथो यत्र पापः ॥ २१ ॥

यदि चौथे घरमें दो शुभ ग्रह हों तो सर्वदा वृष्टि करते हैं और तीन शुभ ग्रह
हों तो निरन्तर दीर्घ वर्षा करते हैं । यदि सब ग्रह चर लग्नमें हों तो हेतु दिवसपर्यन्त
जल वर्षता है ॥ २१ ॥

शनिप्रेक्षितस्ताद्दिशः सस्यहर्ताऽथवा यत्र भूमीजसूर्यौ हि भे स्तः ॥

भवेत्तद्दिशः सस्यसंपद्दिनाशो शुभावेवमत्रेष्टदृष्टौ सुधान्यम् ॥ २२ ॥

यदि लग्नमें पाप ग्रह शनैश्चरसे दृष्ट हो तो उसकी दिशाकी खंतीका हरनेवाला कहा है और जो वहां लग्नमें मंगल सूर्य हों तो उनकी दिशाकी सस्यसंपदा नाश होती है । यदि लग्नमें दो शुभ ग्रह मित्रग्रहसे दृष्ट हों तो धान्य बहुत अच्छा पैदा होता है ॥ २२ ॥

सौम्यस्वेशोज्झिते केन्द्रे चतुर्षु च खलेक्षणम् ॥

गोमृगेन्द्रतुलालग्रे शलभाखुमुखैर्भयम् ॥ २३ ॥

केंद्रोंमें शुभ ग्रह और केंद्रोंके स्वामी न हों, किन्तु उनमें पाप ग्रहोंकी दृष्टि हो, वृष, सिंह तथा तुला लग्न हो तो टीढी, मूषक आदिका भय होता है ॥ २३ ॥

कुंभालिवृषमेषेषु वायुवह्नीतितो भयम् ॥

कन्यानृयुगमचापेषु शलभादिक्रमेर्भयम् ॥ २४ ॥

कुंभ, वृश्चिक, वृष तथा मेष लग्न हो तो पत्रन, अग्नि और ईतिसे भय होता है । कन्या, मिथुन तथा धन लग्न हो तो टीढी आदि कीड़ोंसे भय होता है ॥ २४ ॥

कर्के भौमे जलं चंद्रदृष्टे रोगयुगं वदेत् ॥

शालयोऽपि यवाश्चैव गोधूमा सतिलातसी ॥ २५ ॥


कर्कके मंगल हो तो जल होता है और चंद्रमासे दृष्ट हो तो रोगसहित जल वर्षता है । साठी, जौ, गेहू, तिळ, अलसी ॥ २५ ॥

कलायमुद्गश्यामाकाः कंगुमासौ च कोद्रवः ॥

मसूराः क्रमतो लम्बाद्वादशर्क्षफलं वदेत् ॥ २६ ॥

समा, मूंग, श्यामाक (तृणधान्यविशेष झरुआ आदि), कंगनी, उदद, कोदौ, मसूर ये अन्न लग्नके क्रमसे बारह धरोंका फल कहे ॥ २६ ॥

अथ सप्तनाडीचक्रम् ।



क. तो.सू.आ.पु.कुं.आ. म.यू.उ.ह.चि.खा.दि.अ.ज्ये.सू.पू.उ.अ.श्र.श.स.सू.उ.रे.अ.म.

कृत्तिकादि लिखेद्भानि साभिजिन्ति क्रमेण च ॥

सप्तनाडीव्यधस्तत्र कल्पनीयो द्विजिह्ववत् ॥ १ ॥

कृत्तिकासे लेकर अभिजित्सहित अट्वाईस नक्षत्र क्रमपूर्वक लिखे, तहां सप्त-
नाडीका वेध सर्पके समान बनावे ॥ १ ॥

चतुर्नक्षत्रवेधेन नाड्येका परिकीर्त्तिता ॥

कृत्तिका च विशाखा चानुराधा भरणी तथा ॥ २ ॥

चार नक्षत्रके वेधसे एक नाडी कही गई है, जैसे कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा
और भरणी ॥ २ ॥

ऊर्द्धाख्या मंदनाडी सा चंडनाडी स्मृता बुधैः ॥

रोहिणी स्वातिरिन्द्राश्वौ द्वितीया रविसंभवा ॥ ३ ॥

यह चंडनाडी शनैश्चरकी ऊर्द्धाख्या पंडितोंने कही है । रोहिणी, स्वाति, ज्येष्ठा
तथा अश्विनी यह सूर्यकी ॥ ३ ॥

वायुनाडी ततः सौम्यं चित्रा मूलं च रेवती ॥

तृतीया भौमनाडीति दहनाख्या ततः परा ॥ ४ ॥

वायुनाडी है इसके अनन्तर मृगशीर्ष, चित्रा, मूल और रेवती यह तीसरी नाडी
मंगलकी दहना नामवाली है ॥ ४ ॥

आर्द्रा करस्तथा पूर्वाषाढा चोत्तराभाद्रपात् ॥

जीवनाडी चतुर्थेयं सौम्यनाडी ततोऽदितिः ॥ ५ ॥

इससे आगे आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढा और उत्तराभाद्रपदा यह चौथी नाडी बृहस्प-
तिकी सौम्या नामवाली है । इससे पीछे पुनर्वसु ॥ ५ ॥

उत्तराफाल्गुनी चोत्तराषाढा पूर्वभाद्रपात् ॥

पंचमीयं नीरनाडी शुक्रोद्भूताऽथ पुष्यभम् ॥ ६ ॥

उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपदा यह पांचवीं नाडी शुक्रकी नीर
नामवाली है । इसके अनन्तर पुष्य ॥ ६ ॥

पूर्वाफाल्गुनिका चैवाऽभिजिच्छतभिषा तथा ॥

षष्ठी बुधोद्भवा नाडी जलनाडी ततः परम् ॥ ७ ॥

पूर्वाफाल्गुनी, अभिजित् और शतभिषा यह छठी नाडी बुधकी जलनाडी है ।
इससे आगे ॥ ७ ॥

आश्लेषा च मघा श्रोत्रघनिष्ठा सप्तमी विधोः ॥

अमृताख्या शीतला च मध्यस्थातोऽग्रपृष्ठतः ॥ ८ ॥

आश्लेषा, मघा, श्रवण और धनिष्ठा यह सातवीं नाडी चंद्रमाकी अमृता और शीतला नामवाली मध्यमें स्थित है, इसके आगे और पीछेकी ॥ ८ ॥

त्रयं त्रयं नाडिकानां सौम्यं याम्यं प्रकीर्तितम् ॥

खलायाम्यर्क्षगाः सौम्याः सौम्यर्क्षेषु च मध्यमाः ॥ ९ ॥

तीन तीन नाडी सौम्य और याम्य कही है अर्थात् आगेकी तीन सौम्य पीछली तीन याम्य कही हैं । पाप ग्रह याम्य संज्ञक नक्षत्रोंमें और शुभ ग्रह सौम्य संज्ञक नक्षत्रोंमें और मध्यम ग्रह ॥ ९ ॥

मध्यनाडीगता नूनं निजरूपफलप्रदाः ॥

क्रूरा वा शुभगा द्वयाद्या एकनाड्यां फलप्रदाः ॥ १० ॥

मध्यनाडीमें हों तो अपनेके समान फल देनेवाले कहे हैं । दो वा तीन आदि शुभ ग्रह वा क्रूर ग्रह एक नाडीमें हों तो फल देते हैं ॥ १० ॥

चंडनाड्यां महावातो वायुनाड्यां समीरणः ॥

अग्निनाड्यां भवेदग्निः सौम्यनाड्यां च मध्यता ॥ ११ ॥

यदि चंडनाडीमें हों तो महाचंड पवन, वायुनाडीमें हों तो पवन, अग्निनाडीमें हों तो अग्नि, सौम्यनाडीमें हों तो मध्यम फल ॥ ११ ॥

चंद्रनाड्यां महाघृष्टिर्भवेदेकोऽपि चेतखगः ॥

स्वनाड्यां फलदश्चारः सर्वत्र फलदायकः ॥ १२ ॥

चंद्रनाडीमें हों तो महाघृष्टि होती है । यदि अकेलाही ग्रह अपनी नाडीमें हो तो फलदायक होता है और ग्रहका चार सब नाडियोंमें फलदायक होता है ॥ १२ ॥

अथ दृष्टियोगाः ।

दशार्द्रात्स्त्रियस्तारा विशाखाद्या नपुंसकाः ॥

तिस्रः शेषा नरा इन्द्रा यदा सूर्यन्दुतारयोः ॥ १ ॥

आर्द्रासे लेकर दश नक्षत्र स्त्रीसंज्ञक, विशाखासे तीन नपुंसक और शेष पुरुषसंज्ञक हैं । जब सूर्य और चंद्रमाके नक्षत्र ॥ १ ॥

पुंस्त्रीयोगे भवेदृष्टिः स्त्रीनपुंसकयोः क्वचित् ॥

स्त्रियोर्योगे धनरक्षया खण्डयोर्न दिने लघु ॥ २ ॥

पुरुष और स्त्रीसंज्ञकका योग होवे तो वृष्टि होती है, स्त्री नपुंसकका योग हो तो कहीं कहीं वर्षा होती है । स्त्री स्त्रीसंज्ञकका योग हो तो बादलोंकी छाया रहती है, नपुंसक नपुंसकका योग हो तो एकभी दिन थोड़ीभी वर्षा नहीं होती ॥ २ ॥

उदयास्तगतः शुक्रो बुधो वा जलदायकः ॥

जलभेन्दुश्च पक्षान्ते संक्रमे वा ज्ञशुक्रयुक् ॥ ३ ॥

शुक्र वा बुध उदय वा अस्तका प्राप्त होता हुआ जलकी वर्षा करता है । पूर्ण-मासी, अमावास्या अथवा संक्रातिके दिन जलराशिका चंद्रमा बुध शुक्रसे युक्त हो तो ॥ ३ ॥

एकार्णवां महीं कुर्यात् तन्मध्येऽर्कश्च शोषयेत् ॥

यद्दिने चंद्रमाः क्रूरसौम्यखेटैर्विमिश्रितः ॥ ४ ॥

पृथ्वीपर अति जलकी वर्षा होनेसे एक समुद्रसा फैला हुआ प्रतीत होता है और यदि उसके मध्यमें सूर्य हो तो जलका शोषण करता है । और जिस दिन चंद्रमा क्रूर तथा सौम्य ग्रहोंसे युक्त होता है ॥ ४ ॥

तद्दिने परमावृष्टिरेवमृक्षान्गयोगतः ॥

अतिवृष्टिर्यदा चंद्रः सौम्यैर्वोग्रैर्हि केवलैः ॥ ५ ॥

उस दिन अत्यधिक वृष्टि होती है । इसी प्रकार जिस राशिका चंद्रमा हो उसीके राशिके नवांशका योग होनेसे अतिवृष्टि होती है । जब चंद्रमा केवल क्रूर ग्रहोंसे वा शुभ ग्रहोंसे ॥ ५ ॥

विद्धो दुर्दिनकृत्तुच्छजलदश्च यदा विधुः ॥

यस्य नाडीगतस्तेन युक्तदृष्टो जलप्रदः ॥ ६ ॥

विद्ध हो तो दुर्दिन करता और थोड़ा जल वर्षाता है । चंद्रमा जब जिस ग्रहकी नाडीमें उसी ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो जलदायक होता है ॥ ६ ॥

चेत्कृशेन्दुर्भवेन्नैव यदेन्दुः सौम्यपापयुक् ॥

चंद्रनाड्यां तदाम्भः स्याद्विचतुःपंचभिर्ग्रहैः ॥ ७ ॥

जो क्षीण चंद्रमा हो तो वर्षा नहीं होती है । जब चंद्रमा शुभ और पाप ग्रहसे युक्त होकर चंद्रनाडीमें होता है तो जलकी वर्षा होती है । यदि दो चार या पांच ग्रहोंसे ॥ ७ ॥

क्रमात्तद्विचतुःपंचदिनकृत्केवलैन्दुना ॥

सर्वैरेकत्र सप्ताहो यथासंख्यं ग्रहैरिति ॥ ८ ॥

युक्त चंद्रमा हो तो क्रमसे दो चार तथा पांच दिन वर्षा करता है । केवल चंद्रमाके साथ सब ग्रह एक नाडीमें हो तो सात दिन वर्षा होती है । इसी प्रकार ग्रहोंसे यथासंख्याक दिन वर्षाके कहे ॥ ८ ॥

वर्षायां द्विगुणं तच्च कदाचिदपि जायते ॥ ९ ॥

और कभी वर्षामें दूनेभी हो जाते हैं ॥ ९ ॥

जलनाडीस्थिते चंद्रे त्वंभः सौम्योग्रसंयुते ॥

दिनार्द्धं दिवसं पंचदिनान्यंभः प्रजायते ॥ १० ॥

जलनाडीमें स्थित चंद्रमा जल देता है और सौम्य पाप ग्रहोंसे युक्त हो तो आधे दिन, एक दिन या पांच दिन जल वर्षा करता है ॥ १० ॥

एवं विधौ नीरनाड्यां तत्रस्थैर्मिश्रखेचरैः ॥

आयामयामयुग्माहस्रयं पूर्वोदितक्रमात् ॥ ११ ॥

इसी प्रकार चंद्रमा नीरनाडीमें शुभ और पाप ग्रहोंसे युक्त हो तो प्रहर, दो प्रहर, एक दिन तथा तीन दिनतक वर्षा पूर्वोक्त क्रमसे कहे ॥ ११ ॥

चंद्रादिनाडीत्रितये सर्वे खेटाः प्रवर्षणम् ॥

अष्टादशार्कषड्वारैः क्रमादथ यदा खगाः ॥ १२ ॥

चंद्रादि तीन नाडियोंमें सब ग्रह हों तो अठारह, बारह तथा छः दिन क्रमसे वर्षा होती है ॥ १२ ॥

सर्वेऽपि सौम्यनाडीस्थास्तदा वृष्टिर्दिनत्रयम् ॥

शेषनाडीगता वातदुष्टवर्षणदा ग्रहाः ॥ १३ ॥

सब ग्रह सौम्यनाडीमें स्थित हों तो तीन दिन वर्षा होती है और जो शेष नाडियोंमें सब ग्रह हों तो पवन प्रचंड और दुष्ट वर्षा करते हैं ॥ १३ ॥

निर्जला जलदा नाडी भवेद्योगेऽधिसौम्यके ॥

जलदाप्यधिपापाड्या नाम्बुदा यदि पापिनः ॥ १४ ॥

अधिक शुभ ग्रहोंका योग हो तो निर्जलनाडीभी जलदायिनी और अधिक पाप ग्रहोंका योग हो तो जलदायिनी नाडीभी निर्जला हो जाती है । यदि पाप ग्रह ॥ १४ ॥

याम्यनाड्यामनावृष्टिर्यदा चंद्रधरासुतौ ॥

एकनाड्यां गुरुस्तत्र तदा जलमयी हि भूः ॥ १५ ॥

याम्यनाडियोंमें हों तो वर्षा नहीं होती । यदि चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति एक नाडीमें हों तो पृथ्वी जलमय हो जाती है ॥ १९ ॥

बुधशुक्रौ यदैकत्र जीवयुक्तौ सशीतगू ॥

तदैव परमा वृष्टिर्यदा चंद्रसितौ खलैः ॥ १६ ॥

बुध, शुक्र, बृहस्पति तथा चंद्रमा एक नाडीमें हों तो परम वृष्टि होती है । यदि चंद्र और शुक्र पाप ग्रहोंसे ॥ १६ ॥

युतदृष्टौ तदा मेघो लघुवृष्टिर्यदा ग्रहाः ॥

उदयास्तमने मार्गे वक्रे खेटाश्च संक्रमे ॥

जलनाडीसमारूढा महावृष्टिप्रदाः स्मृताः ॥ १७ ॥

युक्त दृष्ट हों तो मेघ थोड़ी वर्षा करता है । जब ग्रह उदयास्तमन वा चक्र मार्गमें अथवा सक्रातिमें प्राप्त होते हुए जलनाडीपर समारूढ होते हैं तब महा वृष्टि-दायक कहे हैं ॥ १७ ॥

अथ शुक्रोदयफलम् ।

चैत्राच्छुक्रोदयो भूयात् तरुसंपदु विग्रहः ॥

नृपाणां भूरिवृष्टिश्च जलदुर्लभता तथा ॥ १८ ॥

चैत्रसे लेकर शुक्रका उदय जिस महीनेमें हो उसका फल इस प्रकार क्रमसे कहे वृक्षसंपदा, राजविग्रह, अतिवृष्टि, जलदुर्लभता ॥ १८ ॥

पशुपीडा च सद्धान्यं सर्वसंपत्परं शुभम् ॥

शुभं च राज्यभंगश्च राज्यभंगोऽर्धवृद्धिता ॥ १९ ॥

पशुपीडा, श्रेष्ठ धान्य, अतिशुभ, शुभ, राज्यभंग, राज्यभंग और अर्धवृद्धि चैत्रादि मासके क्रमसे जानना चाहिये ॥ १९ ॥

हुताशनीफलम् ।

पूर्वेऽत्र वायौ होल्यां स्यात्प्रजाभूपसुखं तथा ॥

दक्षे भंगश्च दुर्भिक्षं पश्चिमेऽतितृणोद्भवः ॥

धान्यं सौम्ये शिखा खे चेद्वृष्टिर्भूयो गढाश्रया ॥ २० ॥

होलिकादीपनके समय पूर्वका पवन चल तो राजा प्रजाको सुख, दक्षिणका चले तो राज्यभंग और दुर्भिक्ष, पश्चिमका चले तो अधिक तृणोत्पत्ति और उत्तरका चले तो धान्य पैदा होता है । यदि होलीकी शिखा आकाशको जावे तो राजाके कले-पर बहुत वर्षा होती है ॥ २० ॥

भोजनप्रश्ने विचारः ।

अन्नदस्तनुपतिः खलु भोक्ता कर्मपो मदपतिश्च बुभुक्षा ॥

तुर्यपोन्नमिह सद्युतिदृष्ट्या सत्फलं खलयुतीक्षणतोऽन्यत् ॥ १ ॥

लग्नेश अन्न देनेवाला, दशमेश भोजन करनेवाला, सप्तमेश बुभुक्षा (भोजनेच्छा) और चतुर्थेश अन्न कहा है । इस प्रश्नमें शुभ ग्रहका योग और दृष्टि होनेसे शुभ फल और पाप ग्रहका योग और दृष्टि होनेसे अशुभ फल कहा है ॥ १ ॥

लग्ने चतुर्थे शुभदृष्टयुक्ते सुभोजनं लग्नगतेऽथ जीवे ॥

सितेऽपि वा साध्वशनं कुकाले भवेदथो लग्नगते सुरारौ ॥ २ ॥

लग्न और चतुर्थ घर शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट हों तो सुन्दर भोजन किया है । यदि लग्नमें बृहस्पति वा शुक्र हो तो कुसमयमें बहुत अच्छा भोजन किया है और जो लग्नमें राहु हो ॥ २ ॥

मंदेऽपि वा भास्करदृष्टयुक्ते न भोजनं शस्त्रभयं क्वचिच्च ॥

चेद्भानुना दृष्टयुतं न लग्नं तदोपवासो निशि वा कुभोज्यम् ॥

चंद्रे खभे सूष्णमिलातनूजे खभे हि शीतं प्रवदेन्मनीषी ॥ ३ ॥

अथवा सूर्यसे दृष्ट वा युक्त शनैश्चर हो तो भोजन कहीं नहीं होता, किन्तु कहीं शस्त्रका भय होता है । यदि लग्न सूर्यसे दृष्ट वा युक्त न हो तो उपवास होता है वा रात्रिमें कुभोजन मिलता है । यदि चंद्रमा दशम घरमें हो तो गरम और जो मंगल दशम घरमें हो तो शीतल भोजन किया है इस प्रकार प्रश्न पण्डित कहे ॥ ३ ॥

लग्नं पश्यन्ति ये खेटा भोजने तद्रसाः स्मृताः ॥

शुभर्क्षगानां सुरसाः परेषा नीरसाः स्मृताः ॥ ४ ॥

जो ग्रह लग्नको देखते हों उन्हीं ग्रहोंके रस भोजनमें कहने चाहिये । शुभराशिस्थ ग्रहोंके सुरस और अशुभराशिस्थ ग्रहोंके नीरस भोजन कहे हैं ॥ ४ ॥

वक्रिणः प्राप्य च रसान्न भुंक्तेऽथ तनौ न दृक् ॥

तदा केंद्रस्थितरसो वाच्योऽयार्केऽत्र भोजनम् ॥ ५ ॥

जो वे ग्रह वक्री हों तो रसोंको पारकभी भोजन नहीं करता है । जो लग्नपर किसी ग्रहकी दृष्टि न हो तो केंद्रस्थित ग्रहका रस कहना चाहिये ॥ ५ ॥

गोधूमगुडभक्ताद्यमिन्दोश्च परमान्नकम् ॥

सदध्याज्यसितान्नं च भौमे गुडहविष्यवत् ॥ ६ ॥

यादि केंद्रमें सूर्य हो तो गेहूं, गुड तथा भात आदि, चंद्रमा हो तो श्रेष्ठ अन्न, दधि, घी तथा श्वेत अन्न, मंगल हो तो गुड, हविष्ययुक्त ॥ ६ ॥

रक्तान्नं च बुधे मुद्गदुग्धकर्पूरवहुरौ ॥

निशाचणकदध्यादि शुक्रे मृदाज्यवत्कचित् ॥ ७ ॥

तथा लाल अन्न, बुध हो तो मूग दूध तथा कर्पूरयुक्त अन्न, बृहस्पति हो तो हल्दी, चना तथा दधि आदि, शुक्र हो तो मूदु, कोमल तथा घीयुक्त अन्न ॥ ७ ॥

शनौ शिवीतैलतिलाद्यं राहौ पूतिसर्षपात् ॥

समाषान् शिखिनि ब्रूयाद्भूरिद्रव्यसमुच्चयम् ॥ ८ ॥

शनि हो तो आमलकी तैलतिलादिक, राहु हो तो दुर्गन्धयुक्त, अगवित्र, सुरसों तथा उडद आदि और केतु हो तो बहुत पदार्थोंवाला भोजन कहना चाहिये ॥ ८ ॥

अम्बुस्थखेटस्य वशाद्भोज्यान्नस्य रसं वदेत् ॥

स्निग्धान्नं भास्करे तुर्ये शनौ तैलेन मिश्रितम् ॥ ९ ॥

चतुर्थस्थ ग्रहके वशासे भोजनके अन्नका रस कहना चाहिये । यदि सूर्य चौथे घरमें हो तो चिकना अन्न और शनि हो तो तैल मिला भोजन कहे ॥ ९ ॥

नीचग्रहैर्गतरसं कदन्नं स्वल्पसंस्कृतम् ॥

प्रबलार्कमुखैर्लभे भूपालादेर्गृहेऽशनम् ॥ १० ॥

यादि चौथे घरमें नीच ग्रह हो तो नीरस, थोडा पका हुआ तथा कदन्नका भोजन कहे । सूर्यादिक बलवाले ग्रह लग्नमें हों तो राजादिके घरमें भोजन किया है इस प्रकार कहे ॥ १० ॥

सुखपतौ सबले च सुभोजनं चरगृहे त्वसकृत्स्थिरगे सकृत् ॥

द्वितनुगे द्विरथो शुभदृग्युते सदशनं सुखतो न कदाऽन्यथा ॥११

चतुर्थेश बलवान् हो तो अच्छा भोजन किया है । यदि चर राशिका हो तो कई बार और स्थिर राशिका हो तो एक बार, द्विस्वभाव राशिका हो तो दो बार भोजन किया है । यदि चतुर्थेश शुभ ग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो तो अच्छा भोजन सुखसे किया है और जो इससे अन्यथा हो तो किसी समय नहीं किया है ॥ ११ ॥

मूलत्रिकोणगः खेटो यद्गृहं च समाश्रितः ॥

तद्गृहेशस्य गेहे स्याद्भोजनं बलिनोऽथवा ॥ १२ ॥

मूल त्रिकोणमें प्राप्त होता हुआ ग्रह जिस घरमें बैठा हो तो उसी घरके स्वा-

मीके घरमें भोजन किया है अथवा अधिक बलवान् ग्रहके घरमें भोजन किया हुआ कहे ॥ १२ ॥

ग्रहात्कुटुंबात्सहजात्पितृभ्यः पुत्राद्रिपोर्वधृणयाचितेभ्यः ॥

नृपात्स्वामित्रात्क्रयतः क्रमेण भोज्याप्तिरंगादिषु वीर्यवत्सु ॥१३॥

लगादि घर बलवान् हों तो क्रमसे अग्र लिखित मनुष्योंसे भोजनकी प्राप्ति कहे। निज घरसे, कुटुंबसे, भाईसे, पिता मातासे, पुत्रसे, शत्रुसे, वधुसे, कर्जवालेसे, मांगनेसे, राजासे, अपने मित्रसे तथा खरीदनेसे भोजनकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥

तिलानि तण्डुलाश्चैव मसूरा चणकान्नकम् ॥

समुद्रराजमाषश्च गोधूमा यववाजरे ॥

कुलत्थमाषकौ चैव तुषान्नं भास्करक्रमात् ॥ १४ ॥

सूर्यसे तिल, चंद्रसे चावल, मंगलसे मसूर और चना, बुधसे मूंग और लो-विया, वृहस्पतिसे गेहूं, शुक्रसे जौ तथा वाजरा, शनिसे कुल्थी और उदद और राहुसे घास तृणादिकसे उत्पन्न हुआ अन्न एवं ये अन्न सूर्यके क्रमसे जानने चाहिये ॥१४॥

मूलं रवौ रात्रिपतौ च पुष्पं कुजे च पत्रं सितजीवविद्धिः ॥

शाखा शनौ व्यंजनवच्च राहौ केतौ तथा मांसमवेः प्रवाच्यम् ॥१५

अब अन्य प्रकारसे कहते हैं। सूर्यमें मूल, चंद्रमामें पुष्प, मंगलमें पत्र, शुक्र, वृहस्पति तथा बुधमें शाखा, शनिमें व्यंजनयुक्त और राहु तथा केतुमें भेंडका मांस भोजनमें कहना चाहिये ॥ १५ ॥

निशापतौ राशिपतिः प्रविष्टः सुखेन सद्भोजनमिष्टकाले ॥

अतो विलोमे परथा कृशेन्दौ खला लवे वा समये न चान्नम् ॥१६

यदि चंद्रमाकी राशिका स्वामी ग्रह चंद्रमाके साथमें हो तो इष्ट समयपर मित्रके साथ अच्छा भोजन किया है और इस योगसे विलोम हो तो अन्यथा फल कहे। यदि क्षीण चंद्रमा हो और चंद्रराशिके नवांशमें पाप ग्रह हों तो इष्ट समयपर अन्नकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ १६ ॥

सूर्येण चेन्मुत्तसिलं हिमांशौ शुच्युष्णतीक्ष्णं गुरुणा समिष्टम् ॥

सगौरवान्नं भृगुणा बुधेन महोत्सवे स्वादुरसं कुजेन ॥ १७ ॥

यदि सूर्यके साथ चंद्रमाका इत्तसाल हो तो निर्मल, पवित्र, तीक्ष्ण भोजन, वृहस्पतिके साथ इत्तसाल हो तो मीठा भोजन, शुक्रके साथ हो तो भारी अन्नका भोजन, बुधके साथ हो तो महोत्सवमें स्वादुरसवाला भोजन, मंगलके साथ हो ता ॥ १७ ॥

कुस्थान उष्णं शनिनायुधानां कथान्वितं सत्खगामित्रदृष्ट्या ॥
भुक्तं विवाहे शुभवैरिदृष्ट्या विवाहतश्चागतमत्र भुक्तम् ॥ १८ ॥

दुष्ट स्थानमें गरम भोजन तथा शनिके साथ हो तो शस्त्रस्थानमें भोजन किया है । शुभ ग्रहकी मित्रदृष्टि होनेसे विवाहमें भोजन किया है और शुभ ग्रहकी वैरिदृष्टि हो तो विवाहसे आया हुआ भोजन किया है ॥ १८ ॥

भुक्तं भोक्तव्यं वेति प्रश्ने विचारः ।

सदित्तसाले च खलेशराफे चंद्रे प्रभुक्तं परथास्ति भोज्यम् ॥१९॥

यदि चंद्रमा शुभ ग्रहके इत्तसालमें और पाप ग्रहके इशराफमें हो तो भोजन कर लिया है, अन्य प्रकारसे हो तो भोजन किया जावेगा ॥ १९ ॥

स्ववैरिणा निमन्त्रितोऽह शुभमशुभं वा भविष्यतीति
प्रश्ने विचारः ।

वपुषि शनौ धनराहौ दिनकरदृष्टे निमन्त्रितो रिपुणा ॥

लभते शस्त्रविद्यांतच्चाङ्गं शनिभौमयोस्तथैति दृशाम् ॥ १ ॥

लग्नमें शनि, दूसरे घरमें राहु सर्वसे दृष्ट हों तो शत्रुसे निमन्त्रित पुरुष शस्त्रविद्याका लाभ करता है । यदि वह लग्न शनि और मंगलकी दृष्टियोंको प्राप्त हो अर्थात् लग्नको शनि मंगल देखते हों तो तथैव पूर्वोक्त फल कहे ॥ १ ॥

यदांगनाथेज्यसिता बलाढ्याश्चेन्दिन्दुजौ केन्द्रगतौ ससौम्यौ ॥

त्रिषष्ठलाभेषु खलास्तदा स्यात्सुभोजनं प्रीतिकरैर्नराणाम् ॥२॥

जब लग्नेश, बृहस्पति तथा शुक्र बलयुक्त हों और शुभ ग्रहोंके साथ चंद्रमा तथा बुध केन्द्रमें हो तथा ३ । ६ । ११ घरोंमें पाप ग्रह हों तो प्रेम करनेवाले पुरुषोंसे अच्छा भोजन मिलता है ॥ २ ॥

स्वप्नप्रश्ने तथा सुरतप्रश्ने विचारः ।

लभेऽर्कोऽकांशगे वाऽप्यरुणपटरवीन्दूश्च वर्हिं प्रपश्ये- ।

श्रद्धे श्वेताम्बरसङ्गमणिमयमु कुजे रक्तवद्विद्रुमं ज्ञे ॥

स्वर्लोकस्यापि वार्त्ता गमनमपि सुरेज्ये च विद्याप्रसंगात् ।

शुके क्रीडासवार्चा जलपथि तरणं चाक्षखेलां विलासम् ॥ १ ॥

लग्नमें सूर्य वा सूर्यका नवांश हो तो लाल वस्त्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अश्लोक स्वप्नमें देखता है, चंद्रमा हो तो श्वेत वस्त्र, माला तथा मणि, मंगल हो तो लाल रंगवाली वस्तु मृंगाआदि, बुध हो तो स्वर्गलोककी वार्त्ता और वहां जा

वृहस्पति हो तो विद्याप्रसंग तथा आनन्द होना, शुक्र हो तो क्रीडा करना, आसव पीना, जल मार्ग तैरना, चौसर खेलना तथा विलास करना ॥ १ ॥

मंदे म्लेच्छारिभीतिं गतिमपि च वने पर्वते राहुकेत्वोः ।

नीचैः संगं ततो धीरिपुमदनसहोत्थायगश्चोद्धिमांशुः ॥

भृग्वीज्यार्कप्रदृष्टः शुभफलखचरैः केंद्रधर्मेषु संस्थैः ।

सद्भोगः कामिनीनां भवति हि नियतं सद्विलासं सहायः ॥ २ ॥

शनैश्चर हो तो शत्रुसे भय तथा वन पर्वतमें जाना तथा राहु केतु हों तो नीच संग होना इत्यादि स्वप्नमें देखता है । इसके अनन्तर ५ । ६ । ७ । ३ । ११ घरोंमें चंद्रमा शुक्र, वृहस्पति तथा सूर्यसे दृष्ट हो और शुभफलदायक ग्रह केंद्र और नवम घरमें स्थित हों तो कामिनीजनोका सद्भोग सद्विलासके साथ प्राप्त होता है अथवा अपनी स्त्रीके साथ भोग प्राप्त होता है ॥ २ ॥

स्त्रीभोगो वांगनाथे नरि मदनपतिस्त्रीखगेनेत्तसाले ॥

भोगः स्यादेकपत्ये बहुलतरसुखं नैवभोगः कदाचित् ॥ ३ ॥

पुरुषसंज्ञक राशिस्थ लग्नेशका सप्तमेश स्त्रीग्रहके साथ इत्तसाल हो तो स्त्रीभोग प्राप्त होता है और सप्तमेश लग्नेशका एकही स्वामी हो तो सुख बहुत मिलता है, परन्तु भोग नहीं मिलता ॥ ३ ॥

केंद्रे सौम्येत्तसालेन्दुः स्त्रीसंगोऽधिमुखं स्मरे ॥

क्रूरदृष्टे सरोषोऽस्ते सकूरे कलहोऽथवा ॥ ४ ॥

यादि केंद्रमें शुभ ग्रहके साथ इत्तसाल करनेवाला चंद्रमा हा तो अधिमुख स्त्रीसंग होता है । सातवां घर क्रूर ग्रहोंसे दृष्ट हो तो क्रोधके साथ स्त्रीसंग होता है और क्रूर ग्रहोंसे युक्त हो तो कलह अथवा ॥ ४ ॥

पीडा भवेद्यथास्तर्क्षं रतिकृच्च तथा रतिः ॥

जीवे तनौ भृगावस्ते सुखे चंद्रे विलासकृत् ॥ ५ ॥

पीडा होती है । जैसा सप्तम घर हो वैसाही रति करनेवाला और रति कहनी चाहिये । वृहस्पति लग्नमें, शुक्र सातवें; चंद्रमा चौथे हो तो विलास करनेवाली ॥ ५ ॥

सुरूपवेषालावण्ययुक्तरुण्याः सुगन्धिवत् ॥

रतं स्यात्केंद्रराज्येन्दुः शुक्रमुत्तसिले तथा ॥ ६ ॥

सुन्दर वेष, रूप तथा लावण्यसे युक्त तरुणीके साथ सुगन्धयुक्त रति प्राप्त

होती है । दशमकेंद्रगत चंद्रमा शुक्रके इत्तसालमें हो तोभी सुन्दर स्त्रीके साथ उत्तम रतिकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

स्थिरर्क्षे द्विदेहेऽथवा स्वीयनारी चरर्क्षे हि मन्देऽथ केंद्रे परस्त्री ॥

महादुर्भगा भूसुते रोषपूर्णाऽथ पापे चतुर्थे धृता सप्तमे च ॥ ७ ॥

यदि स्थिर वा द्विस्वभाव राशिका शनैश्चर केंद्रमें हो तो अपनी स्त्री और चर-रोशित शनि केंद्रमें हो तो पराई स्त्री महादुर्भगा, मंगल हो तो क्रोधपूर्णा, चौथे घरमें पाप ग्रह हों तो धृता, सातवें घरमें पाप ग्रह हों तो ॥ ७ ॥

स्मृतोद्वाहिता स्त्री प्रभुक्ता स्थिरर्क्षे तनौ वारमेकं द्विदेहेद्विवारम् ॥

चरर्क्षे त्रिवारं च केंद्रे दिनर्क्षे दिवा खेचरे वासरे स्त्री प्रभुक्ता ॥ ८ ॥

निशान्ते निशाखेचरे स्यान्निशायां द्वियोगेऽत्र सन्ध्यासु भुक्ता-
ऽस्ति पूष्णा ॥ स्वभस्थैः स्वगेहेऽशुभैरन्यभेऽन्यस्य गेहेऽरिभे-
ऽरेर्हितर्क्षे हितास्य ॥ ९ ॥

स्मृता, विवाहिता स्त्री भोगी गई है । स्थिर लग्न हो तो एक वार, द्विस्वभाव हो तो दो वार और चर हो तो तीन वार भोगी गई है । यदि उक्त सप्तम स्थानमें रात्रिसंज्ञक एक ग्रह हो तो रात्रिके अन्तमें, रात्रिसंज्ञक दो ग्रह हों तो रात्रिमें और सूर्य हों तो सन्ध्यामें भोगी हुई कहे । यदि अपनी राशिके ग्रह हों तो अपने घरमें, पाप ग्रह तथा अन्य ग्रहकी राशिके हों तो अन्यके घरमें, मित्रराशिके हों तो मित्रके और शत्रुराशिके हों तो शत्रुके घरमें भोगी गई कहे ॥ ८ ॥ ९ ॥

इति रुद्रमणिप्रकल्पितो जगदम्बापादयोः समर्पितः ॥

भवताच्छुभदः सुकर्मिणां पठतां प्रश्नशिरोमणिर्नृणाम् ॥ १० ॥

इति श्रीवाल्मीकवंशावतंसश्रीमन्निपाठिरुद्रमणिप्रकल्पिते

प्रश्नशिरोमणौ विशेषाध्यायः समाप्तः ।

श्रीयुतपण्डितरुद्रमणिविरचित, जगदम्बापार्वतीजीके चरणोंमें समर्पित यह प्रश्नशिरो-मणिनामक ग्रंथ पठनेवाले सुकर्मिपुरुषोंके लिये शुभ फलका देनेवाला होवे ॥ १० ॥

इति श्रीवाल्मीकवंशावतंसश्रीमन्निपाठिपण्डितरुद्रमणिविरचितप्रश्नशिरोमणिनामकग्रंथे

ढाढौल्लिग्रामवास्तव्यपण्डितरामदयालुविरचितभावार्थबोधिनी

नाम भाषाटीका समाप्ता ।

सम्पूर्णेऽयं प्रश्नशिरोमणिः ।

श्लोकः ।

श्रोत्रिद्विजावासविभूषिते शुभे ढाडौलिसंज्ञे चिरतः प्रतिष्ठिते ॥
 ग्रामे महात्मा गुणवृन्दमण्डितश्रीपण्डिताऽऽपूजितपादपङ्कजः ॥ १ ॥
 श्रीवेणिरामो दिनदेवसेवको ह्यासीद्विजो गुर्जरगौडवंशजः ॥
 तस्यात्मजो रामदयालुनामकष्टीकां शुभां प्रश्नशिरोमणेर्व्यधात् ॥ २ ॥

मयाऽसर्वज्ञेनाऽत्र लिखितमशुद्धं कचिदपि ।

ह्ययोग्यं यत्किञ्चित् तदतिकृपया पण्डितजनाः ॥

क्षमध्वं संशोध्योपकृतिकरणाः संस्तुतगुणाः ।

सटीकोऽयं ग्रन्थो भवदभिविलोक्यश्च सुदृशा ॥ ३ ॥

वैक्रमीयेऽब्दके टीका भूरसाङ्गधरामिते ॥

नभःसिततृतीयायां रवौ सम्पूर्णतामगात् ॥ ४ ॥

शिखरिणीछन्द ।

द्विजोंकी ढाडौली जगत बिच विख्यात सुमली ।

तहां वेणीरामो बुधवर महापण्डित बली ॥

वसैं भास्वद्भक्तो तनय तिनको है गतछली ।

दयालुः पीछे है प्रथम विलसै राम विमली ॥ १ ॥

यही नामी जानो भजन करतो विप्रगनको ।

उसीने कीनी है यह सरल टीका सबनको ॥

महाप्रश्नग्रंथे पढि पढि लहो मोद मनको ।

क्षमा कीजो जो जो कछु रहा गयो भूलपनको ॥ २ ॥

सवैया ।

छै अरु द्वै अरु आठ रु एक यहै वरतै जगमें शुभ शाको ॥

श्रावणमास सुदी शुभ तीज विभाकरवारजु नाथ प्रजाको ॥

प्रश्नशिरोमणिग्रंथ मनुष्यगिरामें तिलकसमेत प्रभाको ॥

पूरन कीन प्रवीन जनो तुव सेवक रामदयालु सदाको ॥ ३ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रश्न माला ।



गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“ लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ” छापाखाना,

कल्याण-मुंबई.

भूमिका ।

भाषाका यह प्रश्नमाला नाम पुस्तकभी मेरे पास प्राचीनही था, इसको किसी प्राचीन महात्मा विद्वान्ने बनाया है, ऐसाभी प्रतीत होता है कि चाहे किसी यवनाचार्यके ग्रंथसे उद्धृत किया हो, परन्तु यह कथन पूर्णतया पुष्टताको धारण नहीं करता है, क्योंकि इसके आदिमें हमारी देववाणीमें प्रश्नविधि और मन्त्र लिखा है, जिससे यहभी विदित होता है, किसी पूर्णप्रज्ञ दैवज्ञने अपने विद्याभण्डारसेही निर्माण किया हो, इसके द्वारा प्रश्नकर्त्ताके प्रश्नका फल केवल सिद्धि, असिद्धिमात्र ठीक ठीक सत्य कहा जाता है, इसी कारणसे परोपकारार्थ इसकाभी छपाना उचित समझकर प्रश्नविरोधणिके साथही श्रीयुत सेठ गंगाविष्णुजीको समर्पण कर दिया है ।

सर्वविद्वज्जनानुरागी पं०—रामदयालु.



अर्थ

प्रश्नमाला ।

महादेवं नमस्कृत्य केवलं ज्ञानभास्करम् ॥

वक्ष्ये सद्गुरुणादिष्टं ज्ञेयं शुभमथाऽशुभम् ॥ १ ॥

दोहा—श्रीस्वामी सविता सकल, धर्मकर्मके हेतु । सुखासिद्धिप्रद जननके, वदौ तिन्हें सचेतु ॥१॥

ज्ञानके सूर्य श्रीमहादेवजीको केवल नमस्कार करके जानने योग्य शुभ और अशुभ फल कहूंगा जो कि सद्गुरुने बताया है ॥ १ ॥

अर्कवारेऽर्कमूलमुत्पाद्य तस्योपवासं कृत्वा अवजदादि तस्मिन्
विलिख्य प्रश्नकर्ता मंत्रेण सम्मन्त्र्य त्रिवारं भूमौ क्षिपेत् ॐ नमो
भगवति कूष्माण्डानि देवि सर्वकार्यप्रसाधिनि सर्वनिमित्तप्रका-
शिनि एहि एहि वरदे हिलिहिलि मातङ्गिनि सत्यं ब्रूहि स्वाहा ॥

रविवारके दिन आकशी जड उखाडकर चार पहलूका पासा बनावे और उसी दिन उसका उपवास करके पासेका पूजन करे । उसपर पहलूके क्रमसे ये चार अ, व, ज, द अक्षर लिख दें । प्रश्नकर्ता इस मन्त्रको “ ॐ नमो भगवति कूष्माण्डानि देवि सर्वकार्यप्रसाधिनि सर्वनिमित्तप्रकाशिनि एहि एहि वरदे हिलिहिलि मातङ्गिनि सत्यं ब्रूहि स्वाहा ” पढ़के पासेको अभिमंत्रित करके भूमिपर तीन वार फेंके और जो अक्षर आवें उनका फल आगे देख लेवे ।

१ अअअ—सुनो पृच्छक ! जो काम तुम चिंतमन करते हो, उस कार्यका बहुत संतोप होगा, मनमें धीरज करो, आपही काम सिद्ध हो जायगा, सन्देह मत करो ।

२ अअद—सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, सो कार्य समभाग है, बहुत सुखसे शून्य कार्य है, वह सत्य हो जायगा, सन्देह न कीजिये ।

३ अजद—सुनो पृच्छक ! जो तुम कार्य चिन्तमन करते हो, सो सम होगा, तू इसको छोड़ दे, और कार्य कर, दूसरी चिन्ता कर, उसीसे आरोग्य होगा ।

४ अवद—सुनो पृच्छक ! जिसका तुम चिन्तमन करते हो, वह कार्य बहुत दिनोंमें होगा, गोत्रदेवीका इष्ट करो, कार्य समभाग है परन्तु अर्थ लाभ होवेगा ।

५ अदव—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करते हो, सो तुमको लक्ष्मी प्राप्त होवेगी, अब सहज वन्दुओंसे संतोप पाओगे, तुम्हारे आगे शत्रुलोग शिर नवावेंगे, सन्देह मत करो, यह बात सत्य है ।

६ अवअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करते हो सो कार्य कठिन है, जिं-
ससे तुम बात करते हो, वह तुम्हारा शत्रु है, अपना काम सावधानीसे करो, सब शत्रु
मित्र हो जावेंगे, तब काम सत्यही सिद्ध होगा, सन्देह मत करो ।

७ अवज-सुनो पृच्छक ! तुमको चिंता बहुत है, तू अकेला है, भार बहुत है,
तुझ अकेलेहीसे कार्य बन जावेगा, सब शोक छोड़, कल्याण होवेगा, पहिले तेरे संगी
लोगोंने जो सलाह दी है, उसे मनमें मत धर ।

८ अदअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, सो कार्य समभाग है, तू
अर्थलाभ चाहता है, शीघ्रही कार्य सिद्ध होवेगा ।

९ अवव-जो तू मनसे चिन्तमन करता है, उस कार्यसे बहुत विलम्ब है, तू
किसीकी शिक्षा मत कर और अपनी रक्षा करता रहो ।

१० अदद-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, उस चिन्तमनका विलम्ब
बहुत है, तेरी कुबुद्धि है, मन ठिकाने नहीं है, इस कारणसे तेरा कार्य कठिन, कार्य
भला नहीं ।

११ अदज-सुनो पृच्छक ! तू चिन्तमन करता है, सो रामकार्यके समान
बनेगा, राममंत्र जप करता रहो, अपना मन दृढ करो, धीरजसे सफल होवेगा ।

१२ अजज-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है सो कार्य सफल होवेगा,
तुम कुबुद्धिको छोड़ दो, सद्बुद्धि धारण करो, तबही प्रसन्नतासे काम बनेगा, अब
तुम्हारे दिन भले आये हैं ।

१३ सुनो पृच्छक ! जिस कार्यके निमित्त पूछते हो, वह काम सफल होवेगा,
तुम्हारे शत्रु भला नहीं चाहते है, उनका विश्वास नहीं करना, शत्रुओंकाही बुरा होवेगा,
तुम किसीका बुरा मत करो, परमेश्वर भला करेगा ।

१४ अजज-सुनो पृच्छक ! जिस कार्यके निमित्त पूछते हो, वह कार्य कठिन
है, जैसे असवार घोड़ेपर चढ़ भाग निकले है, वैसा कार्य तुम्हारा है, कुछ थोडासा
सहजमें होवेगा ।

१५ अजअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, सो चिन्तमन सफल
होवेगा ।

१६ अजव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, उसमें भगवान् भला
करेंगे, तेरे मनका भ्रम दूर होगा, उद्यम तत्काल सिद्ध होगा ।

१७ ववव-सुनो पृच्छक ! तेरा कार्य तत्काल सफल होगा, तुम इष्टदेवताकी
पूजा करो ।

१८ ववअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, सो कार्य तत्काल हो-
वेगा, किसीका विश्वास नहीं करना, जो तेरे सामने तो बढाई करते हैं, आरोग्य-

ताका आशीर्वाद देते हैं, पीछे शत्रुभाव रखते हैं, उनका कहना कभी न मानना, चिन्ता मत करो, वांछित फल पाओगे ।

१९ ववज—सुनो पृथक ! जो तू चिन्तन करता है, सो जाना चाहते हो, जानेसे अर्थलाभ प्राप्त होवेगा, कार्यकी चिन्ता मत करो ।

२० वदव—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो, उस कार्यमें मन लगाकर उपाय करो तो वह कार्य आनन्दसे पूर्ण होवेगा और बहुत लाभभी होवेगा ।

२१ वजव—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो, उससे तेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, मनको शान्त कर, चिन्ता सन्देह दूर होगा, कुछ धर्मकार्य करो ।

२२ ववद—सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है, उससे बन्धुओंमें प्रीति होवेगी ।

२३ वदद—सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है, उसको परमेश्वर पूरी करेगा, तेरे बंधु मित्र भला नहीं चाहते हैं, भगवान्का स्मरण करते रहो ।

२४ वजद—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो, वह अर्थका है, धन प्राप्त होगा, कुछ अल्पकष्ट होगा, अन्तमें परमेश्वर भला करेगा ।

२५ वदज—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो, उस कार्यका कुछ अंश सिद्ध होगा, सुख आनन्द बहुत प्राप्त होवेगा, चिन्ता मत करो ।

२६ वजव—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो, सो कार्य कठिन है, उसका उद्यम मत करो, करनेसे नहीं होगा ।

२७ ववव—सुनो पृच्छक ! तुम्हारे कार्यका एक शत्रु है, वह बुरा चाहता रहता है, शत्रु आप दूर हो जायगा, यह कार्य पांच पंचोंमें मिलकर सिद्ध होवेगा ।

२८ ववज—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो उस कार्यके बहुत शत्रु हैं, किसीका विश्वास नहीं करना, कार्य अधिकतासे सिद्ध नहीं होगा और जो तू इस कार्यमें हठ करेगा तो कष्ट प्राप्त होवेगा ।

२९—ववज—सुनो पृच्छक ! यह कार्य बहुत कष्टका है, लाभकारी थोड़ा है, जैसे लोहेकी नावसे समुद्र तरा चाहे तैसा तेरा कार्य है, इसका यत्न मत करो, सिद्ध नहीं होवेगा ।

३० ववव—सुनो पृच्छक ! तेरे कार्यमें विलम्ब है, समय पाकर होवेगा जैसे जलकी मछली जल विना पलमात्रमें हाथ आ जाती है और जल विना मर जाती है, तैसीही यह कार्य बड़े आग्रह और यत्नसे हाथ आवेगा, परन्तु नाश तत्काल हो जायगा इससे यत्न बर्धो करते हो ।

३१ ववद—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो, सो कार्य बहुत शीघ्र

सिद्ध होवेगा, चित्तको दृढ़ करो, जाना सैर करना छोड़ दो और कार्यका विचार करो, वह सफल होगा, चिन्ता मत करो ।

३२ वज्रज-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, वह तुरन्त सिद्ध होगा, परमेश्वरकी कृपासे अर्थलाभभी होगा, इसकी शीघ्रता करो ।

३३ ददद-सुनो पृच्छक ! इस कार्यका उद्यम मत करो, क्योंकि यह भाई बन्धु मित्र कुटुम्बियोंके बलसे सफल होवेगा, अकेलेकी वातही क्या है, इससे मिलकर करो ।

३४ दजद-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है सो जाना चाहता है, इसका उद्यम करनेसे अर्थलाभ होवेगा, इससे तत्काल करो ।

३५ ददज-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, सो कार्य काठिन है, इसे छोड़ दे, अन्य सब सिद्ध होवेंगे ।

३६ ददअ-सुनो पृच्छक ! जो तू कार्य चिन्तमन करता है, सो कार्य दूर है, जैसे व्यंग अभागोका कार्य भाग्यसे सन्तोषसे सिद्ध होवेगा ।

३७ दजअ-सुनो पृच्छक ! जो तू कार्य चिन्तमन करता है, उसके बहुत शत्रु है, तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके भरोसेपर कार्य मत करो, क्षेम सन्तोषपूर्वक काम सिद्ध होवेगा ।

३८ दजअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करते हो, वह कार्य सफल होगा । अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा, कुछ पुण्य करते रहो, शीघ्रही पुत्र लक्ष्मी यश मिलेगा, कुशलताके साथ प्रसन्नता रहेगी ।

३९ दवद-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करते हो यह कार्य दुष्टभाव है, इस कार्यसे कुछ प्राप्त तो होगा, परन्तु तुम अपने भाई बन्धुओंका आराधन करो, विरोध करना छोड़ दो, कार्य सफल होवेगा ।

४० दअद-सुनो पृच्छक ! तुम मनका किया चाहते हो, इस कारणसे कर्मके ऊपर ध्यान धरो, तुमको आनंद प्राप्त होवेगा ।

४१ ददव-सुनो पृच्छक ! इस कार्यके होनेकी आशा बहुत है, पर तेरे शत्रु तेरा भला नहीं चाहते हैं, उनका विश्वास नहीं करना, अफल होवेगा ।

४२ दजव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तमन करता है, उसे छोड़कर अन्य कार्यका उद्यम करो, सिद्ध होवेगा ।

४३ दवज-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करते हो, उससे अर्थलाभ होवेगा, पुत्र, धन, यश अधिक प्राप्त होवेगा, कामना पूर्ण होवेगी ।

४४ दअज-सुनो पृच्छक ! तुम उद्यम किया चाहते हो और कार्यका चिन्तमन करो, तुम्हारे मनुष्य मनके शुद्ध नहीं हैं, इस कामका तुच्छ फल होगा ।

४५ दवअ-सुनो पृच्छक ! तेरे उद्यमके दिन हैं, तेरा कार्य सर्व सिद्ध होगा, कुछ पुण्य धर्म करते रहो ।

४६ दअव-सुनो पृच्छक ! तुम्हारे लिये एक वस्तु मिलेगी, धैर्य करो, पुण्यसे सब कार्य सिद्ध होगा, चिन्ता मत करो ।

४७ दवव-सुनो पृच्छक ! तेरे तो क्षेत्रपालका उपाय है, उसीकी पूजा करो, अन्तमें कार्यकी सिद्धि होगी ।

४८ सुनो पृच्छक ! जो तू चिंतमन करता है, सो कार्य भला नहीं इसको छोड़ अन्य करो, पुण्य जप करो, सब कार्यकी सिद्धि होगी ।

४९ जजज-सुनो पृच्छक ! सर्व सिद्धि होवेगी, जैसे द्वितीयाके चंद्रमार्की कला दिन दिन बढ़े है इस प्रकार तेरा काम दिन दिन सिद्ध होगा ।

५० जजद-सुनो पृच्छक ! तुम इष्टदेवताका स्मरण किया करो, मनोकामना सिद्ध होगी, सर्व जनकी रक्षा होवेगी ।

५१ जदद-सुनो पृच्छक ! तेरे कामका एक शत्रु है, उसे बहुत बली समझना, विश्वास नहीं करना, दिन पायके कार्य सफल होवेगा ।

५२ जदव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिंतमन करता है सो कार्य सहजमें सफल होवेगा, परन्तु इष्टदेवताकी पूजा करो ।

५३ जवद-सुनो पृच्छक ! जो तू चिंतमन करता है वह कार्य कठिन है, तुम्हारे मित्र कपटी हैं, उनका कहा न मानना, अपने भाई मित्रोंको देखते रहना, तब कार्य सफल होवेगा ।

५४ जजव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिंतमन करता है उस कामनाको परमेश्वर भला करेगा, तेरे बुरे दिन गये, भले दिन आये हैं ।

५५ जदज-सुनो पृच्छक ! यह कार्य कियेसे तुमको सिद्धि होवेगी, कुछ होम जप करो ।

५६ जअद-सुनो पृच्छक ! तुम औरको आशा करते हो, आशा भगवान्की करनी चाहिये, उद्यम करनेसे कार्य सिद्ध होगा, चिन्ता मत करो ।

५७ जवज-सुनो पृच्छक ! तेरा कार्य तत्काल होवेगा परन्तु तुम धैर्य करो, धैर्य करनेसे सुख मिलेगा ।

५८ जअव-सुनो पृच्छक ! तेरे मनमें बड़ा भ्रम है, जिस कार्यका उद्यम करते हो, उसमें बहुत श्रम होगा, इसे छोड़ और काम करो, भला होगा ।

५९ जजअ-सुनो पृच्छक ! तुम अर्थ चिन्तमन करते हो, उसका फल तुम श्रीघ्राही पाओगे, पहिले तो तुमने अनेक उद्यम किये थे परन्तु अब जो उद्यम करोगे तो सब कार्य सिद्ध होंगे ।

६० जदअ—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करते हो सो कार्य विषरूप है-आगमका चाहते हो, इष्टदेवताकी पूजा करो, कार्य सफल होगा ।

६१ जवव—सुनो पृच्छक ! यह कार्य भला नहीं, दीपकके समान है, जवतकतेल रहता है तबतक जलता है और जो वनका प्रचण्ड पवन लग जाय तो बुझ जाता है इस प्रकार तेरा कार्य है, विश्वास किसीका मत करना, उद्यम करते रहना, कार्य सफल होगा ।

६२ जअज—सुनो पृच्छक ! यह कार्य तेरा कठिन है, विना कष्टके न होवेगा. तेरे शत्रु कार्यको बिगाडते हैं, उनका विश्वास न करना, अन्तमें भला होगा ।

६३ जवअ—सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तमन करने हो उसका घटीमें बनाव और घटीमें बिगाड दीख पडता है, कार्यको हुआ हुआ कहते हो परन्तु होता नहीं, कुछ प्रयोग विना यह काम सिद्ध न होगा, इसीसे कुछ गायत्रीजप, होम, स्तोत्र पाठ करो, तब इसकी सिद्धि होगी ।

६४ जअअ—सुनो पृच्छक ! यह कार्य कठिन है ।

१ अअअ	१७ ववव	३३ ददद	४९ जजज
२ अअद	१८ ववअ	३४ दजद	५० जजद
३ अजद	१९ ववज	३५ ददज	५१ जदद
४ अवद	२० वदव	३६ ददअ	५२ जदव
५ अदव	२१ वजव	३७ दजअ	५३ जवद
६ अवअ	२२ ववद	३८ दअअ	५४ जजव
७ अवज	२३ वदद	३९ दवद	५५ जदज
८ अदअ	२४ वजद	४० दअद	५६ जअद
९ अवव	२५ वदज	४१ ददव	५७ जवज
१० अदद	२६ वजअ	४२ दजव	५८ जअव
११ अदज	२७ ववअ	४३ दवज	५९ जजअ
१२ अजज	२८ वदअ	४४ दअज	६० जदअ
१३ अवव	२९ वअज	४५ दवअ	६१ जवव
१४ अअज	३० वअअ	४६ दअव	६२ जजअ
१५ अजअ	३१ वअद	४७ दवव	६३ जअव
१६ अजव	३२ वजज	४८ दजज	६४ जअअ

इति प्रश्नमाला समाप्त ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“ लक्ष्मीवैकटेश्वर ” छापाखाना, कल्याण—मुंबई.

हैं पुस्तक मुंबईत, वि. के. लांढे यांनीं—कांदेवाडीत कल्याण मोतीची चाळ नं० २

“ विश्वंभर ” छा० छा० सन १९१२.



